

# DCWC Newsclip

Vol XXI

Issue 01

January 2015



PM to Launch Beti Bachao



Campaign-Beti Bachao Beti Padhao



Sukanya Samridhi Khata



Violence against Women



2015  
Documentation Centre on Women and Children (DCWC)  
National Institute of Public Cooperation  
and Child Development (NIPCCD)  
5, Siri Institutional Area, Hauz Khas  
New Delhi - 110016

## ***DCWC Newsclip***

### About the Document

DCWC receives about 23 newspapers (including 9 Hindi newspapers) published from different regions of the country. Important news items, including various schemes and programmes of Government of India focusing on women and children issues are picked and arranged subjectwise under broad heads and sub-heads. These are collated monthly as `DCWC Newsclip`. Its digital version is posted on the NIPCCD website ([www.nipccd.nic.in](http://www.nipccd.nic.in)) on the slot dedicated for Documentation Centre on Women and Children for reference of readers.

# CONTENTS

| <i>Subject</i>  | <i>Page No.</i> |
|---|-----------------|
| <b>1. Child Welfare</b>   |                 |
| 1.1 Child Protection (Missing Children/Child Slavery/Street Children/Child Adoption/Child Rights)   | 1               |
| 1.2 Role of Civil Society/Statutory Bodies/Civil Society Initiative (DCPCR-Khoj/NCPCR/MSCPCR/McDonald's Initiative-Street Kids)   | 4               |
| 1.3 Education/Education System (School Dropouts/Gifted Education Mahaabhiyan/Differently-abled Students/Vocational Training in Schools/Annual Statement of Education Report-PRATHAM/Online Facility-Disabled Students/Quality Education/Play Schools/Primary Schools/CBSE-Text Book Revision Committee) | 7               |
| 1.4 Girl Child/Child Sex Ratio/Female Foeticide (Sex-determination Test/Female Foeticide-Haryana/Campaign-Save Daughter/National Girl Child Day)  | 19              |
| 1.5 Child Welfare-other issues (National Bravery Award)   | 33              |
| <b>2. Health and Nutrition issues</b>   |                 |
| 2.1 Child/Adolescent (Pulse Polio Immunisation/Oral Polio Vaccine/Tribal Children's Health/Swine Flu)   | 37              |
| 2.2 <b>Mental Health/ Behavior Problems</b>   |                 |
| 2.3 Nutrition/Malnutrition/ Dietary patterns (Malnourished Child/Malnutrition Chart of South Asia)  | 49              |
| 2.4 Women Health/Reproductive Health (Pregnancy/Breast Cancer/HIV/AIDS Awareness/Health Facility-Dibrugarh)   | 52              |
| 2.5 Health and Nutrition - other issues (Hygiene Lesson- Food Vendors/War on Drugs/Sanitary Mates/Health Scheme)  | 53              |
| <b>3. Women/Gender issues</b>   |                 |
| 3.1 Women Empowerment (Women Reservation-Delhi Police/Training Camp- Self Defence /Domestic Worker/Self Defence-Acid Attack/Nari Shakti/She Taxi)   | 60              |
| 3.2 <b>Marriage/Dowry/Divorce</b>   |                 |
| 3.3 Violence and Crime against Women (Rape Cases/Women Trafficking/Domestic Violence)   | 69              |
| 3.4 Women in difficult Circumstances /Women in Distress (Surrogacy)   | 77              |
| 3.5 Women Safety/Support Services (Girls Safety Mobile Apps/Himmat Apps/Women Helpline-Railway/Nirbhaya Centre/One Stop Centre/Make Delhi Women Friendly/Eco Toilets for Women)   | 78              |
| 3.6 Women -other issues (National Women's Day)  | 86              |

#### 4. Demography and Vital Statistics

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 4.1 | Census Data/Evaluation/Survey Reports (DCPCR Report/UN Report/UNICEF Report- Malnutrition/Data-State's Child Sex Ratio/NCRB Data- Cybercrime) | 88 |
| 4.2 | Birth Rate/ Mortality Rate/ Morbidity Rate  | 96 |
| 4.3 | Demography and other relevant statistics (Data- Rape Cases/Street Crime/Violence against Women/Population)                                    | 97 |

#### 5. Schemes/ Programmes relating to Women and Children

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 5.1 | Schemes/ Programmes (Scheme-Beti Bachho Beti Padhao/SAGY/Ladli Yojana/ MGNREGA/Swachh Mission/Kilkari/Sabko Ghar/Pradhanmantri Jan Dhan Yojana/ Sukanya Samridhi Khata) | 101 |
| 5.2 | <b>Policies</b>   |     |
| 5.3 | Legislation/Bills/ Court Orders (Surrogacy Bill/Companies Act/Food Security Act/ Court Order-Divorce Case)  | 124 |
| 5.4 | Budget Allocation/Funding (Fund-Special fund for Girls)   | 129 |
| 5.5 | Schemes - Miscellaneous   | 130 |

#### Source

|                           |                           |                              |                             |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Amar Ujala(H)</i>      | <i>Deccan Herald</i>      | <i>Indian Express</i>        | <i>Rashtriya Sahara (H)</i> |
| <i>Asian Age</i>          | <i>Economic Times</i>     | <i>Jansatta (H)</i>          | <i>Statesman</i>            |
| <i>Assam Tribune</i>      | <i>Free Press Journal</i> | <i>Lok Panchayat (H)</i>     | <i>Times of India</i>       |
| <i>Dainik Jagran (H)</i>  | <i>The Hindu</i>          | <i>The Pioneer</i>           |                             |
| <i>Dainik Tribune (H)</i> | <i>Hindustan (H)</i>      | <i>Punjab Kesari (H)</i>     |                             |
| <i>Deccan Chronicle</i>   | <i>Hindustan Times</i>    | <i>Rajasthan Patrika (H)</i> |                             |




# 1. Child Welfare

## 1.1 Child Protection (Missing Children/Child Slavery/Street Children/Child Adoption/Child Rights)



Rashtriya Sahara (H), January 1, 2015, P. 8



The Statesman, January 3, 2015, P. 5  
(Child Slavery)



# Risk factor leads street children to crime

**ABHAY SINGH**  
abhay8942@gmail.com  
New Delhi, 18 January

Though the social scientists are still unable to find the main reason for juvenile delinquency but street children feel that it is the risk factor, which leads them to crime.

The street children while talking to The Statesman said that some risk factors associated with juvenile crime are poverty, repeated exposure to violence, drugs, easy access to firearms, family violence and peer pressure.

12-year-old Shambhu, a rag-picker in Lajpat Nagar, said: Some threaten them with killing their parents if they don't work for them.

Whereas 14-year-old

Jyoti, a tea seller, said: "Most of the children learn bad habits from their parents. Peers are the main reason for turning them into substance abuse. Children who get into substance abuse are more likely to get into crime."

A World Congress on Juvenile Justice System will be held from 26-30 January in Geneva where street children of Delhi will send their inputs on how to stop juvenile from slipping into crime.

When asked how the juvenile justice system can work in favour of children, 15-year-old Pinky, a domestic help in west Delhi, said: "I am happy that this issue is consulted with children."

The street children demanded that govern-

ment should ensure proper schooling of each and every child so that they can transform themselves into good and responsible citizens of the country.

According to the official data of Delhi police of 2014, out of the 6944 snatching cases last year, 2556 were arrested.

Interestingly 90.85 per cent of the arrested were first time offenders and 61.47 per cent of them were illiterate or school drop-outs.

"We will share these findings in World Congress on Juvenile Justice System with policy makers, with a hope that children will be ensured with protection cover to prevent them slipping into the crime," said Sanjay Gupta of NGO Chetna.

The Statesman, January 19, 2015, P. 1  
(Street Children)

## कहां गायब हो रहे हैं दिल्ली के बच्चे?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : बच्चों को सुरक्षा को लेकर सरकार व पुलिस द्वारा भले ही लाखों दावे किए जा रहे हों लेकिन सच्चाई यह है कि राजधानी में बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी है। मानव तस्करी बच्चों को अगवा कर रहे हैं और इनका जाल विदेशों तक फैला हुआ है। इन्हें पकड़ पाना पुलिस के लिए बहुत कठिन साबित हो रहा है। लापता बच्चों में पुलिस उन्नी बच्चों को ढूँढ सकती है, जो घर से भाग जाते हैं। थाना पुलिस व एनजीओ की नजर में आने पर ऐसे बच्चों को आश्रय गृहों में रखवा दिया जाता है।

बच्चों का गायब होना बेहद गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बच्चों को इस दिशा में सख्त कदम उठाने का निर्देश जारी कर चुका है। लेकिन इस सबके बाद भी पुलिस मानव तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पा रही है। बताया जाता है कि मानव तस्करी गिरोह छोटे बच्चों को अगवा करने के बाद उन्हें नशीली दवा खिलाकर गोपनीय जगह पर रखते हैं। फिर उनकी पहचान छिपाने के लिए उनका हलिया बदल कर उन्हें दूसरे बच्चों में भेज दिया जाता है। वहां उनसे चौक-चौराहों व धार्मिक स्थलों पर भीख मंगवाई जाती है। लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। सूचना का अधिकार



- बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी, पुलिस पकड़ पाने में नाकाम
- ऑपरेशन मिलाप के तहत 73 बच्चों को ढूँढ चुकी है अपराध शाखा

| जिला                  | गुमशुदा बच्चे | बरामद | बरामद नहीं |
|-----------------------|---------------|-------|------------|
| पूर्वी दिल्ली         | 818           | 649   | 163        |
| दक्षिणी-पूर्वी        | 788           | 576   | 212        |
| बाहरी दिल्ली          | 1186          | 892   | 294        |
| मध्य दिल्ली           | 237           | 201   | 36         |
| पश्चिमी दिल्ली        | 850           | 680   | 169        |
| दक्षिणी-पश्चिमी       | 669           | 519   | 150        |
| नई दिल्ली             | 22            | 11    | 11         |
| उत्तरी दिल्ली         | 166           | 141   | 25         |
| दक्षिणी दिल्ली        | 599           | 509   | 88         |
| उत्तरी-पूर्वी         | 403           | 307   | 96         |
| उत्तरी दिल्ली         | 726           | 574   | 194        |
| क्राइम एंड रेल्व क्लब | 30            | 25    | 5          |
| कुल                   | 6494          | 5084  | 1443       |

वर्ष 2012 में बच्चों की गुमशुदगी के 3503 मामले सामने आए थे लेकिन वर्ष 2013 में यह आंकड़ा 5565 पर पहुंच गया। वर्ष 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 6,227 हो गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ऑपरेशन मिलाप अभियान के तहत 73 बच्चों को ढूँढकर उन्हें उनके माता-पिता से मिलवा चुकी है। पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्नी का कहना है कि गुमशुदा बच्चों के मामले में अगर उन्हें यह शिकार्यत सुनने को मिली कि किसी धानस्थान ने मामला दर्ज करने में लापरवाही की, तो उसकी खेर नहीं होगी।

(आरटीआई) से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2013 में प्रतिदिन 18 बच्चे गायब हुए। सबसे ज्यादा बच्चे बाहरी दिल्ली से गायब हुए। इनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा रही। इस मामले में पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी-पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली का क्रमशः दूसरा, तीसरा एवं चौथा स्थान रहा। पूर्वी दिल्ली में 459 लड़कियों की गुमशुदगी दर्ज की गई।

### नाबालिगों की सुरक्षा गंभीर मुद्दा

नाबालिगों के लिए काम करने वाली सुरक्षा नवसृष्टि ने आरटीआई के तहत वर्ष 2013 में नाबालिगों के गायब होने के संबंध में सूचना मांगी थी। नवसृष्टि के प्रवक्ता शनि कहते हैं कि आरटीआई से जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। राजधानी में प्रतिदिन 18 बच्चे गायब हुए और यह बेहद गंभीर मसला है। वह कहते हैं, पिछले कुछ समय में

राजधानी में मानव तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में नाबालिगों का गुम होना चिंताजनक है। गत वर्ष 3059 नाबालिग लड़कियां गायब हुईं। वहीं, 9 जून 2014 तक दक्षिणी-पूर्वी दिल्ली से कुल 121 नाबालिग गायब हुए। संगम विहार से सबसे ज्यादा 16 नाबालिगों की गुमशुदगी दर्ज की गई, जबकि सरिता विहार से 15, जैतपुर से 15, ओखला से 12 व गोविंदपुरी से 12 नाबालिग गुम हुए।

Dainik Jagran (H), January 20, 2015, P. 6  
(Missing Children)



## Najma vows support to 'action 2015' for child rights

STATESMAN NEWS SERVICE  
New Delhi, 14 January

A global movement to fill gaps in child rights, end poverty, inequalities and climate change was unveiled here today to make 2015 a year of action, not half measures.

On the occasion of rolling out "action/2015", a global movement of people united by the belief that 2015 can be a pivotal year for people and the planet, Union Minister of Minority Affairs, Ms Najma Heptullah here said, "While the government launches several programmes for development, it is critical that through support from NGOs and civil society we are able to identify the gaps to ensure their effective implementation - so that these reach the people that they are intended for."

Fifteen years ago, the leaders of the world set the Millennium Development

Goals to make the world safer, healthier and fairer, she said, adding that "those goals expire in 2015... Much has been achieved - especially in health and education."

Hailing children from across India who addressed their demands at the event, she added, "There are no two opinions that education is the birthright of every child, the Prime Minister has also stressed on sanitation issues and of course child protection and abuse of children is another serious concern in our country - Let us all commit to work together for the betterment of children and to build a better society."

Earlier, Asura (a girl from West Bengal) had sought leaders' attention on education, Sohail (from New Delhi) had pointed out the needs in terms of health services and Shivani (from Gujarat) and Dharamraj (from Rajasthan) had stressed the demands for greater child protection and an end to discrimination.

The Statesman, January 15, 2015, P. 5  
(Child Rights)

## Alarm bells as illegal adoption networks mushroom!

• OUR BUREAU  
New Delhi

The Central Adoption Resource Authority (CARA), an autonomous body under the ministry of women and child development for overseeing adoption of children separated from biological parents, rung the alarm bells early this week over the mushrooming illegal adoption networks that do not follow its strict guidelines.

It has issued a notice against the illegalities resorted to adopt children after noticing that many couples drop out after registering with the authorised centres for adopting children even. One reason for dropout may be that the waiting list at these centres keeps

structured them to turn over any abandoned child to the local police station, an authorised agency or the child welfare committee.

"No person or institution shall run an adoption agency or carry out adoption, placement of orphan, abandoned and surrendered children without a certificate of recognition from the competent authority," the notice added.

In another advertisement, CARA cautioned parents: "Do not hand over the child to any unauthorised person." For adoptive parents, too, the agency had a word of caution: "Always adopt from a government-recognised adoption agency."

However, if a couple wants to adopt an infant in India legally, it will have to wait for long as the

### COME EASY, GO EASY

growing, but CARA suspects that many withdraw their request because of acquiring the child illegally.

It noted that there is also drop in the number of children reaching the adoption centres for the legal adoption as the most may be going into the illegal networks, making mockery of the institutionalised care guaranteed to such children.

In a public notice in newspapers on Monday, addressed to all hospitals, maternity homes and nursing homes, the nodal body governing all adoptions in the country in-

queues are much longer than five years ago.

For two infants in the 0-2 years age group available for adoption in Haryana, there are 169 couples waiting.

For 20 such children in West Bengal, there are 597 couples waiting. For 12 infants in Delhi, the number of couples waiting are 750. In Maharashtra, which has the highest number of children in this age group at 225, there are 508 couples on the waiting list.

These statistics are compiled by CARA reflect the dwindling number of infants in adoption centres. Five years ago, the average ratio across the country would be around 60 infants to 100 prospective parents.

Free Press Journal, January 23, 2015, P. 6  
(Child Adoption)



1.2 Role of Civil Society/Statutory Bodies/Civil Society Initiative (DCPCR-Khoj/NCPCR/ MSCPCR/McDonald's Initiative-Street Kids)

**NO NEWS OF 7,000 KIDS** DCPCR WILL TAP INFORMATION ON CHILDREN,  
CIRCULATE IT TO 45 HOMES IN CITY

## Child rights body begins 'Khoj' for missing children

**EXPRESS NEWS SERVICE**  
NEW DELHI, DECEMBER 31

THE Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) on Wednesday launched operation 'Khoj' — an initiative to aid the search for missing children in Delhi. Over 7,000 children were reported missing in the capital in 2013.

DCPCR chairperson Arun Mathur said under operation 'Khoj', the DCPCR will tap information regarding missing children from all sources and circulate it with photographs to all networked children's homes for immediate action.

"A network of approximately 45 children's homes in Delhi has been created. In case the child is found in one of the homes, DCPCR will take appropriate steps to identify and rehabilitate the child with his/her family, as per law," Mathur said.

The information will be sought through email ID missingchild.dpcpr@gmail.com.

In September 2013, a meeting on rehabilitation of rescued child



**NO MINOR PROBLEM**  
NUMBER OF CAPITAL'S CHILDREN WHD WENT MISSING

| Year | Number |
|------|--------|
| 2008 | 6,268  |
| 2009 | 5,946  |
| 2010 | 5,091  |
| 2011 | 5,111  |
| 2012 | 5,248  |
| 2013 | 7,235  |

labourers, in which the chairperson, members of National Commission for Protection of Child Rights and officers of the various departments of the Delhi government, state commissions for protection of Child Rights from Bihar, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh participated.

The national consultation on inter-state coordination for rehabilitation of rescued child labour, the DCPCR said, underlined the need for strengthening the rehabilitation mechanisms of child labour in source states as well as in Delhi and also the necessity of improving inter-state coordination.

The DCPCR then decided to commission a study to assess and analyse the available data regarding rescue, recovery and post-rescue procedures besides other issues of inter-state coordination.

The Indian Express, January 1, 2015, P. 2  
(DCPCR-Khoj)



## खोए बच्चों की तलाश के लिए बाल आयोग की नई पहल

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 1 जनवरी। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने दिल्ली में खोए बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन खोज कार्यक्रम की शुरुआत की है। आयोग के अध्यक्ष अरुण माथुर ने बताया कि दिल्ली में दिनों-दिन बच्चों के लापता होने की खबरों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ऑपरेशन खोज की पहल की है। आयोग के सदस्य शशांक शेखर की देखरेख में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है।

माथुर ने बताया कि आयोग खोए बच्चों को ढूँढने और पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आयोग ने खोए बच्चों का पता लगाने के लिए बच्चे के फोटोग्राफ्स सहित उसकी जानकारी का विवरण सभी स्रोतों को भेजने के साथ-साथ बाल गृहों के नेटवर्क को भेजने का प्लान बनाया है। माथुर ने बताया कि दिल्ली में 45 बाल गृहों का एक नेटवर्क बनाया गया है। बच्चे के लापता होते ही उसकी तस्वीर सहित उसका विवरण सभी बाल गृहों में नेटवर्क के द्वारा प्रसारित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आयोग खोए बच्चों का पता लगाकर उनकी देखरेख और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगा।

उनके मुताबिक बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल गृहों की नेटवर्क के दायरे को बढ़ाने के लिए तैयार है और उसके लिए बाल गृहों के प्रबंधकों, बाल गृहों के माँ और पिता आदि को संवेदनशील बनाने के लिए लगातार बैठकें आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग को आशा है कि इन प्रयासों से खोए हुए बच्चों को ढूँढ निकालने में मदद मिलेगी और बच्चों के खोने की घटना में कमी आएगी। माथुर ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार 2008 में 6268 बच्चे थे वहीं यह संख्या 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 में क्रमशः 5946, 5091, 5111, 5248 और 7235 थी, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 2010 में बाल श्रम उन्मूलन के लिए बनाई गई कार्य योजना को दिल्ली में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए निरंतर निगरानी कर रहा है और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार पूरी तरह से निगरानी कर रहा है। माथुर ने बताया कि दिल्ली में बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्य योजना के तहत समय-समय पर अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं के साथ बैठकें, चर्चा और सुझाव आयोजित कर उचित पटल पर समन्वय स्थापित करने का काम कर रहा है। आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और इसके सदस्यों, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ आदि के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बैठकें और चर्चाएं आयोजित कर बाल श्रम उन्मूलन के विषय में नीतिगत फैसले लेता आ रहा है। यही नहीं आयोग बाल कल्याण समितियों के सदस्यों, जिलाधीशों और उपजिलाधीशों के साथ-साथ बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, प्रयास और बचपन बचाओ आंदोलन जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर समय-समय पर बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में संवेदनशीलता का भाव पैदा करने के लिए तालमेल बैठाने का कार्य भी बखूबी कर रहा है।

Jansatta (H), January 2, 2015, P. 3  
(DCPCR-Khoj)

## SC pulls up govt for vacancies in child rights body

UTKARSH ANAND

NEW DELHI, JANUARY 13

SET to hear a PIL on missing children in the country, Justice Madan B Lokur decided to visit the website of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and take a look at their work. He was taken aback by what he saw. For more than three months, the child rights body exists only on paper, with neither chairperson nor any of its six members in saddle.

On Tuesday, when the case came up for hearing in the Supreme Court, a bench of Justices Lokur and Uday U Lalit came down heavily on the government for not making appointments in the NCPCR and asked how did it propose to address the issue when the specialised body formed to cater to the interests of the children was not even functioning.

Asserting that the NCPCR was a statutory body

set up with specific purposes, the bench also told Additional Solicitor General Maninder Singh, who represented the government, that it did not want "political persons" to be appointed in the commission.

"A specialised body is not even in existence for so many months. The only persons handicapped in all this are the children of this country," it observed. It directed the Ministry of Women and Child Development to make all the appointments as expeditiously as possible. The government has to inform the court about appointments on February 12.

Positions in the NCPCR had fallen vacant after the tenure of its former chairperson Kushal Singh and the other six members ended in October. Incidentally, Singh had a rocky relationship with the NDA government and had alleged that she received "feelers" from the government to step down, but she stayed on till the end of her term.

The Indian Express, January 14, 2015, P. 9  
(NCPCR)



# State child rights body headless since 4 years

• SONAM SAIGAL  
Mumbai

A public interest litigation (PIL) points out glaring discrimination in maintaining staff strength and salaries of Maharashtra State Commission for Protection of Child Rights (MSCPCR) and its counterpart of National Child Rights Commission.

The PIL claims that the notified salary of the chairman of MSCPCR and the members is not even 1/10th of what is paid to the national body. The PIL highlights that the state commission does not have a chairman and six other members since 2011. The commission is mandated to have all the members as per the provisions of Protection for Child Rights Act, 2005. The member secretary of the commission has been running the show since four years.

The PIL has been filed by Forum for Fairness in Education, an NGO in the Bom-

bay High Court highlighting the violations of the Act by MSCPCR since four years.

The PIL points out, apart from the chairperson there have to be six members (including at least two women) appointed by the state. The members should have standing experience in education, child health, care, welfare or child development, juvenile justice care of neglected or marginal children or children with disabilities, all the posts have been vacant since four years.

Advocate Siddharth Murarka representing the NGO says, "Without the chairman who will address important issues related to children? The member secretary is performing all the acts and exercising powers of the chairman which is against the provisions of the Act."

Murarka added, "The member secretary has also been passing orders, which is a complete violation of

the Act, he cannot pass any orders. Only the chairman can do so."

The objective of the commission is to look into the rights of crores of children and as an authority to refer matters filed under Right to Education Act (RTE) and POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) to special courts.

Under the provisions of the Act, every sessions court in each district of the state should have children's court. A public prosecutor or an advocate has to be appointed for conducting the cases of children who are being victimized in divorce cases, victims of malnutrition, mentally and physically disabled children and children who fall prey to sexual abuse.

The PIL has been filed to ensure the total implementation of the Children Protection for Child Rights Act, 2005. The PIL has been admitted in the high court and is expected to come up for hearing.

Free Press Journal, January 19, 2015, P. 4  
(MSCPCR)

# McDonald's treat for 50 street kids!

• STAFF REPORTER  
Mumbai

After the McDonald's shocker in Pune where a street kid was denied food and was thrown out of the restaurant, 50 kids between the age group of 5-10 were taken to the restaurant's outlet in Andheri by members of an NGO on Tuesday to spread the message of class equality.

On Tuesday afternoon, Shiv Sena supported Uttar Bhartiya Yuva Manch (UBYM) pitched in and took a strong stand against the McDonald's inappropriate approach towards poor street kids. "What happened in Pune was completely unacceptable. Therefore, in a unique agitation, we randomly selected 50 street kids and took them to McDonald's. They were given the freedom to order their favorite food and eat to their heart's content. The message that we want to give is



that all children should be treated equally and there

Mishra, president of UBMY.

## UNIQUE INITIATIVE

should be no discrimination between the rich and the poor," said Ashok

When asked about the matter, a source from Andheri McDonald's said, "We wish to affirm that we treasure and respect everyone in equal

measure and do not support any form of discrimination. McDonald's seeks to provide all our customers a safe and welcoming environment. We will always ensure that our guests feel comfortable, safe and looked after."

Free Press Journal, January 21, 2015, P. 3  
(McDonald's Initiative-Street Kids)



1.3 Education/Education System (School Dropouts/Gifted Education Mahaabhiyan/Differently-abled Students/Vocational Training in Schools/Annual Statement of Education Report-PRATHAM/Online Facility-Disabled Students/Quality Education/Play Schools/Primary Schools/CBSE-Text Book Revision Committee)

### 51 girls aged under 14 yrs married off last year in Ch'nagar, says survey

**CHAMARAJANAGAR:** As many as 2,195 children had dropped out of the schools in the district in the academic year 2013-14 and 51 girls, below the age of 14 years, were married off in violation of Child Marriage Act, according to a survey.

For the current academic year between June and December, as many as 349 children have dropped out of the schools, the survey by the Deputy Director of Public Instruction has stated.

A few NGOs had moved the High Court last year seeking direction to bring the children, who had dropped out of the schools, to the mainstream. The court then ordered a survey of the dropouts.

This year too, a door-to-door survey was conducted in all districts by a team comprising headmaster, assistant teacher, anganwadi workers and others.

Despite the implementation of Right to Education Act, providing free education, midday meal, Ksheera Bhagya, scholarships and other schemes in the district, a lot of students have bid adieu to the schools owing to family problems.

**Child marriage**  
The OBCs (Other Backward Castes) make up for a large population of the district. Child marriage is prevalent among many communities.  
In some communities girls

are married off even before they attain puberty. Many girls have already fallen prey to the heinous practice.

Further, apathy among the parents to send their children to school has also been cited as a major reason for dropout problem.

However, according to the Department Of Public Instruction officers of the 2,195 dropouts, the department has already brought 842 children to mainstream education through various activities, 231 have migrated to other places, 51 girls married off, 648 have crossed 14 years, 202 have been readmitted to schools, 213 have been deprived of schooling due to parental apathy and eight children had passed away.

Among the 349 dropouts for the year 2014-15 (June-December), 185 are boys and 164 girls in the age group of 6-13.

"Steps have been taken bring 188 children to the mainstream society through various activities," said Sarva Shikshan Abhiyaan Planning Deputy Coordinator N Gurulingaiah.

"Eighteen children will study in a madrasa while the rest will be brought to mainstream education through bridge courses like Setubanda, Chinara Angaka and others," he added.

The Department of Public Instruction will submit the findings of the survey to the High Court on January 8.

**DH News Service**

Deccan Herald, January 2, 2015, P. 7  
(School Dropouts)

### DU to run 'Gifted Education Mahaabhiyan' in schools

**PRESS TRUST OF INDIA**  
New Delhi, 4 January

Underprivileged yet talented students from classes V to IX of 90 MCD and NDMC schools here will be nurtured by Delhi University under a special campaign to ensure holistic learning for them.

'Gifted Education Mahaabhiyan', involving a funding of Rs 1.8 crore by the government's Department of Science and Technology through Principal Scientific Advisor office, is being run by DU's Cluster Innovation Centre (CIC).

"We conducted a test in 90 MCD and NDMC schools and have selected 76 students who belong to underprivileged community but are 'gifted' and have exceptional talent. We will now nurture them and run various workshops and counselling programmes to ensure holistic learning for them," CIC Director Madan Chaturvedi told PTI.

Delhi University has also conducted similar programmes in Guwahati, Ujjain and Baroda though they

were not limited to underprivileged children and had students from private schools.

"After the selection, parents of the students will be called for counselling and then a team of experts including faculty and students of MSc Maths Education programme will chalk out modules for them," Chaturvedi said.

"The modules will run for six weeks and will include certain workshops, self-help tasks, counselling sessions and much more," he added.

The programme will be conducted in consultation with the NDMC and MCD schools to ensure that the sessions are conducted on holidays and do not hamper their regular studies.

"The programme is completely free for students and we will also provide pick and drop to the selected students. Our sole motive is to nurture them beyond their routine academic studies and not put any extra burden on them," he elaborated.

The varsity has plans to take the 'Mahaabhiyan' to a national level.

The Statesman, January 5, 2015, P. 3  
(Gifted Education Mahaabhiyan)



# Most disabled kids in CBSE exam from city

## Steady Rise In Such Candidates Since 2009

Shreya Roychowdhury  
@timesgroup.com

**New Delhi:** The largest number of disabled candidates appearing for classes X and XII evaluation under Central Board of Secondary Education (CBSE) is from Delhi. The state-wise count of students with disabilities, released by the Board recently, also showed that the number of differently-abled students appearing for evaluation has been rising steadily. A total of 743 candidates appeared in Class X exam in 2009 in Delhi and more than double the figure appeared in 2014.

There were no registrations of autistic students in Class X from 2009 to 2013 from Delhi, but there were five in 2014. Similarly, numbers of students with visual impairment or dyslexia have also increased significantly over the six years — from 214 to 403 in case of blind students and from 93 to 423 in case of those with dyslexia. For the Class XII exam, the biggest jump was in case of orthopedically-challenged students. CBSE categorizes them as "handicapped". In 2009, 272 mobility-impaired candidates from Delhi appeared for Class XII evaluations; the figure rose to 524 in 2014. The number of hearing-impaired students jumped from 25 in 2009 to 130 in 2014.

One of the reasons for the huge difference between Delhi and runners-up Uttar Pradesh, Kerala and Madhya Pradesh is that in Delhi majority of schools are CBSE-affiliated. There is no state board and government schools too come under CBSE.

"Inclusive education is strong in Delhi," George Abraham of NGO Score Foundation said adding, "There are more visually-

### HOW MANY TOOK THE TEST

Categories included: Autism, dyslexia, visual and hearing impairment, locomotor and intellectual disability



| STATE            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  | 2013  | 2014  |
|------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| <b>Class X</b>   |      |      |      |       |       |       |
| Delhi            | 743  | 778  | 964  | 1,089 | 1,277 | 2,246 |
| UP               | 112  | 172  | 312  | 338   | 349   | 675   |
| Kerala           | 246  | 219  | 180  | 224   | 242   | 535   |
| <b>Class XII</b> |      |      |      |       |       |       |
| Delhi            | 548  | 621  | 741  | 804   | 923   | 1,056 |
| UP               | 38   | 133  | 193  | 204   | 273   | 311   |

challenged students in mainstream schools in Delhi than in any other place in the country. It also depends on the support services, availability of reading material and trained teachers. Delhi is more education-friendly, more aware," he said. "Even CBSE is good at handling things here as regional officers are always well-equipped." He recalled

hiyan has helped and so has stricter implementation of 3% reservation in jobs," Puri said. "The well-to-do always send their disabled children to school. Now, poor parents too have been making an effort."

In case of Delhi, the number of students, who appeared for CBSE evaluation in Class X, is close to the num-

**One of the reasons for the huge difference between Delhi and runners-up Uttar Pradesh, Kerala and Madhya Pradesh is that in Delhi majority of schools are CBSE-affiliated. There is no state board and government schools, too, come under CBSE**

the case of a student in Surat who was not allowed to use a computer to write his exam. "They were telling him to go to Ajmer. We managed it, but regional offices are not necessarily in sync with the headquarters."

Madhumita Puri of Society for Child Development, Delhi, said most of the students who have been successfully appearing for these exams are either from private schools or from National Institute of Open Schooling (NIOS). "Sarva Shiksha Ab-

ber appearing in Class XII two years later.

A total of 743 students appeared in Class X evaluation in 2009 and 741 appeared in Class XII exam in 2011. Either the attrition rate is low with those completing Class X choosing to remain in school, or students from other states, where there is a dip in number, are moving in to Delhi. Puri said, "There is a huge migration of visually-impaired students into Delhi, but very little in the other categories."

The Times of India, January 5, 2015, P. 2  
(Differently-abled Students)



**INSPECTION YET TO BE DONE NO ACTION AGAINST UNRECOGNISED SCHOOLS**

**DURING EXTENSION OR UNTIL GUIDELINES ARE FORMULATED**

## Again, govt extends provisional recognition of schools

**SHIKHA SHARMA**  
NEW DELHI, JANUARY 6

CITING inability of district authorities to conduct inspection of schools granted provisional recognition under the Right to Education (RTE) Act, the Directorate of Education (DoE) has yet again decided to extend provisional recognition granted to such schools by another year, till all inspections are completed.

Additionally, in what is being termed as 'blatant contravention of the RTE Act', it has also decided to not take any action against unrecognised schools functioning in Delhi since April 2014 till the extended period or formulation of guidelines.

While Section 18 of the RTE Act mandates that a school which does not have recognition cannot be established or allowed to function after the commencement of the Act, Section 19 of the Act states that a school cannot be established or recognised unless it fulfils the norms and standards specified in the Act.

"District authorities were to ensure that schools fulfil the terms and conditions of provisional recognition... but as the inspection work (about 300 cases) have not been conducted further decision could not be taken for extension of provisional recognition. It has been decided to extend the period of provisional recognition for a year i.e. up to 30.09.2015 to enable district authorities to carry out inspections..," the circular issued by the department reads.

The DoE had started giving "provisional" recognition to schools that qualify for recognition under the revised norms of the RTE Act, 2009.

However, the recognition was subject to verification at a later date, with the directorate stating that it was dependent on information provided by the municipal corporations for the inspections.

This is the third time the department has extended the deadline. But what has drawn the most flak is the decision of the directorate to not take any action against unrecognised schools which have mushroomed in the last year, four years after the RTE Act came into effect. "The government cannot shut down all schools in an instant. We have taken this decision in the interest of students of these schools," a DoE official said.

"No action will be initiated against unrecognised schools found functioning from academic year 2014-15 onwards, under the provisions of RTE Act, till the said extended period or formulation of further guidelines, if any, whichever is earlier," the circular adds.

"The direction is a contravention of the RTE Act and in direct conflict with Section 18 and 19 of the Act. The government does not have any power to permit unrecognised schools to run without necessary provisions. The state government cannot dilute the provisions of a Central Act by issuing such directions arbitrarily," Khagesh Jha, advocate, Social Jurist, said.



ARCHIVE

**For the third time, govt has extended the recognition.**

The Indian Express, January 7, 2015, P. 3/Mag.



# Skills training needs a push

**GET 'EM YOUNG** Despite the government's emphasis on skills training, a formal MoU between CBSE and the National Skill Development Corporation for implementation of vocational training in schools has been pending for a year

**Rozelle Laha**

rozelle.laha@hindustantimes.com

Against the backdrop of high dropout ratio in schools, the Centrally-sponsored scheme of vocationalisation of secondary and higher education (CSSVSHE) is aimed at helping students get easy placements. Even underperforming students can do a PhD in the skilling domain by just obtaining minimum passing marks in academics till post-graduation.

The dropouts who might otherwise have landed a job in some informal sector, thus getting deprived of social security benefits, can secure a job in the formal sector with the help of a Sector Skills Council (SSC) certification and by enrolling for a vocational course in school in Class 9.

The first pilot of CSSVSHE was launched in 40 schools in Haryana on September 3, 2012. Out of 209 students enrolling, 152 candidates were successfully placed - 25 in retail, 85 in security and the remaining 42 in IT/TIES.

The scheme is operational across 240 schools and has 23,000 enrollments in Haryana. "Going forward, we are looking to scale up the programme in 500 schools and across sectors like media and entertainment, agriculture, gems and jewellery, banking insurance and finance," says KK Agnihotri, advisor, department of school education, Government of Haryana.

Nearly 90,000 students in 1,190 government schools across Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Nagaland, Karnataka and Chhattisgarh are already a part of the scheme. However, the CBSE board students have to

wait for some time before they reap the benefits. "We would work with CBSE and get the SSCs to help align the curriculum to the needs of the industry and also work to introduce

## WHY SKILLING?


- You can attain a PhD equivalent in the skilling domain, independent of your academic excellence
- If you drop out after class 12, but have done a vocational course from class 9, a NSQF Level 4 certification can make you employable in a formal sector
- If you're a school dropout and skilled informally, you can approach SSCs and get assessed under Recognition of Prior Learning for getting certified to enhance credibility in the job market

new sectors. We will work with stakeholders to define a standard for the job roles and align it to the different levels of teaching," says Dillip Cheno, managing director and CEO, National Skills Development Corporation (NSDC). All of this, however, can happen only with the signing of a formal MoU between the two parties. "So far the MoU has not been finalised, it is under process," says M V V Prasada Rao, director (EDUSAT and Vocational), CBSE.

Recently, the SSCs have started doing assessment of CBSE schools across various states, including Delhi, Sikkim, West Bengal and Jharkhand - very much in line with what's happening in various state government

Hindustan Times, January 7, 2015, P. 18  
(Vocational Training in Schools)





Hindustan Times, January 7, 2015, P. 18



# RSS-linked bodies want sea changes in education system

DEEPAK K UPRETI ■ NEW DELHI

**D**emanding a new education system, the RSS-inspired organisations have demanded that Government introduce a "core curricula" that should include compulsory social service, Vedic Mathematics, Yoga and "social consciousness" to help children "travel" from "self to society".

Teachers' training is sought to be increased from nine months to five years with one year compulsorily "be spent in villages or slum areas for social service." As per their 'vision', every child will be trained in vocational education and all universities will have translation cells with students reading literature of all Indian languages.

The RSS-linked 'Shiksha Sanskriti Uthhan Nyas', of which Educationist Dina Nath Batra is a founder member, has demanded sweeping changes in country's education system by asking the Government to set up an autonomous Education Commission in line with Election Commission or Supreme Court and constitution of an All India Education Service on the model of All India Services.

In an extensive talk with *The Pioneer*, Batra, 85, said he wanted Government to speed up changes in basic structure of education. Towards this end, the veteran RSS educationist said public support is being mobilised with 'Shiksha Sanskriti Uthhan Nyas' planning 500 meetings across the country.

Batra, whose books have already made way to Gujarat schools, had in a letter to Prime Minister Narendra Modi and HRD Minister Smriti Irani asked Government to set up education commission and All India Education Service and scale up teachers training from nine months to five years that would go for social service in villages or in slum areas in the fifth year.

Even though the RSS old hand is in favour of courses

**Asks Government to include compulsory social service, Vedic Mathematics, Yoga and 'social consciousness' in new core curricula**



having core idea of *Gita*, he does not support it being made compulsory in schools. "There is no need to be over zealous and ancient wisdom be given in schools without mentioning its name like Vedic etc." Batra said adding "we should be practical".

Batra, a retired school teacher, is also the founder of the educational activist organisation 'Shiksha Bachao Andolan Samiti'. Besides, he has recently been appointed a member of Haryana Education Advisory Board.

"The Batra vision" makes social service obligatory in education system with an offer of certificate or diploma after each terminal stage. Children's "super energy" be used for productive purposes at Class X, XII and college level. Towards this end, social service commission be constituted which will conduct these services and develop "real connect of education with the society".

Every child be trained in vocational education. After Class IX, each child should have both academic and vocational streams and if the child cannot do the two streams, there should be bridge courses. "Every child should have a thinking finger", he said quoting Mahatma Gandhi.

The veteran RSS education activist wants that every university to have a translation cell and

that children should be reading literature of different languages. "We should modernise ancient wisdom. *Katha, kahaniyon aur geet ke madhyam se gyan ka prasar karein*", he said.

Batra said the education commission would guide, organise and evaluate education from play school to higher education. He has sought that core curricula should include "glorious history of Bharat" that would inspire children.

He said some of the school text books are sloppy in certain aspects and questioned "why Hindi chapters in schools have not only Urdu words but Persian couplet and even English?" These are the acts of those influenced by "Macaulay and Marx", he alleged.

About the core curricula he has advocated, Batra said some universities like 'Sanskrit University', Nagpur (Maharashtra), have started work on "Vedic Mathematics and award diploma in the subject. "University in Raipur (Chhattisgarh) is also doing the same," he said.

"We have also created some centres of examinations at Jabhua Government schools, Madhya Pradesh, without supervision," he maintained.

Batra was instrumental in removing "objectionable passages" against Guru Teg Bahadur and Veer Savarkar from the text books. He has won suits in court to ban books "derogatory to Hindus".

Advocating that Sanskrit be made compulsory in schools, he alleged that the ancient language was removed from schools and instead German was introduced during previous regime as some 500 teachers of Kendriya Vidyalaya undertook a tour to Germany, organised by Max Muller Bhawan, New Delhi. He said the new BJP Government has reversed the arrangement.

"First introduce languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution and then only think of foreign languages. I am not against them", he said.

The Pioneer, January 11, 2015, P. 5









Amar Ujala (H), January 16, 2015, P. 12  
(Quality Education)

## प्रदेश की सभी बचपनशालाओं पर लगा ताला

**प्ले स्कूल की तर्ज पर प्राथमिक स्कूलों में की गई थी शुरु**

**3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के खेलने के लिए बनाया था**

धरमपुर, 15 जनवरी (दिनपत्र)

पूर्व कांग्रेस सरकार के एक और फैसले को प्रदेश की 'मनो' सरकार ने पलट दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का ड्रॉप-आउट कम करने के मकसद से प्राथमिक पाठशालाओं में जिन बचपनशालाओं को खोला गया था उन्हें राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर आलोक वर्मा ने एक पत्र जारी कर तुरंत प्रभाव से सभी बचपनशालाओं को बंद करने के आदेश दिए।

बचपनशालाओं में मुख्य रूप से उन गरीब एवं कामकाजी परिवारों के बच्चे आते थे, जो प्राइवेट प्ले स्कूलों या क्रेच सेंटरों की फीस नहीं दे सकते। बेशक, इस योजना को चौटाला सरकार के कार्यकाल में 2004 में शुरू किया गया था लेकिन हुड्डा सरकार के सत्ता में आने के बाद बचपनशालाओं को बंद कर दिया गया।

वर्तमान में प्रदेशभर में 300 से अधिक बचपनशालाएं चल रही थीं। जब बचपनशालाएं खोली गई थीं तो इनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। हुड्डा सरकार ने करीब 700 बचपनशालाओं को 2011 में आंगनवाड़ी केंद्रों में मज कर दिया था। बचपनशालाओं में सरकार की ओर से बच्चों के खेलने के लिए खिलौने रखे गए थे। यही नहीं, उन्हें उठने-बैठने व बातचीत करने का सलीका सिखाया जाता था। आमतौर पर 3 से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चे इन बचपनशालाओं में आ रहे थे। सरकार की ओर से बचपनशालाओं में बच्चों की केयर

के लिए एक वॉलंटियर और एक हेल्पर नियुक्त की गई थी। वॉलंटियर को 2000 रुपये और हेल्पर को 800 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता था। सरकार ने इन सभी बचपनशालाओं को बिना किसी नोटिस दिए ही तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। यही नहीं, इनमें कार्यरत वॉलंटियर और हेल्पर्स को भी उनके काम से हटा दिया गया है। हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। संघ के मुताबिक सरकार का फैसला सही नहीं है और इससे इन बचपनशालाओं में कार्यरत चर्कर बेरोजगार हो गई हैं।

इसलिए किया गया था शुरू सरकार ने 2002-2003 के दौरान एक सर्वे किया था। इस सर्वे में यह बात सामने आई कि पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थी नाम लिखवाने के बाद भी स्कूल में इसलिए नहीं आते क्योंकि पीछे से उनके छोटे भाई-बहन घर में अकेले रहते हैं। यह समस्या उन परिवारों की थी, जिनमें माता-पिता

दोनों ही कामकाजों हैं। आमतौर पर मजदूरों एवं गरीब परिवारों के साथ यह दिक्कत थी। ऐसे में सरकार ने 2004 में बचपनशालाएं खोलीं ताकि पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थी अपने छोटे भाई या बहन को भी अपने साथ स्कूल में ला सकें। इससे वे पढ़ सकते थे और उनके भाई-बहन इन बचपनशालाओं में खेल सकते थे। इस दौरान उनकी संभाल यहां तैनात चर्कर की होती थी। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ था। हालांकि इस फैसले से रोजगार छिन गया है।

Dainik Tribune (H) , January 16, 2015, P. 3  
(Play Schools/Primary Schools)



## Incentives help bring back Odisha children to school

**P**riyanka Samal was a class IX student when her parents, both daily labourers residing on the outskirts of Cuttack in coastal Odisha, forced her to drop out of the school. The reason: they wanted the 16-year-old to get married and settle down. But she is back in school now. The parents have stopped searching for a suitable match for her. She now aims to complete her matriculation with good marks. She also plans to go for higher studies and hopes that she will be able to convince her parents to send her to college once she performs well in the high school certificate examination.

The "turnaround" in the teenagers' life has been possible thanks to the Odisha Girls Incentive Programme (OGIP), a joint effort of the Centre, the Odisha Government and the United Kingdom's Department for International Development (DFID), to prevent dropouts and increase attendance rate among SC-ST (scheduled castes and scheduled tribes) girl students in high schools.

"The scheme has now become a major motivating factor for SC-ST girls to attend classes and complete their high school studies. It has also become a source of encouragement for parents to allow their daughters to go for higher education," said Ashish Mukherjee of IPE Global Limited, a leading private sector development consultancy agency which is providing technical assistance for the successful implementation of the important social sector project.

The programme, which was formally launched in 2013 after a pilot project in tribal-dominated Rayagada district, is being implemented in all the 30 districts in Odisha. Nearly 2.15 lakh SC-ST girl students in classes IX and X in about 9,000 government-run as well as aided schools have been benefited from the scheme in the current academic year.

The impact is certainly positive as there has been a 10 per cent increase in enrolment for SC girls and 6 per cent increase for ST girls in class IX this year. "The rate of attendance among the girls, particularly tribals both in classes IX and X, has also recorded a substantial increase," said Mukherjee, who functions as the team leader of the technical assistance team for OGIP.

Under the scheme, beneficiaries will have a bank account and Rs 3,200 per annum stipend will be directly transferred to their account if they attend 75 per cent or more classes. The payment will be made in monthly installments. The stipend is for day scholars only. For girls staying in hostels, Rs 5,450 per annum will be paid.

Interestingly, the OGIP has already helped many girls who had dropped out of school and had got married early for various reasons to come back to their classes and finish their high school studies. A case in point is Mamata Dalai from Balasore district in north Odisha who was a very good student. She had been promoted to class IX and was eagerly waiting to join her new class. But she lost her father, the only earning member of the family. With his death all the dreams of Mamata came crashing down. The economic condition of the family deteriorated and Mamata's mother thought it best to marry her off. She tried to convince her mother to let her continue studies but soon gave up as the woman threatened to commit suicide. The girl had to agree to the match fixed by her mother.

The block coordinator engaged in the implementation of the scheme tracked down Mamata with the help of her school records. He went along with the headmaster of the school and talked to her mother. Subsequently, he visited Mamata and talked to her mother-in-law as her husband had migrated to another state in search of work. The mother-in-law did not agree to send Mamata back to school as she was worried that there would be no one to take care of household chores.

The coordinator then counseled her with the help of the headmaster and explained the importance of girls' education. He also spoke to Mamata's husband over the phone and explained the scholarship scheme and how it will help his wife to complete her matriculation. Finally, after repeated counseling, Mamata's husband and mother-in-law agreed to send her back to the school. Significantly, Mamata's mother-in-law not only helped her in the household chores but also ensured that she attended school on a regular basis. The mother-in-law's progressive approach fetched



Beneficiaries of Odisha Girls Incentive Programme come out of a school in Odisha.

her appreciation from village elders and community.

The development made Mamata very happy as it helped in strengthening her relationship with her mother-in-law and ensured her new freedom as she became acquainted with the process of the bank and took care of the monetary matters of the household. "We have already come across nearly 1,400 such cases in different districts", said a IPE Global official.

After its success among the girls, the scheme has now been extended to the SC-ST boys too. This year, nearly 2.10 lakh boys have already been benefited from the programme. They, however, get less stipend compared to girls. For a day scholar, the amount is Rs 2,250 while a hosteller receives Rs 4,500 per annum. **ST Beuria in Bhubaneswar**

Deccan Chronicle, January 18, 2015, P. 6



## There's talk of educating girls, but how about educating boys to deal with girls?

Dev Lahiri



The year gone by saw much in the media about the rape and molestation of women. The widespread nature of this sickness makes me feel that there are two critical areas where we educators (both teachers and parents) have failed - gender sensitisation and combating the 'bully' mindset. These are inextricably linked.

How many principals, for instance, have either the will or the skill to gender-sensitise our teaching faculties? Therefore we have the common phenomenon of male teachers being nonplussed by the girl student wanting to frequently 'excuse' herself from the classroom, often accompanied by an uneasy titter amongst her classmates. Conversely, lady teachers often find themselves very uncomfortable when boys crack bawdy jokes.

And most schoolchildren, boys and girls, have no one to turn to when they feel lonely and confused on these issues, particularly when they come from conservative families. Many schools pass the buck by introducing 'sex-education', but we all know what happens when something like this is reduced to a classroom experience.

A PowerPoint presentation can never be a substitute for a warm and intimate conversation, based on mutual trust, between a teacher and student. But how many of us teachers are equipped either

in terms of attitude or training to deal with this issue?

On the contrary, some of our attitudes need to be seriously examined. It has never ceased to amaze me how many heads of schools are firmly opposed to co-education, on the ground that the girls would be 'hugely distracted' by the presence of boys. But is education not about preparing for adult life, and is not



**A PowerPoint presentation can never be a substitute for a warm and intimate conversation, based on mutual trust, between a teacher and student**

adult life co-ed? Surely, these are the skills that education ought to teach?

I am not talking about just 'elite' schools. There is a Kendriya Vidyalaya close to the village where I live and I see young boys and girls mingling easily - quite unlike single-sex schools where the presence of the opposite sex is a matter of great excitement and tension.

We talk these days about educating the girl child. But how about educating the boy child? Educating, for instance, to respect women. My own daughter once did a survey as part of her psychology course in school. One of the questions asked respondents to say who should eat last in the family if food were to be short on a particular day. Over 70% of the boys answered 'mother' with 'sister' following a close second!

This is where the connection with bullying kicks in. We bring up our sons to believe that they are God's gift to humankind - that they can do no wrong. The 'weaker' sex are there for the pleasure of the 'stronger' sex and therefore, 'boys will be boys'.

No amount of legislation, CCTV cameras, policemen or banning cab services is going to really change things. We have to look deep inside, change our core attitudes, and bring up a whole new generation that can break free of medieval shackles.

*The writer is former principal, Welham Boys' School, Dehradun.*

The Times of India, January 20, 2015, P. 18



## Schools to have revised textbooks from 2016-17

**BENGALURU:** The new textbook revision committee formed to look into errors and distortion of facts in school textbooks of the new syllabus from classes 1 to 10, had its first meeting on Thursday.

Kimmane Ratnakar, Minister for Primary and Secondary Education, presided over the meeting. Speaking on the sidelines of the programme, Nagendra Kumar, Managing Director, Karnataka Textbook Society, said that the revision committee would be ready with the revised textbooks by May, although the new version will be introduced only in the academic year 2016-17.

"The committee will be working to revise errors in all 352 titles in 7 mediums. Members of the revision committee have been asked to do a very



**Education minister Kimmane Ratnakar interacts with teachers at the book revision committee meeting.** thorough work," he said. Speaking at the inauguration of the meeting, Ratnakar said: "As many as 171 members are part of the committee. No changes will be made in a hurry. We will make sure that sentiments of no community and religion are hurt." The government introduced a new syllabus based on the National Curriculum Framework, 2005, in a phased manner. As part of the new syllabus, new textbooks for classes 5 and 8 were introduced that year. This was followed by new textbooks for classes 1, 2, 6 and 9 in 2013 and for classes 3, 4, 7 and 10 in 2014. Since the academic year 2012-13, when the first batch of new textbooks was introduced, a number of errors in various subjects were pointed out by academicians and various organisations. Instances of attempts to saffronise textbooks were also pointed out by a number of groups.

In 2014, *Deccan Herald* carried articles on a number of errors in Science, Mathematics and English textbooks of class 10. While 80 errors were pointed out in the English textbooks, some claimed that the Mathematics textbooks had 300 errors. As an example of attempts to saffronise textbooks, various minority groups pointed to the science textbooks of class 9 that were out in 2013, which they claimed were replete with saffron agenda. For example in page 28 of the textbook, Dronacharya was bizarrely referred to as the first test-tube

baby who took birth 7,500 years ago. Besides these, the textbook was replete with a number of Sanskrit quotes in a number of chapters.

An official from the Textbook Society said, "Although corrections of these errors were made in subsequent years following the publication of the textbooks, the new revision committee was constituted to take a thorough look at all textbooks of the new syllabus."

### Notification

Ratnakar said that a notification to conduct the Common Entrance Test (CET) for recruitment of teachers would be issued in 10 days. The CET, originally scheduled for last year, has not yet been held. Following this, another round of the Teacher's Eligibility Test (TET) would be conducted. Knowledge of English and computers would be mandatory for the second TET, he added.

**DH News Service**

Deccan Herald, January 23, 2015, P. 4  
(CBSE-Text Book Revision Committee)

## Pvt, govt schools 'teamed' to share sports, culture facilities

Shreya.Roychowdhury @timesgroup.com

**New Delhi:** V P Gupta, head of Government Boys Senior Secondary School on Mata Sundri Road, is hoping Sardar Patel Vidyalaya can help him get his computer lab up and running again. He could also use some support for organizing annual days and sports events. "It will help," he observes, "if the two groups of teachers attend the SCERT training together. They could share ideas."

Directorate of Education had announced a "teaming" programme—for private and government schools to collaborate on activities, and share best practices and resources—in the summer of 2014. Many private schools had proposed similar "twinning" programmes earlier. Finally, 18 city schools—including Delhi Public School (R K Puram), Air Force Bal Bharti, Blue Bells International, Springdales (Dhaura Kuan) and The Shri Ram School—have been "teamed" with 36 government ones.

Usha Ram, principal of Laxman Public School, had met Sunita Bhargava and Satpal Singh, who head Sarvodaya (Co-ed) Vidyalaya (Shahpur Jat) and Government Boys Senior Secondary School (Malviya Nagar) respectively. "We had a twinning programme about 15 years ago. It's about sharing facilities," says Ram. The three principals will start with sports and culture. "GBSSS has a good volleyball coach. The kids could train together. The school in Shahpur Jat is



**NEW CHAPTER:** Eighteen private schools have been teamed with 36 govt schools

strong in arts and crafts. We are considering a workshop. The schools have asked us for music classes. We'll also organize in-service teacher training," says Ram.

Students of Amity International, Saket, may use the government school grounds for cricket matches and in turn, says principal Divya Bhatia, their kids will be trained for participating in symposia and quizzes. Amity has been paired with Vir Chander Singh Garhwal Sarvodaya Bal Vidyalaya and GBSSS (G-Block). "We have been instructed to make short-term plans. We have to send our joint proposal to DoE in two months," she adds.

Getting private schools involved in the functioning of government schools will make many—especially the Right to Education activists—jittery, considering

the resistance private schools had to the 25% EWS quota. They are sure to see this as privatization. Sushil Salwan of the Salwan Education Trust had hoped the DoE would allow them to "run" government schools but is pleased with "teaming" as well. Three Salwan schools—the only chain with more than one branch included—have been partnered with six government ones.

"We had offered to run the government schools, get the kids to a certain level and then merge these schools with our school but the government didn't agree," says Salwan. He says they'll offer support in "sports, academics and training teachers." He adds, "If the government schools offer science, we could let those kids use our labs. If 100 of Salwan kids go on excursion, we could send 20 of them at no cost," says Salwan. Till now, the principals confirm, there is no financial commitment from DoE to run this programme.

"We don't really need it," states Ram. "Here it's left to us. We can discuss and agree on what can be shared," explains Gautam Sarkar, who'll run the programme for Modern School (Barakhamba Road). Modern school's partner schools are two branches of Sarvodaya Bal Vidyalaya—at Rani Jhansi Road and Paharganj. "We'll meet the partner schools after January 27. We can organize cultural and sports activities together and give them access to some of our resources such as our labs."

The Times of India, January 24, 2015, P. 10



# तीन साल से कम उम्र के बच्चों को 'शिक्षण' नहीं

[माना जाएगा आर्टीई नियम का उल्लंघन, शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई]

सुरत  
surat@patrika.com

गुजरात शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-प्राइमरी स्कूल में प्रवेश देने पर रोक के आदेश ने अभिभावकों और संचालकों के बीच उलझन खड़ी कर दी है। इसको लेकर सुरत जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रवृत्ति के नाम पर कोई भी संचालक तीन साल से कम उम्र के बच्चे को प्रवेश नहीं देगा। इस बारे में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात सरकार ने केन्द्र के आर्टीई खूल्स 2012 नियम-8 के अनुसार 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-प्राइमरी स्कूल में प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश में प्री-प्राइमरी के जिक्र के कारण अभिभावक और स्कूल के संचालक उलझन में हैं। शहर में प्ले स्कूल, नर्सरी और डे-बोर्डिंग के कई स्कूल हैं। आदेश में मात्र प्री-प्राइमरी लिखा होने के कारण प्ले स्कूल, नर्सरी और डे-बोर्डिंग के बच्चे को किसी भी तरह के नाम से चलने वाली स्कूल में प्रवेश देना नियम का उल्लंघन है। चाहे वह प्ले स्कूल हो, नर्सरी हो या डे-बोर्डिंग स्कूल हो।

उन्होंने अभिभावकों को ऐसे स्कूलों के झांसे में न आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जहां भी स्कूली प्रवृत्ति होगी, वहां 3 साल से कम उम्र के बच्चे को प्रवेश दिया गया तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्कूली प्रवृत्ति (शिक्षण) के अलावा शिशुधर जैसी प्रवृत्ति हो तो आपत्ति नहीं है। नियम के उल्लंघन पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जुर्माने के साथ मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी।

**पत्रिका**  
**मुद्रण**

3 साल से कम उम्र पर प्रवेश दिया तो मान्यता रद्द

17 जनवरी को प्रकाशित खबर।

में प्रवेश दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा शहर में चल रही है, लेकिन सुरत जिला शिक्षा अधिकारी यू.एन. राठौड़ ने कहा कि 3 साल से कम उम्र

**नियम एक समान**

प्ले स्कूल, नर्सरी या डे-बोर्डिंग के लिए गुजरात सरकार की ओर से जारी किया गया नियम एक समान माना जाएगा। स्कूली प्रवृत्ति नजर आई और बच्चे 3 साल से कम उम्र का हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।  
यू.एन. राठौड़, जिला शिक्षा अधिकारी, सुरत

Rajasthan Patrika (H), January 25, 2015, P. 7  
(Pri-primary Schools-Age Bar)

# Govt plans job-oriented education across India

**FOCUS** Plan is in tune with PM Modi's 'skill India' vision

**Brajesh Kumar**  
Brajesh.kumar@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** Seeking to arm college students with employable skills, the government plans to introduce career-oriented short term courses in 5000 universities and colleges across the country.

The plan is in tune with Prime Minister Narendra Modi's focus on skill development and his vision of creating 'Skill India'.

The courses which range from diploma in tourism to psychology counseling to market research will complement the relevant degree courses.

So a student pursuing a degree in history will be able to simultaneously take up a short term course in tourism, heritage walk.

Similarly one studying psy-

**A HISTORY STUDENT WILL BE ABLE TO SIMULTANEOUSLY TAKE A COURSE IN TOURISM, HERITAGE WALKS**

chology can take up counseling and a degree in statistics can be combined with a diploma course in market research.

"The idea is to provide skill training to a large number of students who otherwise remain unemployed even after a degree course," a Human Resource Development (HRD) ministry official said.

According to labour ministry data for 2013 one in three graduates up to the age of 29 are unemployed.

The courses will be introduced first in NAAC accredited A grade colleges followed by the B grade.

Along with career oriented courses, the ministry also plans to introduce vocational courses in 1,000 colleges and open 1,000 community colleges to give a major push to skill development in higher education.

Skill development has been one of the priorities of the NDA government. In his independence day speech last year, Modi said India must develop skills to provide meaningful employment to millions of young Indians.

"Our country is the world's most young country. Have we ever thought of utilising it? Today the world needs skilled workforce, today India also needs skilled workforce," he had said.

Hindustan Times, January 30, 2015, P.13



1.4 Girl Child/Child Sex Ratio/Female Foeticide (Sex-determination Test/Female Foeticide-Haryana/Campaign-Save Daughter/National Girl Child Day)

**अच्छी खबर** झज्जर में बढ़ने लगी बेटियां

## धरातल पर हुआ काम, तो आंकड़ों में हुआ सुधार

प्रथम शर्मा/विश्व  
झज्जर, 14 जनवरी

कहते हैं कि जब धरातल पर काम किया जाये तो उसके सार्थक परिणाम सामने आते ही हैं। ऐसा ही हुआ है लिंगानुपात के मामले में जिला झज्जर के अन्दर।

वर्ष 2011 की जनगणना में जो जिला झज्जर जोरो से 6 आयु वर्ग में देश के अंदर सबसे निचले पायदान पर था अब उसी जिला झज्जर का लिंगानुपात भी सुधार में आया है। हालांकि जिला प्रशासन व स्वयं स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बीते वर्ष में पीएनडीटी एक्ट को कड़ाई लागू करने का परिणाम होने का दावा करता है। लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई ही है कि पिछले कुछ समय में लोगों व खासकर महिलाओं में इसके प्रति आई जागरूकता व समय-समय सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए गए अभियान भी इस दिशा में कुछ सार्थक परिणाम लेकर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जनवरी 2014 से नवंबर 2014 तक के मिले आंकड़ों की जानकारी अनुसार झज्जर जिले में जनवरी 807 लड़के व 621 लड़कियों, फरवरी माह में 607 लड़के व 467 लड़कियों और मार्च माह में 677 लड़के और 521 लड़कियों ने जन्म लिया। नवजात लिंगानुपात लगभग एक हजार लड़कों के अनुपात में 769 लड़कियां थी। इसी प्रकार अप्रैल माह में 559 लड़के और 443 लड़कियों, मई में 635 लड़के और 506 लड़कियों, जून माह में 583 लड़के और 498 लड़कियों, जुलाई माह में 661 लड़के और 516 लड़कियों, अगस्त माह में 735 लड़के और 614 लड़कियों, सितंबर माह में 750 लड़के और 622 लड़कियों, अक्टूबर महीने में 766 लड़के और 613 लड़कियों और नवंबर माह में 692 लड़के और 577 लड़कियों ने जन्म लिया। इसी तरह लिंगानुपात मार्च 2014 में 769 से बढ़कर 814 तक पहुंच गया है। इस वर्ष लिंगानुपात में और सुधार आने की उम्मीद है।

अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर खास नजर

सीएमओ डॉ. रमेश धनखड़ ने बताया कि विभाग द्वारा सख्ती से पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल लाई गई। जिले में कुल 38 अल्ट्रासाउंड मशीनें 31 केंद्रों पर कार्य कर रही हैं। इनमें से 21 अकेले बहादुरगढ़ में हैं। पीएनडीटी एक्ट के तहत विभाग की टीम निरंतर अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण और शिकायतों के आधार पर जिले में पांच अल्ट्रासाउंड मशीनें अवैध कार्य करने के आरोप में सील की गई हैं। अवैध कार्य रहे अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। विभाग की सख्त कार्रवाई के बाद जिले के लिंगानुपात 769 से ऊपर 814 तक पहुंच गया है। इस वर्ष लिंगानुपात में और सुधार आने की उम्मीद है।

613 लड़कियों और नवंबर माह में 692 लड़के और 577 लड़कियों ने जन्म लिया। इसी तरह लिंगानुपात मार्च 2014 में 769 से बढ़कर 814 तक पहुंच गया है।

Dainik Tribune (H) , January 15, 2015, P. 2  
(Sex Ratio)

## कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ शपथ ली

फरीदाबाद, 16 जनवरी (हप)

प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आह्वान पर आज जिले भर में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। बादशाहखान अस्पताल में सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा व पीएमओ डॉ. सुरेश चन्द्र ने डॉक्टरों के अलावा एएनएम को शपथ दिलाई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. गुलशन अरोड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में सेक्स रेशो को सुधारने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीनिवास ने प्रदेश के सभी सिविल हॉस्पिटल और पीएचसीए सीएचसी पर कार्यरत एएनएम और आशा वर्कर्स को शपथ दिलाई गई है। एएनएम और आशा वर्कर प्रेगनेंट महिला के साथ रहती हैं और उनके गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक पूरा ध्यान रखती हैं। कन्या के जन्म खुशी मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस दौरान करीब 121 एएनएम ने शपथ समारोह में हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सभी एएनएम और आशा वर्कर से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी कराये गए।

फरीदाबाद के राजकीय बादशाह खान अस्पताल में शुक्रवार को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ डॉक्टरों व नर्सों को शपथ दिलाते सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा व पीएमओ डॉ. सुरेशचन्द्र। -शिव

Dainik Tribune (H) , January 17, 2015, P. 7  
(Female Foeticide)



## कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा रोकने की शपथ दिलायी



रेवाड़ी के गांव भाड़ावास में शुक्रवार को कन्या भ्रूण हत्या न करने व दहेज प्रथा को रोकने की शपथ लेते लोग। -अस

रेवाड़ी, 16 जनवरी (अस)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भाड़ावास में डा. अशोक कुमार, डा. संदीप यादव व डा. निर्मल बागोतिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा वर्कर्स को कन्या भ्रूण हत्या न करने व रोकने की, लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व

दहेजप्रथा रोकने की शपथ दिलवाई गई। पंचकुला से डा. अजय कुमार मुख्य अतिथि एवं राजकीय प्राथमिक पाठशाला भाड़ावास से मंजुबाला, ज्योति यादव व सपना जैन विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। इस अवसर पर डा. अशोक कुमार ने कहा की लिंग परिक्षण करवाकर गर्भ में पल रही लड़की को मारना शर्मनाक कृत्य है।

Dainik Tribune (H) , January 17, 2015, P. 6

## कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान

### बेटियों को सौ फीसदी दाखिला देने वाले स्कूलों को मिलेंगे एक लाख

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की घोषणा

पंचकुला, 17 जनवरी (दिन्य)

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खापों व सामाजिक संस्थाओं का आह्वान किया है कि वे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ शुरू किये गये अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार जो स्कूल अपने क्षेत्र की सभी लड़कियों को दाखिला देंगे उन्हें एक लाख रुपये की राशि बतौर इनाम दी जायेगी। विज शनिवार को जिला सचिवालय से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ यात्रा को हरी झंडी



पंचकुला में शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बेटी बचाओ यात्रा को रक्का करते हुए।

दिखाने से पहले समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक लतिका शर्मा, उपायुक्त विवेक अत्रे, एडीसी एसपी अरोड़ा ने भी विचार रखे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खापों को अपने अधीन आने

वाली पंचायतों के सम्मेलन आयोजित कर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाहिये। विज ने कहा कि प्रदेश में खराब लिंगानुपात वाले 12 जिलों की पहचान की गई है। इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

### बेटियों को जाट पॉलिटेक्निकल कॉलेज में मिलेंगी 50 प्रतिशत छूट

कैथल, (हर): केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के आह्वान पर जाट शिक्षण संस्थान की ओर से जाट पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लेने वाली बेटियों को दाखिले में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है। जाट शिक्षण संस्थान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दर्शन मालखेड़ी ने बताया कि जाट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाट कॉलेज, जाट पॉलिटेक्निक तथा जाट शाईनिंग स्टार स्कूल व वीएड कॉलेज में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत न केवल गोष्ठियां आयोजित की गईं, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मुहिम छेड़ने का संकल्प भी लिया गया। जिला प्रशासन की ओर से महाराजा सूरजमल स्टेडियम में आयोजित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने प्रचार यात्रा को हरी

Dainik Tribune (H) , January 18, 2015, P. 3  
(Female Foeticide)



## लिंगानुपात संतुलित करना हर वर्ग की जिम्मेदारी: राव इन्द्रजीत

करनाल, 17 जनवरी (हप्र)

छोरी तो घर की शान हो सै, छोरियां ने थामै पूरा सम्मान दे कै देखो समाज में घणी इज्जत मिलण लाग ज्यागी। केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत ने शनिवार को बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ अभियान को लेकर पंजायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में समानता के बिना समाज और राष्ट्र का समुचित विकास संभव नहीं है, इसलिए लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए समाज के हर वर्ग की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को संतुलित करने के लिए बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ अभियान वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज करनाल में



करनाल में बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ अभियान के रथ को रवाना करते केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत। -हप्र

इस अभियान के माध्यम से बेंटी के सम्मान के लिए मोदी का दूत बनकर यहां आया हूं।

महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। आजादी के 67 साल बाद देश के लोगों में उमंग व उम्मीद जागी है कि यह देश आने

वाले समय में सोने की चिड़िया बनकर उबरेगा। इस काम को समाज में महिलाओं के साथ-साथ मर्दों को भी आगे आकर झंडा उठाना होगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लिंगानुपात में काफी असमानता है, दुख की बात है कि महेन्द्रगढ़ जिला प्रदेश के अन्य जिलों से इस मामले में काफी पीछे है।

Dainik Tribune (H) , January 18, 2015, P. 3  
(Sex Ratio)

**इसलिए चुना गया पानीपत अभियान की शुरुआत के लिए**

## हमारे 12 जिले देश के 100 सबसे खराब लिंगानुपात वाले जिलों में

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तैयार की सूची, पंजाब दूसरे नंबर पर**

महेन्द्रगढ़, 17 जनवरी (ट्रिब्यून)

पानीपत से बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत करने की एक वजह यह भी है कि देश के 100 सबसे कमजोर लिंगानुपात वाले जिलों में से 12 हरियाणा के हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर हरियाणा का पड़ोसी राज्य पंजाब है, इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। यह सूची केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से तैयार की गई है। पंजाब में 11 जिलों में स्त्री-पुरुष लिंगानुपात बेहद खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 22 जनवरी को जारी किये जाने वाले राष्ट्र व्यापी अभियान के तहत इन 100 जिलों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से व्यापक कार्ययोजना लागू की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी इसमें समान योगदान होगा। गौरतलब है कि इन 100 जिलों में से हरियाणा के तीन जिले महेन्द्रगढ़, झरजर और रेवाड़ी तो सूची में सबसे नीचे आ रहे हैं। महेन्द्रगढ़ में जहां एक हजार लड़कों पर 775 लड़कियां हैं वहीं झरजर में 782 और रेवाड़ी में 787 लड़कियां। हैरानी की बात है कि राज्य सरकार के दावों के विपरित इन तीन जिलों में 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में लिंगानुपात नीचे आया। मालूम हो कि 2001 में महेन्द्रगढ़, झरजर और रेवाड़ी में लिंगानुपात क्रमशः 818, 801, 811 था। प्रदेश के बाकी 9 जिलों में भी लिंगानुपात के आंकड़े बेहद खराब हैं। इनमें से एक पानीपत है, जहां से प्रधानमंत्री अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस जिले में एक हजार लड़कों पर 837 लड़कियां हैं। दूसरे खराब लिंगानुपात वाले जिलों में सोनीपत (798), अंबाला (810), कुरुक्षेत्र (818), रोहतक (820), करनाल (824), यमुनानगर (826), कैथल (828), भिवानी (832) शामिल हैं। यह आंकड़े एक हजार लड़कों पर आधारित हैं।

Dainik Tribune (H) , January 18, 2015, P. 3



# कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हों एकजुट

■ सहकारिता मंत्री ने प्रचार यात्रा को झंडी दिखा किया रवाना

रेवाड़ी, 18 जनवरी (अस)

सहकारिता राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव ने कहा है कि अब समय आ गया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति व वर्ग कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करे ताकि समाज में लिंगानुपात के अंतर को कम किया जा सके। यादव रविवार को बाल भवन रेवाड़ी में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' प्रचार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पूर्व आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आज मुझे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ प्रचार यात्रा को रवाना करते हुए खुशी की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लगातार गिर रहा लिंगानुपात हमारे सामने एक समस्या बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी को पानीपत जिला से



नागपाल, जिला शिक्षाधिकारी संगीता यादव भी इस मौके पर उपस्थित थे। विक्रम सिंह यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संकल्प शपथ दिलाई तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान 2015 के कैलेंडर का अनावरण किया।

रेवाड़ी के सचिवालय से रविवार को प्रचार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मंत्री विक्रम सिंह यादव। अस

अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह यात्रा जिलावासियों में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जागरूकता पैदा करेगी।

रेली में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। यह यात्रा बालभवन से गांधी चौक होते हुए जिमखाना क्लब पहुंची। इस मौके पर जिला परिषद की चेयरमैन सुरेश देवी, बावल के विधायक डा. बनवारी लाल व रेवाड़ी के विधायक रणधीर सिंह कापडीवास ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या, गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष अलावादी, एसडीएम मुनीष

Dainik Tribune (H) , January 19, 2015, P. 6  
(Female Foeticide)

## लड़कों के मुकाबले कम पैदा हुईं 35 हजार लड़कियां

■ जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा में बेशक लड़कियों की जन्मदर बढ़ रही हो लेकिन पिछले एक साल के दौरान राज्य में लड़कों के मुकाबले 35 हजार लड़कियां कम पैदा हुईं हैं। लिंग अनुपात में आ रहे सकारात्मक बदलावों से हरियाणा भले ही खुश है, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं मानी जा सकता है। पानीपत से 22 जनवरी को लिंग अनुपात में सुधार की नई लड़ाई शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस जंग के नायक हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में पिछले 14 साल के अंतराल में लिंगानुपात में सकारात्मक बदलाव हुआ है। साल 2001 की जनगणना के हिसाब से राज्य में एक हजार लड़कों के पीछे केवल 819 लड़कियां थी, जो अब बढ़कर 871 हो गई हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि

प्रदेश में पिछले साल के दौरान नवंबर तक 2.31 लाख लड़कियां पैदा हुई थी, जबकि इसी अवधि में 2.66 लाख लड़के पैदा हुए थे। पिछले साल के दौरान नवंबर तक राज्य में लड़कों के मुकाबले 35 हजार लड़कियां कम पैदा हुई थीं। ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो महेंद्रगढ़ जिला एक हजार लड़कों के पीछे केवल 756 लड़कियों के कारण लिंगानुपात के पायदान में सबसे नीचे हैं। पड़ोसी रेवाड़ी में भी कमोबेश यही हालात हैं। यहां एक हजार लड़कों के मुकाबले 804 लड़कियां हैं। मेवात में एक हजार लड़कों के पीछे 916 लड़कियां और पंचकुला में 915 लड़कियां हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग गत वर्षों से तुलना कर खुद को पीठ ठोकने की कोशिश करने से पीछे नहीं हट रहा है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. एनके अरोड़ा ने कहा कि ताजा आंकड़े राज्य में लिंगानुपात में सुधार की तस्वीर दिखा रहे हैं।

**हरियाणा में लिंगानुपात बढ़ा पर कम नहीं हुई अभी चुनौती**

Dainik Jagran (H), January 21, 2015, P. 5



## अमीर घरानों में ज्यादा भ्रूण हत्या : मेनका

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के लिए खट्टर सरकार को बधाई

### सरकार की पहल

➤ पश्चिम राज्यों में लिंगानुपात दर खराब

➤ आदिवासी बाहुल्य राज्यों में 1000 पुरुषों की तुलना में 1100 महिलाएं



आज पानीपत रिफाइनरी टाऊनशिप में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के पहले दिन महिला एवं बाल विकास विषय पर आयोजित दो दिवसीय नव दिशा कार्यशाला का शुभारंभ करने के उपरान्त उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थीं।

पानीपत (निस, मोहन लाल) : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम को तत्परता से गति देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रयासों की सराहना की। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 16 दिसंबर 2014 को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हरियाणा का चयन किया था और हरियाणा सरकार ने इतनी अल्प अवधि में ही कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरा-पूरा माहौल तैयार किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल

सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए जा चुके हैं। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए कम अवधि में बेहतरीन प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ-साथ हरियाणा सरकार के अधिकारियों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश में घटता लिंगानुपात आज हमारे समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ा है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को जन-जागरण के रूप में आरंभ किया है और हरियाणा से इसका शुभारंभ किया

Punjab Kesari (H),  
January 21, 2015, P. 2  
(Female Foeticide)

## Satyarthi backs 'Save the Girl Child' initiative

Mumbai

Nobel laureate Kailash Satyarthi will throw his weight behind the 'Save the Girl Child' initiative of NGO MedScapeIndia which works for the upliftment of women and children.

Radiologist and MedScapeIndia chairperson Sunita Dube met Satyarthi and Child Rights Commission member Yogesh Dube and discussed possible endeavours for the betterment of children and women, particularly their health and well being.

Dube invited Satyarthi for the 'Save the Girl Child' campaign to be held Jan 24, to mark the Save the Girl Day. Lauding the initiative, Satyarthi - whose Bachpan Bachao Andolan has

grabbed attention worldwide - expressed happiness over taking part in the upcoming event in Mumbai.

Last year, the 'Save the Girl Child' campaign was supported by Bollywood megastar Amitabh Bachchan.

Launched in 2011 by Aryan Medical and Educational Trust, MedScapeIndia creates a common virtual platform for the medical community to network, share and receive wide ranging reliable medical news and reports.

It is supported by 21 medical councils and associations, including the Maharashtra Medical Council, branches of physiotherapy, gynaecology and obstetrics, neurology, dental, ayurveda, homoeopathy and other major organisations.

Free Press Journal, January 7, 2015, P. 5  
(Save the Girl Child)

## लिंगानुपात में पानीपत बनेगा देश का रोल मॉडल

अरुणेश, पानीपत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय योजना के तहत चयनित 100 जिलों में लिंगानुपात का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। उन्हें वर्ष 2016 तक अपना लक्ष्य पूरा करके देना है। यह लक्ष्य केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के लिंगानुपात लक्ष्य को आधार मानकर निर्धारित किया गया है। लिंगानुपात का लक्ष्य मामले में हरियाणा का पानीपत न केवल प्रदेश का रोल मॉडल बनेगा, बल्कि कर्नाल का लक्ष्य चयनित 12 जिलों में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। पानीपत को वर्ष 2016 में एक हजार लड़कों के मुकाबले 946 लड़कियों का लक्ष्य पूरा करना होगा, इसके ठीक विपरीत कर्नाल के लिए 756 रखा गया है। कर्नाल में वर्ष 2013-14 के दौरान लिंगानुपात का औसत 736 बताया गया है।

दिल्ली में पूर्वी दिल्ली को 947

दिल्ली को रेड जोन में रखते हुए इसके सभी जिलों का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत दक्षिणी दिल्ली को 868, पश्चिमी दिल्ली को 885, उत्तरी दिल्ली को 941 और पूर्वी दिल्ली को 947 का लक्ष्य दिया गया है।

- ◆ 1000 लड़कों के मुकाबले 946 लड़कियों का लक्ष्य पूरा करना होगा
- ◆ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के लिए चयनित 100 जिलों का लक्ष्य तय

उत्तर प्रदेश में हाथरस को 923

उत्तर प्रदेश के दस जिलों का चयन करते हुए इनके लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत हाथरस को सर्वाधिक 923 का लक्ष्य दिया गया है।

पंजाब में मुक्तसर को 939

पंजाब के दस जिलों का चयन करते हुए इन जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रदेश को भी रेड जोन में रखते हुए मुक्तसर जिला को सर्वाधिक 939 का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है।

दिल्ली में शीघ्र चलेगा बेटी बचाओ अभियान

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. दक्षिणी दिल्ली | 3. उत्तरी दिल्ली |
| 2. पश्चिमी दिल्ली | 4. पूर्वी दिल्ली |

Dainik Jagran (H), January 21, 2015, P. 11  
(Sex Ratio)



# हरियाणा में तीसरी बेटी का मतलब भ्रूण हत्या : मेनका

**खराब लिंगानुपात के लिए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब व दिल्ली रेड जोन में**

■ जागरण संवाददाता, पानीपत

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बेटी का मतलब ही भ्रूण हत्या है। हमें बेटी के पराया धन होने की सोच बदलनी होगी। स्थानीय रिफाइनरी में आयोजित दो दिवसीय सेमिनार में केंद्रीय मंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के हरियाणा से शुरू होने के कारणों का खुलासा किया। कहा, लिंगानुपात के मामले में हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली रेड जोन में आते हैं। यहां संपन्नता है, साक्षरता है, फिर भी भ्रूण हत्या होती है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान का शुभारंभ हरियाणा से करने का निर्णय लिया।

हरियाणा में कराए गए एक सर्वे का हवाला देते मेनका गांधी ने कहा कि 1998 में लिंगानुपात का स्तर 1000 पर 871 था, उसी समय दूसरी बेटी का औसत 759 और तीसरी बेटी पर औसत निकालने पर 600 है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहां पर तीसरी बेटी होने पर उसकी भ्रूण हत्या होती ही है। यही कारण है कि प्रदेश के 12 जिलों का चयन इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। सेमिनार में मौजूद गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान महिलाओं के लिए अच्छे दिन की शुरुआत है। एक डॉक्टर का काम किसी की जान लेना नहीं बल्कि जीवन बचाना होता है। कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से डॉक्टर किसी की हत्या करते हैं।



Dainik Jagran (H), January 21, 2015, P. 5  
(Female Foeticide-Haryana)

## बेटी बचाओ पढ़ाओ

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिकाओं के सशक्तीकरण और गिस्ते बाल लिंगानुपात के प्रति चिंता जाहिर करते हुए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। अब इसको योजना के रूप में प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी को लांच करने जा रहे हैं। हरियाणा से योजना को इसलिए लांच किया जा रहा है क्योंकि बाल लिंगानुपात के मामले में यह देश में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है।

**मकसद**

- इसके जरिये बालिकाओं के जन्म से संबंधित लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। लिंग निर्धारण की रोकथाम, भ्रूण हत्या, बालिकाओं की सुरक्षा, उनकी यथासंभव सुरक्षा और बेहतर शिक्षा प्रदान करना इस योजना के मुख्य एजेंडे में शामिल है।
- शुरुआत में देश के 100 जिलों में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाया जाएगा।
- शुरुआती मद में इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है।

**गिरता लिंगानुपात**

- 2001 के जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) प्रति एक हजार बालकों पर 927 बालिकाएं थीं। यह 2011 के जनसंख्या आंकड़ों में घटकर 918 रह गया।
- 2011 की जनगणना में यह गिरावट 21 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 3 से 79 प्वाइंट के बीच दर्ज की गई। पिछले दशक में केवल 11 राज्यों एवं दो केंद्रशासित प्रदेशों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- देश के 640 में से 429 जिलों में यह गिरावट दर्ज की गई।
- यूनिसेफ की एक रिपोर्ट (2012) में भारत इस मामले में 195 देशों की सूची में निचले 41वें स्थान पर था।
- बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करने के लिए 150 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है।



Dainik Jagran (H), January 21, 2015, P. 5  
(Sex Ratio)



# लालकिले के सपने को पानीपत में पूरा करेंगे मोदी

## कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जंग का गवाह बनेगा हरियाणा

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा काफी अहम होगा। ऐतिहासिक युद्धों की भूमि पानीपत से बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जंग का एलान तो करेंगे ही, लड़कियों की समृद्धि व सुरक्षा पर कारगर घोषणाएं भी कर सकते हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार यहां आ रहे मोदी जो भी संदेश देंगे, उसका असर दिल्ली के चुनाव और ओबामा की भारत यात्रा पर भी महसूस किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को पानीपत में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत करने के साथ ही सुकन्या समृद्धि खाता योजना का लोकार्पण भी करेंगे। इन योजनाओं का विजन प्रधानमंत्री ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से पेश किया था। कन्या भ्रूण हत्या के मामले में हरियाणा शुरू से ही बदनाम रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में भाजपा की प्रदेश इकाई व मनोहर सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर 26 अक्टूबर को कार्यभार संभाला था। 26 जनवरी को उनकी सरकार को तीन माह पूरे हो जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने तीन माह का रिपोर्ट कार्ड देने के साथ ही भविष्य का विजन भी पेश कर सकते हैं।

## बेटी बचाने और पढ़ाने का लिया संकल्प

जागरण संवाददाता, पानीपत : बेटी बचाने और पढ़ाने के संकल्प के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार बुधवार को संपन्न हो गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की लगातार दोनों दिन भागीदारी ने मुद्दे के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प का संदेश दिया। उन्होंने स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत की बाल ब्रांड एंबेसडर, मेवात की छठी कक्षा की छात्रा वसीमा को विशेष रूप से सम्मानित किया। प्रदेश में स्कूल स्तरीय स्लोगन, निबंध लेखन एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को सम्मानित करते हुए उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित भी किया।



### जिला महिला पुरस्कार

मेनका ने आठ मार्च को महिला दिवस पर पहली बार जिला महिला सम्मान पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि इस मौके पर

मेवात की वसीमा को सम्मानित करती केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी।

जागरण

देश की 640 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। फरवरी माह के अंत तक केंद्रीय मंत्रालय को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से नामांकन भेजे जा सकते हैं।

### योजनाओं के प्रारूप में बदलाव संभव

राज्य सरकार बृहस्पतिवार को लाडली और कन्यादान योजनाओं के प्रारूप में बदलाव कर सकती है। प्रदेश में वर्ष 2005-06 से शुरू लाडली योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर पांच साल तक हर साल पांच हजार रुपये देने का प्रावधान है, लेकिन लिंग अनुपात में सुधार के लिए मनोहर

सरकार यह लाभ पहली बेटी के जन्म पर ही देने की घोषणा कर सकती है। राज्य सरकार कन्यादान योजना के तहत परिवार की सभी बेटियों को आर्थिक सहायता देने का भी एलान कर सकती है। अभी तक सिर्फ दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिलता है।

Dainik Jagran (H), January 22, 2015, P. 16

# कोख में भी असुरक्षित हैं बेटियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कोख में बेटी की हत्या का दाग दिल्ली के दामन पर भी लगता रहा है। इस खजह से सूबे के लिंगानुपात पर हमेशा से अंगुलिया उठती रही है। बेटियों की संख्या को लेकर दिल्ली का नाम भी उन राज्यों के साथ शूमार किया जाता है जहां बेटियों की संख्या बेटों की अपेक्षा कम है। दुःखद यह है कि आंकड़ों का यह गणित शहर की झुग्गी-झोंपड़ियों व अनाधिकृत बस्तियों में नहीं, बल्कि पॉश इलाकों में गड़बड़ है। शिक्षित और समृद्ध कहे जाने वाले लोगों के इलाके में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम हैं। दिल्ली में लड़का-लड़की अनुपात की बात करें तो सूबे की सरकार यह दावा लगातार करती रही है कि साल दर साल शहर के लिंगानुपात में सुधार आ रहा है। वर्ष 2013 में प्रति एक हजार लड़कों पर दिल्ली में 895 लड़कियों का जन्म पंजीकृत किया गया। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न जांच केन्द्रों व डॉक्टरों के खिलाफ हुई कार्रवाई के आंकड़े से पता चल जाएगा कि किस प्रकार यहां पर प्रतिबंध के बावजूद जन्म पूर्व लिंग परीक्षण किया जाता है और भ्रूण हत्या की जाती है। सैकड़ों डॉक्टरों के लाइसेंस अब तक निरस्त किए जा चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चोरी-छिपे यह सिलसिला अब भी जारी है।



राजधानी में बेटियों की संख्या बेटों की अपेक्षा है कम



### प्रतिबंध के बावजूद जारी है जन्म पूर्व लिंग परीक्षण का सिलसिला

- वर्ष 2013 में प्रति एक हजार लड़कों के अनुपात में 895 लड़कियों का जन्म हुआ।
- वर्ष 2012 में प्रति एक हजार लड़कों के अनुपात में 886 लड़कियों का जन्म हुआ।
- वर्ष 2001 में प्रति एक हजार लड़कों की तुलना में 809 लड़कियों के जन्म का पंजीकरण हुआ।
- राजधानी में वर्ष 2013 में कुल 3.70 लाख बच्चों का जन्म हुआ। -2012 में 3.60 लाख व 2011 में 3.54 लाख बच्चों का जन्म हुआ। -इस वर्ष प्रतिदिन औसत 1014 बच्चों का जन्म हुआ जो वर्ष 2012 के 988 के आंकड़े से फर्क ज्यादा है।
- वर्ष 2013 में जन्में 3.70 लाख बच्चों में 1.95 लाख लड़के थे जबकि 1.75 लाख लड़कियां थीं।
- वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 34.8 फीसद बच्चों का जन्म नगर निगम उत्तरी क्षेत्र 32.7 का जन्म दक्षिणी नगर निगम क्षेत्र तथा 20.6 फीसद का जन्म पूर्वी दिल्ली निगम क्षेत्र में हुआ। 11.1 फीसद बच्चे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में जन्मे।
- दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा वर्ष 2012 के 23.93 फीसद के मुकाबले वर्ष 2013 में घटकर 22.37 रह गया।

Dainik Jagran (H), January 23, 2015, P. 7



लिंगानुपात के शर्मनाक आंकड़े/स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित

## शिमली में एक हजार बेटों पर सिर्फ 388 बेटियां

अजित शर्मा/किस  
रोहतक, 22 जनवरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ पानीपत में बेटों बचाओ-बेटियों पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है, लेकिन इस अभियान से ठीक पहले ही रोहतक जिला के शिमली गांव में लिंग असमानता के शर्मनाक आंकड़े सामने आए हैं। इस गांव में एक हजार लड़कों पर मात्र 388 लड़कियां पैदा हुई हैं। ऐसी स्थिति रोहतक के कई गांवों की बतायी जाती है। घटते

लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या के चलते खप पंचायतों ने भी बेटों बचाने का बीड़ा उठाया है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर चिंता जताते हुए भविष्य में एएनएम और आशा वर्कर्स की जिम्मेदारी तय की है।

गांव शिमली की आबादी करीब पांच हजार है। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में लड़का-लड़की के बीच भारी अंतर है। हाल ही में इस गांव के जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार एक हजार लड़कियों पर

### खप पंचायतों भी चिंतित

हरियाणा में घटते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ खप पंचायतों ने भी कदम उठाया है। खप पंचायतों की कोशिश है कि कड़े डंड का प्रावधान हो ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। साथ ही सामाजिक डंड भी हो, ताकि लिंगानुपात का अंतर पैदा न हो। पिछले दिनों रोहतक में हुई सर्वेक्षण पंचायत में भी इस पर चिंता जताते हुए अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था। वहीं, महिला समिति का मानना है कि पुत्र लालसा के चलते ही लिंगानुपात में भारी अंतर आ रहा है। कानून है, लेकिन सख्ती से पालना नहीं हो रही है। ऐसे में मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है।

388 लड़कियां पैदा हुई हैं, जो शायद हरियाणा में सबसे कम है। गांव की महिलाओं का मानना है समाज की सोच में ही बदलाव आ

काफी शर्मनाक स्थिति है। मुंगान में लिंगानुपात की दर 407, नौनंद गांव में लिंगानुपात की दर 426, गंगानगर में 500, सिसरौली में 500, गिड़ी में 547 और हसनगढ़ में 551 है। महिलाओं का मानना है कि लड़के की चाह में ही लड़कियों की संख्या घट रही है।

हरियाणा के अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव रामनिवास कहते हैं दिल्ली रोहतक के नजदीक है। यहां के लोग शिक्षित हैं, खेतीबाड़ी के साधन भी बेहतर हैं, इसके बावजूद लोगों सोच में बदलाव नहीं आ रहा है।

Dainik Tribune (H) , January 23, 2015, P. 3

## Haryana poses a challenge for Modi's 'save daughters' campaign

CHANDIGARH: Haryana has as many as 70 villages where not a single girl was born for several years. All the deliveries that took place in these villages were of baby boys.

Behind Thursday's national launch of Prime Minister Narendra Modi's "save daughters" campaign—Beti Bachao, Beti Padhao—from Haryana lies the harsh reality of missing daughters in Jatland.

Haryana's notoriety as a state with a dismal sex ratio is no secret, but there are still dozens of villages where the child sex ratio continues to be way below the 500 mark.

Sample this: In the Nangal village of Mahendgarh district, only eight girls were born in the year 2014 as against 24 boys. In Nawadi village, only seven girls were born against 22 boys last year. Similarly, in Garhi village in the same district, just two girls were born against eight boys in 2014.

Prime Minister Narendra Modi, who launched the programme from Panipat in Haryana on Thursday, made an emotional appeal to the people of India, saying he comes as a "bhikshuk" (beggar) to ask for daughters' lives to be saved. Modi said we have no right



Prime Minister Narendra Modi presents Sukanya Samridhi account pass-book to a girl during the launch of 'Beti Bachao Beti Padhao' programme in Panipat, Haryana, on Thursday. Actor Madhuri Dixit is also seen. PTI

to call ourselves citizens of the 21st century as long as we have an 18th century mindset. "The discrimination between sons and daughters must end," the prime minister said.

Noted actor Madhuri Dixit is the brand ambassador for the programme. She participated in the event on Thursday despite her mother being seriously ill.

Modi recalled the example

of Jayapur village in Varanasi where, on his advice, an Anandotsav (celebration) is held for the birth of each girl child with the planting of five tree saplings. "People across the country could follow this example," he said. The prime minister launched the "Sukanya Samridhi Account" for the benefit of the girl child and released a stamp on the theme.

DH News Service

Deccan Herald, January 23, 2015, P. 8  
(Campaign-Save Daughter)



# मोदी ने देश से मांगी बेटियों की जिंदगी की भीख

- अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को अभियान का ब्रांड अंबेसडर बनाया
- बेटे बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नाम पर डाक टिकट जारी

■ जागरण न्यूज नेटवर्क, पानीपत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी पानीपत में कोख में मार दी जाने वाली बच्चियों को बचाने की राष्ट्रव्यापी जंग का एलान किया। चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या का कलंक मिटाने के लिए रैली में मौजूद जनता खासकर महिलाओं से सीधा संवाद किया। जन्म से पहले हत्या के खिलाफ महिलाओं को झकझोरा, पिता व डॉक्टरों को उनका फर्ज भी याद दिलाया। मोदी बोले, वह देश की जनता से बेटियों की जिंदगी की भीख मांगने आए हैं। उम्मीद है कि जनता अपने पोएम को निराश नहीं करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ बेटे बचाओ-बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी की। बेटे बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कम लिंगानुपात वाले देश के सी जिलों पर विशेष फोकस रहेगा। इनमें हरियाणा के 12 जिले शामिल हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों की सामाजिक सुरक्षा के तौर पर शुरू किया गया है। पोएम ने रैली के मंच से सुकन्या समृद्धि योजना की अकाउंट पास बुक पांच बेटियों को प्रदान की। बेटे बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नाम पर डाक टिकट जारी करने के साथ ही प्रचार वाहन जन जागरण के लिए रवाना किए। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को बेटे बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड अंबेसडर बनाया गया। इस योजना पर स्मारिका भी जारी की गई। उन्होंने कहा, बेटे बचाने का संदेश पूरे देश के लिए जरूरी है। मोदी ने अपने संबोधन को बेटियाँ बचाने व उन्हें पढ़ाने-लिखने पर केंद्रित रखते हुए कहा, हमारी दोहरी सोच लड़कियों के प्रति ठीक नहीं है। माताएं बेटों को पराधीन मानती हैं। हम खुद को 21वीं सदी का प्राणी नहीं कह सकते। मानसिक तौर पर आज भी हम 18वीं सदी के प्राणी हैं। उन्होंने वाराणसी के जयापुर गांव की तर्ज पर बेटों के पैदा होने पर पांच पेड़ लगाने का आग्रह पूरे देश की जनता से किया। जब तक बेटे बड़ी होगी, तब तक पांचों पेड़ भी बड़े हो जाएंगे और इन पेड़ों की बिक्री से होने वाली आय शादी या पढ़ाई पर की जा सकती है। मोदी ने रैली में उपस्थित लोगों को दोनों हाथ खड़े कराकर कन्या भ्रूण हत्या न करने की शपथ भी दिलाई।



मोदी के साथ मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मेनका गांधी और माधुरी दीक्षित।

ई-पलैंग के माध्यम से बटल दबाकर जन जागरण के लिए प्रचार वाहन रवाना किए हैं सालों से हरियाणा के लोगों के बीच रहा हूँ। इन्होंने पाला-पोषा और बड़ा किया है। आज मैं, जो एक प्रधानमंत्री हूँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ। एक भिक्षु के रूप में बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। -नरेंद्र मोदी

## मां आइसीयू में पर बेटे बचाने आई माधुरी

प्रधानमंत्री ने बताया कि माधुरी दीक्षित नेने की मां आइसीयू में जिंदगी से जग लड़ रही है, लेकिन वे पानीपत में आपकी बेटे बचाने आई हैं। माधुरी की मां ने उनसे कहा कि ये बहुत ही अघातक काम है। माधुरी आज आपके बीच इसीलिए आई हैं।

## मोदी ने लोगों को दिलाई शपथ

'मैं शपथ लेता हूँ कि मैं लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करूंगा, मैं बेटे के जन्म पर खुश होकर सुनिश्चित वातावरण प्रकट करते हुए बेटे को सुशिक्षित करूंगा, मैं समान समाज में बेटे के प्रति भेदभाव स्वत्स करूंगा, मैं बेटे बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश पूरे समाज में प्रसारित करूंगा।'

## लिंगानुपात पर चिंता जताई

प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी ने अपने 38 मिनट के भाषण में कन्या भ्रूण हत्या रोकने को जनता को जागरूक करने में कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, वह यहाँ बड़ी पीड़ा लेकर आए हैं। डॉक्टरों को फर्ज याद दिलाते हुए कहा, क्या ऐसे कमाने के लिए यही जगह बची है। डॉक्टर पाप के भागीदार बन रहे हैं।

## खास बातें

- हमारी मानसिकता 18वीं शताब्दी की है। जब बेटे के पैदा होने पर दूध के बड़े बर्तन में उसे डुबोकर मार दिया जाता था लेकिन उस समय वह बेटे अपनी आंखें तो खोल सकती थी। - अगर अवसर मिलता है तो बेटों से ज्यादा बेटियाँ कमाल करती हैं। बेटियाँ आईटी सेक्टर, टीचर, हेल्थ सभी जगह आगे हैं। एग्जीक्यूटिव और पुशपालन सेक्टर में पुरुषों की बराबर की हिस्सेदार है। खेलकूद में भी वे 50 प्रतिशत तक के गोल्ड मेडल लाई है।

Dainik Jagran (H), January 23, 2015, P. 1

(Campaign-Save Daughter)



# मुझे बेटियों की जिंदगी की भीख दे दो: मोदी

अनुराग अग्रवाल / अरुणेश, पानीपत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी पानीपत से कोख में मार दी जाने वाली बच्चियों को बचाने की राष्ट्रव्यापी जंग का एलान कर दिया। कन्या भ्रूण हत्या के कर्लक को मिटाने के लिए बृहस्पतिवार को आयोजित रैली में मीजूट जनता, खासकर महिलाओं से उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में सीधा संवाद किया।

मोदी बोले, 'मैं देश की जनता से बेटियों की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। मुझे उम्मीद है जनता अपने प्रधानमंत्री को निराशा नहीं करेगी। बेटियों को बचाने की जंग जीतने के लिए उन्होंने बेटों बचाओ-बेटों पढ़ाओ व सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी की। योजना के तहत कम लिंगानुपात वाले देश के 12 जिलों पर फोकस रहेगा। इनमें हरियाणा के 12 जिले शामिल हैं। बेटों बचाओ-बेटों पढ़ाओ के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया और ई-फ्लैग के माध्यम से बटन दबाकर प्रचार वाहन जन जागरण के लिए रवाना किए। इसे बेटियों की सामाजिक सुरक्षा के तौर पर गुरु किया गया है। प्रधानमंत्री ने रैली के मंच से सुकन्या समृद्धि योजना की अकाउंट पास बुक प्रदेश की पांच बेटियों को प्रदान की। उन्होंने डॉक्टरों को उनका फर्ज याद दिलाया। पूछा कि क्या डॉक्टरों को पैसे कमाने के लिए यही जगह बची है। इस मौके पर अभिनेत्री माधुरी

● कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान का आगाज



मैं शपथ लेता हूँ कि लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करूंगा। मैं समाज में बेटों के प्रति भेदभाव खत्म करूंगा, मैं बेटों बचाओ-बेटों पढ़ाओ का संदेश पूरे समाज में प्रसारित करूंगा।  
-पीएम ने दिलाई शपथ

दोषित भी मौजूद थीं। उन्हें अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

ममता की योजना को पुरस्कृत करेंगे

कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कन्याश्री योजना को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहा है और इसके लिए बंगाल को विशेष पुरस्कार देने की घोषणा की।

Dainik Jagran (H), January 23, 2015, P. 1

(Campaign-Save Daughter)

# सुप्रीम कोर्ट ने लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापनों पर लगाई रोक

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, याहू जैसी वेबसाइटों को लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापन ब्लॉक करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि भारत का कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, लिहाजा विदेशी वेबसाइट इसका उल्लंघन नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने यह आदेश केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद दिया। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने पीठ के समक्ष कहा कि प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण (पीएनडीटी) एवं संभावित गर्भपात से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार करने वाले यूआरएल (यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर) को ब्लॉक किया जा सकता है, अगर इस बारे में उन तक जानकारी पहुंचाई जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग



याहू, गूगल जैसे सर्व इंजन वेबसाइटों को ऐसे विज्ञापन हटाने के लिए निर्देश

परीक्षण, प्रसव पूर्व डायग्नोस्टिक, प्री-नेटल अल्ट्रासोनोग्राफी, सेक्स सेलेक्शन प्रोसीजर, सेक्स सेलेक्शन आदि 'कीवर्ड' की जानकारी उन तक पहुंचाई जाए तो उससे संबंधित यूआरएल को ब्लॉक करने में आसानी होगी।

सरकार ने यह भी कहा कि गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट आदि सर्व इंजन भी इस तरह के यूआरएल को ब्लॉक कर सकते हैं। पीठ ने गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट आदि वेबसाइट से कहा कि वे इस तरह का विज्ञापन का प्रचार-प्रसार न करें, जो

पीएनडी एक्ट, 1994 की धारा 22 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत प्रतिबंधित है। पीठ ने कहा कि अगर सर्व इंजन में इस तरह का विज्ञापन हो तो उसे तत्काल हटाया जाए। याचिकाकर्ता साबू मैथ्यू जार्ज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील समीर पारिख ने कहा कि सर्व इंजन को विश्व भर में उन सामग्रियों या सेवाओं, जिसे संबंधित देश का कानून इजाजत नहीं देता, को ब्लॉक करने का आदेश दिया जाता रहा है। अदालत का यह आदेश इस मायने में बेहद अहम है, क्योंकि वर्ष 2014 में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिला था। चिंता की बात यह है कि हरियाणा में यह अनुपात प्रति एक हजार पुरुष पर 857 महिलाएं, पंजाब में 863 महिलाएं, उत्तर प्रदेश में 874 महिलाएं, दिल्ली में 884 महिलाएं, राजस्थान 893 महिलाएं, जम्मू एवं कश्मीर में 895 महिलाएं और महाराष्ट्र में 896 महिलाएं हैं।

Amar Ujala (H), January 29, 2015, P. 16

(Sex Determination Test)



**EMPOWERED GIRLS...  
EMPOWERED INDIA!**


*celebrating*  
**NATIONAL GIRL CHILD DAY**  
24<sup>th</sup> January, 2015


On this day, let us all commit to stop gender biased sex selection and gender discrimination.  
Let us reaffirm our commitment to protect the rights of every girl child.  
Together, let us improve the declining trend of child sex ratio.


**HIGHLIGHTS**

- Beti Bachao Beti Padhao Programme launched by Hon'ble Prime Minister on 22<sup>nd</sup> January, 2015 at Panipat (Haryana)
- Convergent action by Govt. of India & the States/UTs and Ministries of WCD, Health and HRD
- Ensure survival, protection and empowerment of the girl child
- Enable her education
- Implementation through a multi sectoral approach in 100 critical districts in all States & Union Territories
- Prevent gender biased sex selection through strict enforcement of PC & PNDT Act, 1994
- Advocate mindset change through a national media campaign
- Key role for Deputy Commissioners & Chief Medical Officers
- Community engagement

**GOAL**  
Celebrate the girl child & enable her education

  
**Beti Bachao Beti Padhao!**

  
**Ministry of Women & Child Development**  
www.wcd.nic.in

  
समृद्धिं करोति  
Government of India

The Indian Express, January 24, 2015, P. 7  
(National Girl Child Day)



**सशक्त बालिका...**  
**सशक्त भारत!**


24 जनवरी, 2015 को

**राष्ट्रीय बालिका दिवस  
मनाएं**

आज के दिन, हम सभी लड़कों की तरफदारी  
एवं बेटों एवं बेटियों के बीच भेदभाव करना बंद करने की प्रतिज्ञा करें।  
हम हर लड़की के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराएं।  
साथ मिलकर हम घटते बाल लिंग अनुपात में सुधार लाएं।



**मुख्य - बातें**

- बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत (हरियाणा) में शुरू किया गया
- भारत सरकार तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समवेत कार्रवाई
- बेटियों के अस्तित्व, संरक्षण और सशक्तीकरण का सुनिश्चय करना
- उनकी शिक्षा को संभव बनाना
- सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 100 नाजुक जिलों में बहुक्षेत्रक प्रयास के माध्यम से कार्यान्वयन
- पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 को कड़ाई से लागू करके लैंगिक पक्षपात के आधार पर लिंग चयन को रोकना
- एक राष्ट्रीय मीडिया अभियान के माध्यम से सोच में परिवर्तन लाना
- उपायुक्तों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की मुख्य भूमिका
- सामुदायिक भागीदारी



**बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ**

**महिला एवं  
बाल विकास मंत्रालय**  
www.wcd.nic.in



Punjab Kesari (H), January 24, 2015, P. 5



## हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार /

# आ जाना इस देस मेरी लाडो

### 1000 लड़कों पर बढ़ गई 35 लड़कियां

**दिनेश मारवाजा/ट्रिब्यून**  
चंडीगढ़, 8 जनवरी

हरियाणा में लिंगानुपात के मामले में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। यहां लाडलियों की संख्या बढ़ रही है। सितंबर-2010 से लेकर सितंबर 2014 तक के 4 वर्षों के दौरान प्रदेश में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या बढ़कर 872 हो गई है। इन 4 वर्षों में प्रति एक हजार पर 35 कन्याएं बढ़ी हैं। भ्रमणकारी कुरुक्षेत्र

मामले में फिसट्टी जिलों में भी बेटियों का सम्मान बढ़ा है। 2010 में 1000 लड़कों के पीछे यहां लड़कियों की संख्या 783 थी, जो अब बढ़कर 874 हो गई है। यानी इन चार वर्षों में प्रति हजार पर 91 बेटियां बढ़ी हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ में स्थिति सुधारने की बजाय खराब हुई है। मेवात जिला इन चारों ही वर्षों में नंबर वन पर रहा है। 2010 में मेवात में 1000 लड़कों पर कन्याओं की संख्या 902 थी जो अब बढ़कर 920

हो गई है। 4 साल पहले नंबर-2 पर रहा पलवल अब नंबर-5 पर है। वहीं लिंगानुपात में सुधार के साथ पंचकूला नंबर-2 पर आ गया है। इसी तरह से नंबर 3 पर रहा फरीदाबाद भी टॉप-5 से बाहर हो गया है। 4 साल पहले पांचवें नंबर पर रहा सिरसा अब सुधार के बाद नंबर-3 पर आ पहुंचा है। सुधार के साथ ही कैथल टॉप-5 जिलों में शामिल हो गया है। महेंद्रगढ़ व पलवल जिले को छोड़

के प्रति लोगों की सोच में सुधार देखने को मिला है। अगर वर्ष 2010 के 5 फिसट्टी जिलों को देखें तो रेवाड़ी में थोड़ा सुधार हुआ है। रेवाड़ी में 2010 में सबसे कम 756 कन्याएं थीं, जोकि अब बढ़कर 797 हो गई हैं। वहीं नंबर-चार पर रहे महेंद्रगढ़ में स्थिति और चिंताजनक हुई है और यह जिला प्रदेश का टॉप फिसट्टी जिला बन गया है। इज्जर में भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है।

**पेज 3 भी देखें**

Dainik Tribune (H) , January 9, 2015, P. 1

# असंतुलित लिंगानुपात सुधार कर बेटियों को हक दिलाने की तैयारी

**प्रदेश के 21 जिलों में से 12 जिलों में चलाया जाएगा अभियान**

चंडीगढ़, 8 जनवरी (ट्रिब्यून)

स्त्री-पुरुष लिंगानुपात सुधारने और बेटों व बेटियों के बीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को पानीपत से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। विशेष बात यह है कि हरियाणा के 21 जिलों में से वे 12 जिले इस कार्यक्रम के लिए चुने गए हैं, जहां लिंगानुपात की स्थिति बिगड़ी हुई

है। ऐसे जिलों में इस कार्यक्रम के तहत जागरूकता मुहिम भी चलाई जाएगी और बेटियों का सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने की योजना भी शुरू करेगी। पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से 'लाडली' एवं 'कन्यादान' योजनाएं शुरू की गई थी। बेशक, देर से ही सही लेकिन जिस तरह से प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हो रहा है, उससे आने वाले समय में इन योजनाओं के और भी सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है। वहीं अब राज्य की खट्टर सरकार ने इन योजनाओं में और विस्तार का फैसला लिया है।

**जिलावार स्त्री-पुरुष लिंगानुपात की स्थिति**

| जिला        | 2010 | 2014 | जिला       | 2010 | 2014 |
|-------------|------|------|------------|------|------|
| अंबाला      | 782  | 888  | मेवात      | 902  | 920  |
| भिवानी      | 830  | 836  | महेंद्रगढ़ | 787  | 786  |
| फरीदाबाद    | 877  | 884  | पलवल       | 890  | 881  |
| फतेहाबाद    | 856  | 888  | पंचकूला    | 868  | 915  |
| गुड़गांव    | 840  | 842  | पानीपत     | 853  | 893  |
| हिसार       | 857  | 876  | रेवाड़ी    | 756  | 797  |
| इज्जर       | 792  | 812  | रोहतक      | 810  | 887  |
| जींद        | 857  | 882  | सिरसा      | 868  | 900  |
| कैथल        | 831  | 898  | सोनीपत     | 810  | 846  |
| करनाल       | 810  | 886  | यमुनानगर   | 834  | 858  |
| कुरुक्षेत्र | 783  | 874  | प्रदेश में | 837  | 872  |

**खराब लिंगानुपात में 5 प्रमुख जिले**



**इन जिलों में शुरू होगी मुहिम**

महेंद्रगढ़, इज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, भिवानी व पानीपत। गौरतलब है कि राज्य में 5 जिले मेवात, पंचकूला, सिरसा, कैथल और पलवल लिंगानुपात में टॉप पर हैं।

**4 साल में कौन कहां**

| सितंबर 010  | सितंबर 014 |
|-------------|------------|
| रेवाड़ी     | महेंद्रगढ़ |
| अंबाला      | रेवाड़ी    |
| कुरुक्षेत्र | इज्जर      |
| महेंद्रगढ़  | भिवानी     |
| इज्जर       | सोनीपत     |

स्त्री-पुरुष लिंगानुपात के ये आंकड़े एक हजार पुरुषों पर आधारित हैं। राज्य के कुछ जिलों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है लेकिन कई जगह स्थिति ठीक नहीं है।

Dainik Tribune (H) , January 9, 2015, P. 3



**महेंद्रगढ़ जिले में एक साल में चौंकाने वाले आंकड़े**

## 60 गांवों में नहीं जन्मी बिटिया

**अमर उजाला ब्यूरो**

नारनौल। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' भले ही 22 जनवरी से शुरू होने जा रही है, लेकिन हरियाणा में कोख में ही बेटियों का गला घोटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 60 गांवों में पिछले साल एक भी बेटि पैदा नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग इसका मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या को मान रहा है।

पिछले दिनों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के छह गांवों में एक साल से एक भी बेटि के पैदा नहीं होने की खबर आई थी। अमर उजाला ने जब आगे पड़ताल की तो मामला ऐसे गांवों की संख्या 60 पर

**67** गांवों को बच्चों की किलकारी का इंतजार

- स्वास्थ्य महकमा भ्रूण हत्या मान रहा कारण
- नारनौल की सीएचसी-पीएचसी से मिले चौंकाने वाले आंकड़े

पहुंच गई। इस बात की पुष्टि आसपास की 15 सीएचसी और पीएचसी की ओर से स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से भी हुई है। इन 15 सीएचसी-पीएचसी के क्षेत्र में 311 गांव और ढाणियां आते हैं। वर्ष 2014 में इन गांवों में से 60 गांव और ढाणियों में किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ।

यह मामला अभी और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी करीब 15 पीएचसी-सीएचसी की रिपोर्ट आनी बाकी है।

सीएमओ विजय गर्ग का कहना है कि बीते वर्ष की रिपोर्ट सभी स्वास्थ्य केंद्रों से नहीं मिली है। जिले में लिंगानुपात बिगड़ने के पीछे मुख्य कारण महेंद्रगढ़ जिले का तीन ओर

से राजस्थान सीमा से सटा होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी बेटियों को बोझ मानते हैं। यही कारण है कि लोग पड़ोसी राज्य में जाकर भ्रूण की जांच करवाते हैं और कन्या होने पर गर्भपात करा देते हैं। इसी कारण जिले में लिंगानुपात में भारी अंतर आता जा रहा है। वर्ष 2014 के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 1000 लड़कों पर मात्र 738 लड़कियां हैं। लड़कियों के मामले में यह जिला प्रदेश में सबसे पिछड़ा है।

**67 गांवों को बच्चे की किलकारी का इंतजार :** नारनौल में 67 गांव ऐसे हैं, जहां पिछले एक साल में कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग फिलहाल ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।



Amar Ujala (H), January 18, 2015, P. 1



## 1.5 Child Welfare -other issues (National Bravery Award)

# सरकारी सहायता के बिना अनाथ बच्चों को पाल रहे



**संसाराम | संजय कुमार क्रांति**

'अभिभावकता को समझें-शिशुओं को गोद लें।' यह नारा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है। इस नारे को सरकारी महकमा कितना पालन कर रहा है, यह तो जगजाहिर है। लेकिन मंत्रालय के इस नारे को दिनारा के पंजरी निवासी अखिलेश कुमार बखुबी पूरा कर रहे हैं। वे निजी कोश से अनाथ बच्चों पर सालाना दो लाख रुपये खर्च कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन, अब 'हिन्दुस्तान' से जानकारी मिली है, तो निबंधन कराया जाएगा। मालूम हो कि अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए प्राधिकरण में निबंधन कराने का प्रावधान है।

**संवार रहे जिंदगी**

- तीन वर्षों में 12 को लिया गोद, सालाना खर्च कर रहे दो लाख रुपये
- पढ़ाई, किताबें, भोजन, कपड़े से लेकर आवास तक की सुविधा दे रहे बच्चों को

अखिलेश बताते हैं कि वे वर्ष 2011 में मदर टेरेसा की जीवनी पढ़े थे। इसी से उन्हें प्रेरणा मिली। तब से उन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लेने का काम शुरू किया। अभी तक ए 12 अनाथ लड़के-लड़कियों को गोद ले चुके हैं। वे उनकी पढ़ाई, भोजन, आवास, पाठ्य सामग्री, कपड़ा आदि आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं।

विक्रमगंज में इनका द डीपीएस स्कूल है। इसी में इन बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने नौ लड़के एवं तीन लड़कियों को गोद लिया है। लेकिन, उनके पास रात में लड़कियों को रखने का प्रबंध नहीं है। इसलिए निरा, रिधि, शीतल तीनों लड़कियां सोने के लिए अपने घर चली जाती हैं। फिर सुबह होते ही वे स्कूल में पहुंच जाती हैं। उन्होंने बताया कि प्रति साल एक लड़के पर बीस हजार एवं एक लड़की पर छह हजार रुपये खर्च करते हैं।

Hindustan (H), January 4, 2015, P. 16

# Autonomous toddlers have higher cognitive skills


**TORONTO, PTI:** Moms who encourage autonomous behaviour in their kids have children with higher cognitive skills, a new study has found.

The study led by researchers at the University of Montreal, Canada, found that a child's executive functioning is linked to the mother's ability to support his or her autonomy.

Executive functioning refers to a range of cognitive processes that are essential for cognitive, social and psychological functioning.

"Autonomy support includes things such as teaching children problem solving skills and involves taking the child's perspective while ensuring he or she takes an active role in completing tasks," said Celia Matte-Gagne, who led the study.

"Importantly, the study shows that it's not just about getting off to a good start. While many studies have confirmed that a mother's support are critical, few have looked at how these skills might change over time and what effect that might have," Matte-Gagne said.



Seventy-eight mothers and their children participated in the study. The participants were visited in their homes twice by the research team - once when the child was 15 months old, again at 3 years of age - and each visit lasted 60 to 90 minutes.

The mother was asked to help the children complete activities that were slightly too difficult for the child to do alone (building a tower and completing puzzles at the first visit, sorting blocks at the second.)

The activities took ten minutes and were video-recorded so that the researchers could evaluate the mother's autonomy-supportive behaviours.

The researchers evaluated to what extent the mother encouraged her child in the pursuit of the task (giving positive feedback and using a positive tone of voice), took her child's perspective and demonstrated flexibility in her attempts to keep the child on task or followed her child's pace.

They also assessed whether the mother provided the child with the opportunity to make choices and play an active role, and intervened and adapted the task according to the infant's needs while minimising use of controlling techniques.

The child's executive functioning was evaluated at three years of age by using a range of adapted games that show a child's ability to delay gratification, the strength of their working memory and their capacity to think about multiple concepts simultaneously.

The highest scores went to the children whose mothers were consistently amongst the best at promoting autonomous behaviour.

Deccan Herald, January 15, 2015, P. 6



# 24 young guns India's bravest

## Acid Attack Survivor Who Fought Off Uncle's Advances Picked For Top Award

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Being told she'll be conferred the Bharat Award—the highest of the National Bravery Awards—has helped Resham Fatma deal with the trauma. The 16-year-old acid attack survivor had fought off her uncle, managed to escape from the car he'd dragged her into and taken an auto to the police station. She's looking forward to meeting the Prime Minister on Republic Day. "I have lots of things to tell him," she says.

The Indian Council for Child Welfare, which instituted this award, has selected 24 winners this year—eight girls and 16 boys. Four of them will receive the award posthumously. Among the winners are kids who have plunged into rivers or ponds to rescue those drowning, sent a leopard packing by chucking mangoes at it, saved others from electrocution and taken bullets meant for others.

Ashwini Bandu Ughade, 13, saved her sister from a leopard—an animal she'd never seen before—by throwing mangoes they'd just collected from a farm. The teen from Akole district of Maharashtra hopes to be a policewoman. At seven, Ripa Das from Tripura is the youngest winner of a National Bravery Award this year; she protected her little brother from a fire and took him to safety. Pint-sized Mhonbeni Ezung, from Nagaland, managed to save her grandmother—considerably bigger than her—from drowning. G Tooldev Sharma, from Manipur, did the same for a neighbour and he

### PROFILES IN COURAGE



**TINY GIRL, BIG FEAT:** Mhonbeni Ezung saved her grandmother

#### BAPU GAIDHANI AWARD

**Rumoh Meto, 13, Arunachal Pradesh**  
Rumoh freed his 32-year-old cousin caught in a 33-KV high-voltage transmission. In his first attempt, he was flung off by the livewire. The second time, though, was pure pluck. His cousin, Milu Mega, suffered burns but Rumoh was relatively unhurt. He too hopes to join the armed forces. He attends a military school, plays football and practises boxing

doesn't even know how to swim. His mum, though, gives equal credit to a bamboo pole that the boy clung to during the rescue.

Balram Dansena (11, Chhattisgarh), Hiral Jitubhai Halpati (17, Gujarat), Vishal Becharbhai Katosana (10, Gujarat), Rajdeep Das (16, Jharkhand), Anjith P (12, Kerala), Aquil Mohammad NK (9, Kerala), Midhun PP (14, Kerala) and Stevenson Lawrinliang (14, Kerala) all made hair-raising rescues in water. Gaurav Kumar Bharti (15, Uttar Pradesh) and Mesak



Resham Fatma and Devesh Kumar

#### BHARAT AWARD

**Resham Fatma, 16, Uttar Pradesh**  
Twelfth-grader Resham hopes to join the administrative services some day. The Lucknow resident was kidnapped by her uncle and forced to board a car. When she resisted his advances, he poured acid on her. Finally, she managed to flee, a feat that has brought her the highest bravery award for children.

#### BAPU GAIDHANI AWARD

**Monika, 16, Uttarakhand**  
Washing clothes on the banks of the Alaknanda at Chamoli, Monika spotted 10-year-old Sahil in the water. She jumped into the river and managed to save Sahil but not herself. Village pradhan Harish Chauhan is hoping the state government will name a school after her. She was in Class 11

K Remnalalghaka (14, Mizoram) died trying to save others from whirlpools. Gaurav's father Shambhu Nath Bharti, a policeman, says his son was "fearless" and an excellent student. "He'd written just two papers before the incident in March 2014 and had secured 190 marks," says Bharti. L Brainson Singh (10, Manipur) saved his six year-old brother Wayengamba from electrocution.

Heroic as their deeds were, many are still recovering from the trauma. Fatma has already had two surgeries and there are

#### SANJAY CHOPRA AWARD

**Devesh Kumar, 16, UP**  
Devesh took a bullet while trying to retrieve his school principal's chain from snatchers in Mainpuri. He was hospitalized for 22 days and received 19 stitches. "But I'm perfectly fine now, totally fit," he says lest any hint of injury scuttles his chances of joining the army or the BSF. The youngest of four siblings, Devesh is in Class 12

#### BAPU GAIDHANI AWARD

**Riya Chaudhary, 15, Uttar Pradesh**  
Riya's family was attacked by armed goons over a land dispute. They targeted her father, a farmer, but she placed herself before him, took the bullet and passed away. Her father Suresh Pal Singh said, "She didn't believe in gunda-gardi. She would keep to her books and participated in school activities."

#### GEETA CHOPRA AWARD

**Gunjan Sharma, 13, Assam**  
In December 2013, an armed man hijacked a van carrying 11 schoolkids at Simaluguri town in Assam's Sivasagar district. The oldest among the kids, Gunjan Sharma, volunteered to be taken hostage provided the rest are allowed to go. Accordingly, she was taken to a forest and abandoned, from where she had to walk for an hour to get help



several more to go. She suffered burns on her face, a large part of her scalp and leg. "People like him deserve only the death sentence," she states of her uncle and attacker. "They should have a drop of acid dripped on them everyday." The perpetrator had been in jail and later committed suicide.

The initial days were difficult. "She was very depressed. I put my business on hold for 10 months, taking time off to counsel her," says her maternal uncle—who is an almost adoptive parent—Irfan Ahmed Sid-

diqui with whom she's lived for over a decade now. Fatma's birth parents live in Jamshedpur. She has two younger siblings—a brother too young to understand what happened and a 12-year-old sister who, according to Fatma, reacted "very maturely".

Siddiqui's counselling has helped, of course, but the award too has done its bit. She has now recovered enough to think of her future. "I want to do engineering, then MBA and then become an IAS officer," she says. "I want to change society"

The Times of India, January 18, 2015, P. 4  
(National Bravery Award)



# From taking a bullet to fighting leopards, they have done it all

**HEROES** 24 children awarded national bravery awards, eight of whom are girls

Shradha Chettri

shradha.chettri@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** Fighting acid-attackers, braving bullets to save parents saving drowning friends - these little heroes have done it all.

Recognising their heroic deeds, the Indian Council for Child Welfare on Saturday awarded the National Bravery Awards to 24 children, eight of whom were girls and 16 boys.

Prime Minister Narendra Modi will award these children on January 24. While all 24 saved lives, the courage of four girls invokes a fierce sense to fight.

## SHE FOUGHT AN ACID ATTACK BY HER UNCLE

Resham Fatma, 16, a class 12 student from Lucknow, was abducted by her uncle who poured acid on her when she refused his marriage proposal.

Resham jumped out of the car, pushed away her uncle with



16-year-old Resham Fatma's uncle attacked her with acid after she refused his marriage proposal. MOHD ZAKIR/HT

burn injuries on her head, face and thigh.

Having undergone several surgeries, Resham was given the Bharat Award.

"The man committed suicide and had an easy death. What I have gone through cannot be explained but I hope the government does something about acid attacks," Resham said.

## SHE TOOK A BULLET TO SAVE HER PARENTS

Riya Chaudhary was awarded posthumously. The 15-year-old from Muzaffarnagar, UP, came in the way of the bullet aimed at her father and mother that her uncle fired over a land dispute.

Her father Suresh Palsingh had tears in his eyes as he spoke about his elder daughter. "She directly

got hit by the bullet in her chest; she came in between to save us even though her mother had been shot at twice in her hand. Three of the culprits have been caught but one is still missing. We have lost a jewel from our family."

## SHE RESCUED HER SISTER FROM A LEOPARD

Ashwini Bandu Ughade from Mehenduri village of Akole in Maharashtra rescued her sister from a leopard.

She hit the leopard with a mango and pulled Rohini out of the leopard's jaws and paws.

## SHE SAVED HER GRANDMOM FROM DROWNING

Mhonbeni Ezung from Nagaland saved her grandmother from drowning into a river. Even though Ezung did not know swimming, she jumped into the river.

"I love my granny very much so when I saw her I just dived in to save her," she said.

Hindustan Times, January 18, 2015, P. 7

साहस को सलाम • कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित जूरी की बैठक में लिया गया फैसला

साहसी कारनामा अंजाम देने वाले पांच बच्चों का हुआ चयन

# पांच बाल बहादुरों को वीरता पुरस्कार



## इसलिए मिलेगा पुरस्कार

1. वैदूर्य निगम : केंद्रीय विद्यालय, रायपुर में 11वीं में पढ़ने वाले वैदूर्य अपनी मौसी के घर राजनांदगांव गया था। वहाँ अत्याचर कुरो ने पड़ोस के पांच साल के एक बच्चे को घेर लिया था। वैदूर्य ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए बच्चे की जान बचाई।

2. पायल साहू : महासमुंद की फायल साहू अपनी माँ और बहन के साथ खे रही थी। अचानक पायल को कुछ कटने का अहसास हुआ। उठकर देखा तो जहरीला साँप था। माँ-बहन की तरफ जा रहे साँप को फायल ने झपटकर पकड़ लिया और बाहर फेंका।

3. रौनक मिलिंद : राजनांदगांव के रौनक मिलिंद पिता के साथ अमरकंटक घूमने के लिए गया था। वहाँ पर बंदरो ने उसके पिता को घेकर लुटोलकर कर दिया। वह

देखकर मिलिंद ने बंदरो पर पत्थर फेंककर और लोगों को बुलाकर पिता को बचाया।

4. जोयन्ना चक्रवर्ती : बैकुंठपुर कोरिया केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी की कक्षा छठवीं की जोयन्ना चक्रवर्ती परिवार के साथ दिल्ली गई थी। वहाँ एक चोर उनके पिता का मोबाइल फोन छीनकर भागा, लेकिन जोयन्ना ने चोर का पीछा कर उससे मोबाइल फोन वापस लिया।

5. सर्वानंद साहा- सूरजगढ़ जिला रायगढ़ निवासी 11वीं की छात्र सर्वानंद स्कूल से घर लौट रहे थे। इस दौरान महावदी में बाढ़ आ गई। सड़क पर पानी आने से युवक को डूबते देखा अन्य लोगों की मदद से सर्वानंद ने उसे बचाया।

रायपुर

raipur@patrika.com

विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने वाले प्रदेश के पांच बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें राजधानी के रहिणीपुरम का रहने वाला वैदूर्य निगम, महासमुंद की पायल साहू, राजनांदगांव के रौनक मिलिंद, कोरिया बैकुंठपुर की जोयन्ना चक्रवर्ती और सूरजगढ़ जिला रायगढ़ का सर्वानंद साहा शामिल हैं। राज्य बाल कल्याण परिषद की जूरी की बैठक सोमवार को कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इन बच्चों का चयन किया गया।

पत्रिका

समाचार



19 जनवरी 2015 को प्रकाशित

पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह में इन बच्चों को राज्यपाल बलरामजी दास टंडन सम्मानित करेंगे। इस दौरान इन्हें 15-15 हजार रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे।

प्रदेश के पांच बहादुर बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार 2014 के लिए चयनित किया गया है। पांच बच्चों में एक राजधानी का भी है।

शीला शर्मा, सीईओ राज्य बाल कल्याण परिषद

Rajasthan Patrika (H), January 20, 2015, P. 9



## उपराज्यपाल से मिले बहादुर बच्चे



साढ़े 17 वर्षीय बालिका कुमारी रेशम फातमा को दिया जाएगा जिसने तेजाब के हमले से अपने आपको बचाया। प्रतिष्ठित 'गीता चोपड़ा' पुरस्कार

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): अपने साहस व वीरतापूर्ण कार्य के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2014 हेतु देशभर से चुने गए 24 बच्चों के साथ आज उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुलाकात की तथा उन्हें सम्मानित किया। इन बहादुर बच्चों में 16 लड़के व 8 लड़कियां हैं। इनमें से चार बच्चों को मरणोपरान्त यह पुरस्कार दिया गया है। राजनिवास में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्य सचिव, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव तथा उपराज्यपाल सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने बहादुर बच्चों के साहसिक कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें अपने समाज में इस तरह के अधिकाधिक उदाहरणों की जरूरत है। अल्प आयु में इनके निःस्वार्थ कार्य दूसरों को प्रेरणा और हम सभी को ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हर साल उन बच्चों को दिया जाता है जो अपने अदम्य साहस से दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हैं। इस वर्ष का सबसे प्रतिष्ठित 'भारत पुरस्कार' उत्तर प्रदेश की आसाम की साढ़े 14 वर्षीय बालिका कुमारी गुंजन शर्मा को दिया जाएगा जिसने अपने स्कूल की वैन को घने जंगलों में अपहरण होने से बचाया।

'संजय' पुरस्कार उत्तर प्रदेश के साढ़े 17 वर्षीय मास्टर देवेश कुमार को दिया जाएगा जिसने बहादुरी दिखाते हुए चोरों से मुकाबला किया। इसी प्रकार 'बापू गैयधानी पुरस्कार' के लिए अरुणाचल प्रदेश के मास्टर रूमहो मितो, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए अपने आपको बिजली के करंट से बचाया। स्वर्गीय कुमारी रिया चौधरी, उत्तर प्रदेश और स्वर्गीय कुमारी मोनिका, उत्तराखंड को भी 'बापू गैयधानी पुरस्कार' के लिए चयनित किया गया है। कुमारी रिया चौधरी ने अपने पिताजी को डाकुओं से जड़ने हुए बचाया जिसमें उनकी मृत्यु भी हो गई। इसी प्रकार कुमारी मोनिका ने एक डूबते बच्चे की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

Punjab Kesari (H), January 22, 2015, P. 5



## 2. Health and Nutrition issues

### 2.1 Child/Adolescent Health (Pulse Polio Immunisation/Oral Polio Vaccine/Tribal Children's Health/Swine Flu)

# Prez launches Pulse Polio Immunisation Programme

press trust of india

NEW DELHI, 17 JAN. President Pranab Mukherjee launched the Pulse Polio Immunization Programme by administering polio drops to children aged below five years at the Rashtrapati Bhavan here today, on the eve of National Immunization Day.


"Around 174 million children of less than five years age across the country will be given polio drops as part of the drive of government to sustain polio eradication from the country," a Health Ministry statement said.

Lauding the efforts of nearly 23 lakh volunteers and 1.5 lakh supervisors for eradicating polio from India, Health Minister J P Nadda said that there has been no case of wild polio since January 13, 2011. "India was certified polio free last year and is part of the 11 countries of South-East Asia Region of WHO (along with Bangladesh, Bhutan, Democratic People's Republic of Korea, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand and Timor-Leste) which are polio free," Nadda said, while speaking on the eve of National Immunization Day.

Affirming that India is looking forward to playing a major role in implementation of "Polio endgame strategy", Nadda informed about the introduction of inactivated polio vaccine in routine immunization programme and a switch from trivalent Oral Polio Vaccine (OPV) to bivalent OPV six months later in a synchronised manner globally. Noting that the efforts to keep the country polio free are being sustained, Nadda said that being mindful of the risk of importation from other countries including the neighbourhood, immunity against polio infection is maintained through National and Sub National Polio rounds along with sustained high quality polio surveillance.

"A travel advisory has also been issued as per WHO guidelines to vaccinate all travellers who are travelling between India and eight polio-infected countries comprising Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Cameroon, Syria, Ethiopia, Somalia & Kenya," he said.

He said that an Emergency Preparedness and Response Plan (EPRP) has been put in place under which Rapid Response Teams (RRT) have been formed in all states and Union Territories to respond urgently to any importations.



**President Pranab Mukherjee administer Polio drops at Rashtrapati Bhavan on Saturday. sbs**

The Statesman, January 18, 2015, P. 2  
(Pulse Polio Immunisation Programme)

# 174 mn kids to be given polio drops

New Delhi: On the eve of the national immunisation programme, President Pranab Mukherjee on Saturday launched the Pulse Polio programme for 2015 by administering polio drops to children less than five years old at the Rashtrapati Bhavan here in the Capital.

Around 174 million children of less than five years across the country will be given polio drops as part of the drive of the Government on Sunday to sustain polio eradication.

**Health Minister JP Nadda applauded the hard work of 23 lakh volunteers and 1.5 lakh supervisors**

Speaking at the event, Union Health Minister JP Nadda applauded the sustained hard work of nearly 23 lakh volunteers and 1.5 lakh supervisors, along with donor partners for eradicating polio from the country.

Affirming that India is looking forward to playing a major role in the implementation of 'Polio endgame strategy', he said, introduction of inactivated polio vaccine in routine immunisation programme and a switch from trivalent OPV to bivalent OPV six months later will be done in a synchronised manner globally.

PNS

The Pioneer, January 18, 2015, P. 5  
(Polio Drop)



## Injectable polio vaccine in Oct.

TEENA THACKER  
NEW DELHI, JAN. 14

After using oral polio vaccine (OPV) for decades, India is all set to introduce injectable polio vaccine (IPV) from October this year. While India has been certified polio-free by the World Health Organisation (WHO), preparations are now afoot to introduce inactivated polio vaccine in routine immunisation as part of the eventual phasing out of oral polio vaccines (OPV).

About 124 countries currently use OPV. According to the experts these countries will have to introduce a dose of IPV in 2015 as part of their commitment to the global polio endgame plan which aims to ensure a polio-free world by 2018.

In a bid to ensure complete elimination of the polio virus, the India expert advisory group on polio had too recommended of stop using trivalent polio vaccine which it has been using for more than three decades. The need was felt as chances of vaccine derived polio virus infection (VDPV) are higher with the use of TOPV (that targets all three strains of polio

● **'The introduction of IPV is part of the polio endgame strategy,' said a senior official in the health ministry**

virus P1, P2 and P3).

"The introduction of IPV is part of the polio endgame strategy. According to the WHO headquarters, which has been working with the vaccine industry to ensure enough vaccination, IPV should be introduced at the earliest," said a senior official in the health ministry.

India though shifted to bivalent vaccine (for both P1 and P3 viruses) which induced a significantly higher immunity response — 30 per cent more than other trivalent or monovalent vaccines being used earlier. However, the recent recommendation from the WHO regarding IPV is crucial, as India has been putting aside the same recommendation from the IEAG for quite sometime, mostly because of the apprehensions of the people and the high cost of the vaccine. The IEAG had in 2009 too recommended the use of IPV.

## Pulse polio drive from Sunday

BENGALURU, DHNS: To wipe out occurrence of polio, Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) will administer pulse polio drops to children, aged between zero and five, on January 18 and February 22.

The Palike health department in coordination with Rotary Club, Confederation of Real Estate Developers' Associations of India, State government, college students, builders' association and other stakeholders will execute the polio drive in all the 198 wards.

Addressing a press conference on Wednesday, Palike Commissioner M Lakshminarayana said: "A total of 2,970 booths will be operational along with 422 mobile units. About 14,358 polio vaccine administrators comprising nursing, medical students among other volunteers will be involved. The booths have been set up at private and government schools, bus stops, important parks, near malls, primary health centres, anganwadi centres, private nursing homes, railway stations and other populated areas."

Mayor N Shanthakumari said a rally and awareness programme on polio will be conducted on January 16, from MG Road to Palike head office on Nrupathunga Road. Those who want to know more about polio drive can contact BBMP zonal offices or call 080 22221188/22975595 / 22225657.

The Asian Age, January 15, 2015, P. 3  
(Oral Polio Vaccine)

Deccan Herald,  
January 15, 2015, P. 2  
(Pulse Polio Drop)



## राज्यभर में 75 लाख बच्चों ने ली पोलियोरोधी खुराक



**व्यवस्था में जुड़े पौने दो लाख कर्मचारी**

बताया गया है कि प्रदेश में पांच वर्ष आयु तक के करीब 8.4 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 37,192 बूथ लगाए गए थे। राज्य के दूर-सुदूर एवं दुर्गम स्थलों में स्थित क्षेत्रों के लिए 2834 मोबाइल टीमों की व्यवस्था की गई थी। सफर कर रहे कले लोगों के बच्चों की सुविधा के लिए विभिन्न बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों व हवाई अड्डों के आसपास पोलियोरोधी खुराक पिलाने वाली 236 0 टीमों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया।

गंधीनगर प्रदेश में रविवार को करीब 75 लाख बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई गई। मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने पिछले सात सालों से ज्यादा समय से पोलियो मुक्त प्रदेश में सतर्कता के मद्देनजर रविवार सुबह गंधीनगर एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने अहमदाबाद के राणिप क्षेत्र से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कराया। पूरे राज्य में सुबह साढ़े आठ से शाम पांच बजे तक आयोजित पल्स पोलियो अभियान में करीब 75 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई।

**घर-घर जाकर पिलाएंगे खुराक**

इस सन्दर्भ में अहमदाबाद महानगर पालिका के उप स्वास्थ्य अधिकारी (रसोकरण) ए.ए. बेगडा ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित पल्स पोलियो अभियान में मनपा स्वास्थ्य विभाग ने भी शहर के लगभग 9.53 लाख बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे बूथ अभियान में पहले दिन रविवार को करीब 33 सौ बूथ, मोबाइल व ट्रांजिट वैन एवं लगभग 12 सौ कर्मचारियों के सहयोग से लगभग छह लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने में सफलता हासिल की गई है। बाकी रह गए बच्चों को खुराक पिलाने के लिए सोमवार से बुधवार तक घर-घर जाकर पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इस दौरान शहर के करीब 14 लाख घरों को कवर कर लेने का लक्ष्य है। बेगडा ने कहा कि अहमदाबाद में वर्ष 2006 एवं पूरे प्रदेश में वर्ष 2007 के बाद से पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया है।

Rajasthan Patrika (H), January 19, 2015, P. 11  
(Pulse Polio Drop)

## 'Death probability by NCDs on rise in India'

**PRESS TRUST OF INDIA**  
Geneva, 19 January

The probability of Indians dying pre-maturely from non-communicable diseases like cancer and diabetes has marginally increased, the World Health Organisation (WHO) said today, asking, "India has reached the space age but what about its people."

The latest global status report on non-communicable diseases (NCDs) conducted by the WHO states that the probability of dying between 30 and 70 from a non-communicable disease in India has increased to 26.2 per cent in 2012 from 26.1 per cent in 2010. The percentage of such deaths in India is worse than almost the whole of sub-Saharan Africa and South Asia. The four main NCDs are cardiovascular diseases, cancer, diabetes and chronic respiratory diseases. The report is the second in a triennial series tracking worldwide progress in prevention and control of NCDs. Out of the world's 56 million deaths, NCDs were responsible for 68 per cent - 38 million deaths in 2012 - making it the leading cause of death globally, it said.

More than 40 per cent of them (16 million) were premature deaths under the age of 70. Almost three quarters of all NCD deaths (28 million), and the majority of premature deaths (82 per cent), occur in low-and middle-income countries, it said. China, France, Russia, the UK, and the US in 2012 only the Russian Federation has a higher probability of death caused by NCDs than India with a 29.2 per cent chance of a person dying a premature death from it, even though it shows a decrease from 2010.

The Statesman, January 20, 2015, P. 16



Sh. Manohar Lal  
Hon'ble Chief Minister  
Haryana

Sh. Narendra Modi  
Hon'ble Prime Minister

Sh. Anil Vij  
Hon'ble Health Minister  
Haryana

**Let's Make Efforts Today  
And Ensure Polio Stays Away**

मेरे बच्चे को दो बूँद, डर धार  
برے بچے کو دو بوندیں، ڈر نہ ہار

**18**  
January

**REMEMBER, EVERY DOSE OF POLIO IS IMPORTANT  
SO THAT POLIO DOES NOT COME BACK**

**First 5 Years, Give your Child Two Drops Every Time**

World Health Organization Rotary India CDC unicef

National Health Mission, Health Department, Haryana

**BETI BACHAO - BETI PADHAO**  
Launch of the National Programme by  
Hon'ble Prime Minister Sh. Narendra Modi  
on January 22, 2015  
from HUDA Ground, Panipat (Haryana)

The Times of India, January 18, 2015, P. 7  
(Polio Drop)



# भारत में गैर संक्रामक बीमारियों से मौत की बढ़ रही आशंका

**जेनेवा, प्रेटर :** भारत में वर्ष 2010-2012 के बीच कैंसर जैसे गैर संक्रामक रोगों (एनसीडीज) से मरने की आशंका बढ़ गई। एनसीडीज दुनिया में मौत के एक प्रमुख कारण के रूप में उभरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सोमवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही है।

डब्ल्यूएचओ ने एनसीडीज पर अपनी ताजा वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और सांस लेने में परेशानी से जुड़ी पुरानी बीमारी कुल चार मुख्य गैर संक्रामक बीमारियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बीमारियों से भारत में 30 से 70 साल के बीच मरने वाले लोगों की आशंका जो वर्ष 26.1 फीसद थी, वह बढ़कर 2012 में 26.2 फीसद हो गई। भारत में इस तरह की मौत का यह फीसद दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों की तुलना में सबसे खराब है। पी-5 देशों (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) में केवल रूस की ही स्थिति (29.2 फीसद के साथ) भारत से अधिक खराब थी। दूसरे शब्दों में कहें तो एनसीडीज 70 की उम्र से पहले मरने की आशंका 29.2 फीसद थी। हालांकि, वर्ष 2010 में इसमें कमी देखी गई थी।

- कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज और सांस से जुड़ी गैर संक्रामक बीमारियों हो रही सर्वाधिक मौतें
- वर्ष 2010 के मुकाबले 2012 में और बढ़ गई गैर संक्रामक बीमारियों से मरने वालों की संख्या




**एनसीडीज से मरे 68% लोग**



दुनिया के 5.6 करोड़ मौतों में एनसीडीज की वजह से 68 फीसद यानी 3.8 करोड़ लोगों की मौत हुई। इनमें से 40 फीसद की मौत 70 साल से पहले हुई। इस तरह की सर्वाधिक 82 फीसदी मौत निम्न और मध्य आय वर्ग वाले देशों में हुई। भारत को इस रिपोर्ट में निम्न-मध्य आय वर्ग में रखा गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले प्रमुख लेखक शांति मेडिस का कहना है कि भारत के पास संसाधन हैं। उसे अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में इन बीमारियों से सन 2000 में 67 लाख लोगों की मौत हुई वह वर्ष 2012 में बढ़कर 85 लाख हो गई। इनमें कैंसर की वजह से 21.7 फीसद लोग मरे।

**भारत में 62% पुरुष और 52.2% महिलाएं एनसीडीज से मरे**



भारत में 70 साल से कम उम्र में एनसीडीज की वजह से कुल मरे लोगों में 62 फीसद पुरुष और 52.2 फीसद महिलाएं थीं। प्रति एक लाख पुरुषों में 785 की मौत इन बीमारियों से हुई। इनमें 79 की मौत कैंसर से, 188.5 की सांस संबंधी बीमारी से, 348.9 को हृदय की रक्त घमनियों संबंधी बीमारी से और 30.2 की डायबिटीज से हुई। इतनी ही महिलाओं में कुल 586.6 महिलाएं मरीं। इनमें 66.3 कैंसर की वजह से, 124.9 सांस संबंधी बीमारी से, 264.6 हृदय रोग से और 22.7 डायबिटीज से।

**15 लाख लोगों की मौत हुई वर्ष 2012 में डायबिटीज की वजह से**

**13.3% लोग भारत में 15 साल से अधिक उम्र के तंबाकू उत्पाद पीते हैं**



**दुनिया के एक अरब 10 लाख लोग करते हैं धूमपान**

वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 1.1 अरब धूमपान करने वाले हैं। इनमें दस में से आठ प्रतिदिन करते हैं। प्रति वर्ष दुनिया में 60 लाख लोग प्रति वर्ष तंबाकू के इस्तेमाल से मरते हैं। इनमें करीब 10 फीसद धूमपान करने वालों के संपर्क में रहने की वजह से मरते हैं।



# Meningitis: Indian vaccine will protect infants also

The vaccine, which is heat stable, is a great Indian success story

R. PRASAD

**A** meningitis A vaccine (MenAfriVac) manufactured by Serum Institute of India, Pune was approved by WHO a few days ago for use in infants in sub-Saharan African populations. The vaccine will be introduced as part of the routine immunisation programme.

"In the four years since its introduction in Africa, MenAfriVac has had an immediate and dramatic impact in breaking the cycle of meningitis A epidemics," a WHO release said. The vaccine has already been used in those aged 1-29 years. But with the WHO's approval, the vaccine can be given to infants thereby "protecting million more children at risk of the deadly disease." About 200,000 people suffer from meningitis every year in the region. The disease kills 20,000 to 25,000 people in the region every year.

"Like in the case of measles, not many meningitis cases are seen in children younger than one year," said Dr. Suresh Jadhav, Executive Director of Serum Institute. "A mother, who has had meningitis, transmits the meningitis antibodies to newborns and these antibodies protect them for one year." Every individual living in the meningitis belt (which stretches from Senegal in the west to Ethiopia in the east) gets infected with meningitis before the age of 29 years and hence mothers invariably carry antibodies against the disease.

The WHO has approved the use of a 5 microgram dose of the vaccine for children, which will be administered when they are nine months old. Immunisation at nine



**SCHEDULE:** Unlike in those aged 1-29 years, two doses given to infants will protect them for life. — PHOTO: RODRIGUE BARRY/WHO

months will help achieve sustainable disease control following mass campaigns that target people belonging to the 1-29 age group.

Explaining the rationale for choosing to immunise at ninth month, Dr. Jadhav said: "It's one opportunity to treat both measles and meningitis," he said. Measles vaccination is also given to children at nine months of age.

A booster dose will be given when the child is 12-18 months old. According to Dr. Jadhav, the first meningitis dose will protect a child for five years and a booster dose will confer lifelong protection.

Though a single campaign has been carried out to cover a large population in 15 countries, those born after the campaign have not received the MenAfriVac vaccine and are hence vulnerable to meningitis infection. But with the

introduction of the vaccine as part of the immunisation schedule, these children will also be protected.

The campaign mode will continue till 2017 in 3-4 countries per year. The current demand for the vaccine is 50-55 million. Once the campaign comes to an end, the demand will be directly proportional to the number of children born in the meningitis-endemic countries. "Twenty-five million children are born each year in these endemic countries. So 50 million doses will be the demand per year [as two doses are to be given to each child]," he said.

## Serum's achievement

The Serum Institute had successfully made the vaccine heat stable so that it can remain outside the cold chain at temperatures less than 40 degree C for up to four days without the potency getting

affected. Before it was made heat stable, the vaccine had to be kept in a cold chain at 2-8 degree C at all time. The vaccine was made heat stable by freeze-drying it.

The Serum Institute successfully demonstrated that the stability and potency of the meningitis vaccine remained intact even when exposed to higher temperature. The heat stable nature of the vaccine proved to be a game changer in meningitis control and made it possible to cover a large number of people through the campaign mode.

"It's a great Indian success story," Dr. Jacob John, a former virologist of the Christian Medical College (CMC), Vellore had earlier told this Correspondent. A study published in the WHO bulletin showed that using a CTC approach can reduce the cold chain related campaign costs by 50 per cent.

The Hindu, January 15, 2015, P. 16



## Roadmap to improve tribal children's health

**PRESS TRUST OF INDIA**  
New Delhi, 12 Jan

Government will prepare a roadmap for improving access of tribal children to food, health and sanitation in view of high level of chronic under nutrition or stunting which contributes to one-third of under-five child deaths in India.

A national conclave, organized by Ministry of Tribal Affairs, government of Odisha and UNICEF, would be held to work out strategies for properly nourishing tribal children who suffer from chronic under-nutrition.

The conclave will be held at Bhubaneswar on 15 Jan and 16 Jan. The conclave will bring together frontline workers, practitioners, State and District officials from

**CONCERN FOR THE DEPRIVED**



■ A national conclave, organized by Ministry of Tribal Affairs, government of Odisha and UNICEF, would be held to work out strategies for properly nourishing tribal children who suffer from chronic under-nutrition. The conclave will be held at Bhubaneswar on 15 Jan and 16 Jan

Departments of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Women and Child Development, Health ministry, representatives from the Tribal Research Institutes of various States. "Together they will take stock of the nutrition situation of India's tribal children, discuss "what works and how" and how departments of various

states can coordinate, contribute and collaborate for reducing stunting in India's tribal children.

The conclave will chart a road map for these states for improving access to food, nutrition, health and sanitation services for children in tribal pockets and solidify all stakeholders' commitment toward nourishing India's tribal children," said a statement by Ministry of Tribal Affairs.

Also, there will be efforts to identify implementation challenges in the National Tribal Policy and ensure better utilisation of Tribal Sub Plan budgets.

The states are Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan and Telangana.

The Statesman, January 13, 2015, P. 10  
(Tribal Children's Health)

## Stroke, heart attack kill most: WHO

Non-communicable diseases claim 60% of lives in India

**NEW DELHI:** Around 60 per cent deaths in India are caused by non-communicable diseases (NCDs) like heart attack, stroke and cancer, says a new World Health Organisation (WHO) report that exposes the vulnerability of the South-East Asian Region, where NCDs are responsible for every two out of three deaths.

In absolute terms, this translates to the death of 98.16 lakh Indians every year due to NCDs, which were not



followed by respiratory illness. Deaths due to lung disorders and cancers are on the rise.

Increased use of tobacco and rising blood pressure are the two biggest risk factors for Indians, while obesity is on an upward trajectory.

Prevalence of overweight have gone up between 2010 and 2014 from 19.7 per cent to 22 per cent, measured in terms of body-mass index (BMI) of more than 25. For the obese—BMI more than 30—the number increased from 4 per cent in 2010 to 4.9 in 2014.

"Nearly half of deaths due to NCDs occur in the 30-70 year age group. A 30-year-old

person living in the WHO South-East Asian Region has a 25 per cent chance of dying from one of the four main NCDs before his or her 70th birthday. This probability is much less—15 per cent—for an individual in the Americas," said Poonam Khetrpal Singh, regional director for the South-East Asian Region, on the status report on NCDs.

Flagging the need to act immediately, the global NCD report warns that the worldwide toll from these diseases would mount to 5.2 crore by 2030 from 3.8 crore in 2012.

Recognising the risks, the United Nations had in 2011 come out with a set of nine voluntary targets for all countries to reduce the disease burden. For South East Asia, there was a 10th target—that of lowering indoor air pollution, which causes a large number of lung disorders.


In July 2014, when the United Nations General Assembly reviewed the progress in implementing the 2011 Political Declaration, it recognised that the advancement was too little.

The new report, therefore, again lays stress on implementing those targets, which included reduction in tobacco and alcohol use, increase in physical activity, reduction in salt intake and controlling of blood pressure.

**DH News Service**

Deccan Herald, January 20, 2015, P. 6





The Assam Tribune, January 18, 2015, P. 14  
(Polio)



Do not forget  
Vaccination is must

Govt. of Maharashtra

NATIONAL HEALTH MISSION, MAHARASHTRA  
NHM  
सुखी अस्वस्थ अस्वस्थता

**National Pulse Polio  
Immunization Campaign**

**18th January 2015**

**“POLIO  
SUNDAY”**

**Just two drops  
for life...**

On this day, do give polio dose to the children below 5 years of age.  
Even if it was given earlier.  
Even if it is a new born baby.  
Even if the child has minor illness.

Hon. Mr. Devendra Phadanvis  
Chief Minister  
Govt. of Maharashtra

Hon. Dr. Deepak Sawant  
Minister, Public Health and  
Family Welfare Dept., Maharashtra

Hon. Prof. Ram Shinde  
State Minister, Public Health Dept.  
Govt. of Maharashtra

Public Health Department, Maharashtra

Free Press Journal, January 18, 2015, P. 3  
(Immunisation Campaign- Pulse Polio)



# WHO team that took on polio in India joins fight against Ebola in Africa

*29-member Indian team training govt staff in Sierra Leone, Liberia*

PRITHA CHATTERJEE  
NEW DELHI, JANUARY 21

A TEAM of Indian medical workers, who played an important role in eradicating polio from hotspots such as UP, Bihar and West Bengal, has joined the fight against Ebola in Sierra Leone and Liberia.

The group of 29, selected from a pool of

1,500, were flown to Ebola's Ground Zero from New Delhi late last month by WHO with a top official of the global organisation saying they were picked for "their unparalleled surveillance and district operational level skills".

The WHO team of mainly epidemiologists has been deployed for a three-month mission and will help train government health workers in

the two countries to study and analyse how often the disease occurs in different groups and why.

According to health officials, tracing affected persons and their contacts, and monitoring active cases through a sustained surveillance system, is considered crucial to controlling any outbreak, apart from treating confirmed cases.

The latest outbreak of the deadly virus has claimed the lives

CONTINUED ON PAGE 2

**PAGE 1  
ANCHOR**

## WHO team that took on polio in India joins Ebola fight

of 8,626 people with 5,505 confirmed deaths in Liberia and 3,145 in Sierra Leone.

Pradeep Diwan, administrative officer of WHO's country office in India, told the Indian Express: "We received a request from officers in charge of Ebola from our headquarters in Geneva on December 20 to send surveillance medical officers who have worked on our polio project to Africa."

Diwan added that India's experience in eradicating polio was a key factor behind the request. "They felt that we could help support the governments in the two African countries because of our experience in supporting health systems here in eradicating polio, which was seen as a near-impossible task, and the experience we have gained in implementing the public health policy on polio in India."

In fact, the urgency of the request was such, Diwan said, that "we had to hurry through visas, and sanctions of our team from the polio-endemic areas of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and other states".

Dr Bruce Aylward, Assistant Director General, WHO, and the organisation's Ebola Response Lead, said in a statement that the Indian team "will add huge value at this critical point in the response, given their unparalleled surveillance and district operational level skills".

A senior official with the WHO's anti-polio drive in India said that "the lack of intensive surveillance and a tracking system of patients was one of the main reasons for the spread of the outbreak at this scale" in Liberia and Sierra Leone.

"Given this situation, the Indian experience with polio was found to have similar management patterns, and is considered the most recent internationally recognised experience at this scale," added the official who helped identify and delegate duties in the Indian contingent.

"Our doctors are working with health workers at the grassroots and training them through field trips to put together data of active cases and then trace their contacts," the

official said.

He added that lessons from the polio programme in India, including the role of grassroots-level health workers, and involving community and religious leaders, were also being shared.

According to another senior WHO official, the Indian team's role will be critical because the Ebola numbers have begun to dip and the collection of data will now be crucial in identifying high-risk areas and formulating policy decisions specific to them.

The Indian Express, January 22, 2015, P. 1 & 2  
(Ebola)



# हेल्थ तरक्की

## स्वच्छ रह कर करें 10 रोगों की सफाई



**सफाई**  
सही कमी कई तरह के रोगों का घर है। संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण घाजी, खाने की चीजों और गिद्दी तक पहुंचता है और फिर उचित निपटारा व सफाई न होने पर वह दूसरों को फैल जाता है। इसलिए खुद भी साफ रहें व अपने आसपास भी सफाई रखें।

- 1 एनीमिया, कुपोषण**  
**लक्षण:** पोषण में कमी, थकावट, मांसपेशियों में कमजोरी, सुस्ती, शारीरिक व मानसिक विकास में कमी आना आदि।  
**कारण:** दूधित भोजन व पानी के सेवन से नियमित डायरिया व पेट में कीड़े होने की समस्या होती है, जिससे शरीर की पोषण ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है।  
**इलाज:** कोई टीका नहीं। ओआरएस की सलाह।
- 2 एस्कारियासिस**  
**लक्षण:** कीड़ों की वजह से पेट में अधिक संक्रमण होने के कारण आंतों से मल बाहर आने की प्रक्रिया में बाधा आती है। मरोड़ होती है।  
**कारण:** मल व गंदे पानी का निपटारा सही न होना।  
**इलाज:** पीपीटी दवाएं।
- 3 कैपीलोबैक्टीरियोसिस**  
**लक्षण:** अधिक दस्त (कई बार रून व बलगम), मरोड़, बुखार, वककर व उल्टी।  
**कारण:** दूधित पानी पीना, अधपका मीट या संक्रमित कच्चा दूध पीना व बैक्टीरिया सी. कोली से संक्रमित चीजों का सेवन।  
**इलाज:** ओआरएस धरेपी, संक्रमण अधिक होने पर एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन।

- 4 हैजा**  
**लक्षण:** हैजाकारक जीवाणुओं के कारण दर्द रहित डायरिया, उबकाई और उल्टी होना।  
**कारण:** संक्रमित व्यक्ति के मल से दूधित खाद्य पदार्थ का सेवन।  
**इलाज:** ओआरएस धरेपी, इंजेक्शन के जरिए फ्लूइड चढ़ाना। एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत नहीं।
- 5 हेपेटाइटिस**  
**लक्षण:** हेपेटाइटिस ए और ई के कारण बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, उबकाई आना, पेट में गड़बड़ व पीलिया।  
**कारण:** दूधित पानी और भोजन का सेवन। हेपेटाइटिस ए संक्रमित सूई के जरिए भी दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है।  
**इलाज:** हेपेटाइटिस ए के उपचार के लिए दवाएं उपलब्ध हैं। उपचार मरीज के लक्षणों पर भी निर्भर करता है।
- 6 लोटोस्पायरोसिस**  
**लक्षण:** बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीलिया, उल्टी, डायरिया, त्वचा पर निशान, स्किन में रक्त स्राव होना, म्यूकस मेम्ब्रेन का पतला होना।  
**कारण:** दूधित पानी शरीर में पहुंचना। घाव व चोट के रास्ते संक्रमण फैलना।  
**इलाज:** एंटीबायोटिक दवाएं।
- 7 रिंगवर्म (गोलकृमि)**  
**लक्षण:** त्वचा, नाखून और पैरों में दाग व निशान पड़ना।  
**कारण:** संक्रमित व्यक्ति व पशु की वस्तुओं व खाद्य पदार्थों के सीधे संपर्क में रहना।  
**इलाज:** एंटी फंगल लोशन व एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल।
- 8 दाद**  
**लक्षण:** उंगली, बाजू, घुटने आदि में मुहासे जैसे लाल निशान होना, छत्ती व कंधों पर भी दाद निकलना।  
**कारण:** संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के सीधे संपर्क में आने और संक्रमित व्यक्ति के कपड़े पहनने से होता है।  
**इलाज:** एंटी फंगल लोशन व एंटी फंगल दवाएं।
- 9 ट्रेकोम**  
**लक्षण:** दृष्टि में धुंधलापन, दर्द व खारिशा होना।  
**कारण:** सौंदर्य व्यक्ति की आंख से निकलने वाले द्रव्य के सीधे संपर्क में आना या मक्खी के कारण संक्रमण फैलना।  
**इलाज:** एंटीबायोटिक (ट्रेटोसाइक्लिन ऑईटमेंट, एजिथोमाइसिन)।
- 10 टाइफाइड**  
**लक्षण:** बुखार होना, भूख में कमी, सिरदर्द, कब्ज, डायरिया, छाती के हिस्से पर निशान, लिवर का बढ़ना, छाती में निशान। इन लक्षणों के साथ किसी को तेज बुखार होता है तो किसी को कम।  
**कारण:** संक्रमित व्यक्ति के खाने व पीने की चीजों को खाना, नाली आदि के दूधित पानी से होने वाला संक्रमण।  
**इलाज:** टीका उपलब्ध है, पर पूरी तरह सुरक्षित नहीं। एंटीबायोटिक दवाएं भी दी जाती हैं।

Hindustan (H), January 23, 2015, P. 11



चिंताजनक

राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात आंध्रप्रदेश समेत कई प्रदेशों में कहर,

अब तक कई दर्जन जिंदगियां लील चुका

# सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच मुफ्त

**भारी बीमारी : दो और की मौत, मृतक संख्या 29 हुई, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ली बैठक, आइसोलेशन यूनिट व जांच केंद्रों की संख्या बढ़ेगी**

जयपुर

स्वाइन फ्लू का कहर जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। प्रदेश में बुधवार को दो और मरीजों की मौत के बाद इस साल अब-तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 नए पॉजीटिव मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी के ओपीडी मरीजों की निशुल्क स्वाइन फ्लू जांच की घोषणा की है। साथ ही अपनी मर्जी से जांच कराने वाले ओपीडी मरीजों को भी जांच राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। आइसोलेशन यूनिट और जांच केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बैठक में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि मेडिकल

कॉलेज अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 117 बेड हैं। इनमें से 59 आईसीयू बेड हैं।

**ये भी दिए निर्देश**

- निजी अस्पतालों में भी जांच केंद्र खोलने की संभावनाएं तलछें।
- केंद्र सरकार से आवश्यकतानुसार स्वाइन फ्लू जांच किट मंगवाए जाएं।
- बघाव और जागरूकता के लिए होर्डिंग।
- 104 निःशुल्क चिकित्स परामर्श से भी जानकारी।
- चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को उचित प्रशिक्षण।
- मुख्य राष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिला करणक्टरों को निर्देशित करें।

**स्वाइन का सितम**

- 29 मरीजों की मौत
- 17 की सरकारी अस्पतालों में
- 12 की निजी अस्पतालों में
- 383 नमूने लिए गए
- 113 पॉजीटिव मिले
- 21 जिले प्रभावित
- (जब्तरी में राज्य के आंकड़े)
- जांच का खर्च**
- 1000 रुपए (पहले)
- इन्डोर मरीजों, गर्भवती, वरिष्ठ नागरिक, और पांच साल तक के बच्चों के लिए स्वाइन फ्लू की जांच सरकारी अस्पतालों में पहले से ही मुफ्त।



**जयपुर-अजमेर में एक-एक मौत**

बुधवार के एसएमएस अस्पताल में सांगानेर निवासी विनोद (24) और अजमेर के जेएलएन अस्पताल में ब्यावर निवासी एक 38 वर्षीय महिला की मौत हो गई।

**स्टाफ के लिए स्वाइन फ्लू टीके**

एसएमएस अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. अजीत सिंह के अनुसार स्टाफ के लिए स्वाइन फ्लू टीकों की एक खप आ गई है। इच्छुक स्टाफ को ये टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे।

**स्क्रीनिंग पूरी नहीं**

पॉजीटिव पाए गए मरीजों के आस पास रहने वाले लोगों का आरोप है कि चिकित्सा विभाग की टीम उनके क्षेत्रों में नहीं आ रही है। जबकि राज्य सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पॉजीटिव पाए मरीज के आसपास के 50 घरों में स्क्रीनिंग जरूरी है।

**कांगो बुखार जांच केंद्र खुलेगा**

मुख्यमंत्री ने कीमियन कांगो हैमेटोजिक फीवर (सीसीएचएफ) के प्रदेश में चार मरीज पाए जाने पर धिंता जताई। मुख्यमंत्री ने इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत रिबेयरीन दवा उपलब्ध कराने एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर इनका एक जांच केंद्र राजस्थान में भी खोलने की मांग करने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पशुपालन विभाग के साथ मिलकर बीमारी की रोकथाम पर काम करने को कहा।

**केंद्रीय दल के साथ बैठक**

चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने राष्ट्रीय रोग निवारण केंद्र (एनसीडीसी) के अतिरिक्त विदेशक एवं उनके साथ आर चार सदस्यीय दल के साथ बैठक कर स्वाइन फ्लू और कांगो बुखार की समीक्षा की। केंद्रीय दल ने एसएमएस अस्पताल एवं ईएसआई अस्पताल का भी दौरा किया।

**तेलंगाना में चार लोगों की मौत**

तेलंगाना में मंगलवार को स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत के बाद राज्य में मृतकों की संख्या 26 हो गई। पॉजीटिव 54 नए मरीजों में से मेडिकल स्टाफ के लोग भी शामिल हैं। उधर, गुजरात में जब्तरी महीने में स्वाइन फ्लू से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के 170 मामले सामने आए हैं।

पढ़ें संबंधित खबरें @ पेज 10

Rajasthan Patrika (H), January 29, 2015, P. 1  
(Swine Flu)



## 2.3 Nutrition/Malnutrition/ Dietary Patterns (Malnourished Child/Malnutrition Chart of South Asia)

### महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों की दर में कमी नहीं

मुंबई, (रामकिशोर त्रिवेदी, विशेष संवाददाता): तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्ष के मुताबिक कुपोषित बालकों की संख्या 20 प्रतिशत पर स्थिर है जबकि आदिवासी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत के नीचे कमी नहीं आ रही है। बाल विकास सेवा योजना द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात चौंकाने वाली सामने आयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद सरकार इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ रही है। पिछले वर्ष के सर्वेक्षण के अनुसार ठाणे जिला के जवाहर, मुखाड़ा, अमरावती जिला के धारडी और चिखलदरा एवं नंदूरबार जिला के धड गांव और अक्कलकुआ के आदिवासी क्षेत्रों में मध्यम वजन के 38 प्रतिशत तीव्र कम वजन के 56 प्रतिशत बच्चे पाये गए हैं। इस वर्ष के सर्वेक्षण में यह स्थिति जस की तस बनी हुई है। ठाणे जिला के जवाहर में तीव्र कम वजन के 44 प्रतिशत बच्चे पाये गए हैं जबकि यही स्थिति मुखाड़ा और धरडी में पायी गयी है। राज्य की 85 तहसीलों में हुए सर्वे के अनुसार पांच वर्ष की उम्र के नौ लाख 15 हजार चार सौ सात बच्चों का वजन किया गया, जिसमें सात लाख 34 हजार बच्चे समान वजन के पाये गये हैं। जबकि कम और तीव्र कम वजन के एक लाख 81 हजार बच्चे पाये गए हैं।

#### योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में सरकार असफल

रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण को कम करने के लिए बाल विकास परियोजना के माध्यम से कुपोषित बच्चों का उपचार, पालन पोषण की व्यवस्था, दूध पिलाने वाली माताओं को योग्य मार्गदर्शन, दवाइयां सही मात्रा में देने की योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है।



Punjab Kesari (H), January 7, 2015, P. 2

## Snacks and pan masala: a child's diet in Rajasthan dt.

Aarti Dhar

**BARAN (RAJASTHAN):** In Baran district, child malnutrition is an everyday emergency as even toddlers are fed just the twin addictions of snacks and pan masala. Even if their parents can afford nutritious fare, many children get only junk food, as it is cheap and easily available, and the intoxicant, which induces sleep. The problem assumes the worst dimensions among the Sahariya tribe, which report very high malnutrition levels among its children. Every year, malnutrition deaths are reported during the monsoon despite the steps the government take. Last year, between September and November, 12 deaths were reported. Though the official cause of deaths may be some medical condition, the underlying reason is malnutrition, which makes the children vulnerable to infections and diseases. A report brought out by Action Against Hunger (ACF), a French non-governmental organisation, says despite interventions for the past three years, the situation remains grim with SAM (severe acute malnutrition) at 7.6 per cent and SCM (severe chronic malnutrition or stunting) at 14.9 per cent among children aged six to 59 months in the district. The National Family Health Survey-3 data show



*A malnourished child being screened at a Sahariya settlement in Kishanganj block of Baran district in Rajasthan. - PHOTO: AARTI DHAR*

SAM at 8.4 per cent among the Scheduled Tribes, 7 per cent among the Scheduled Castes and 5.2 per cent among the Other Backward Classes in Rajasthan. Sahariyas are among the particularly vulnerable tribes of the State. They prefer to live in isolated habitats and report high infant mortality, high fertility and low educational levels. "There is no dearth of food because they get enough of it from the government. The challenge is in creating awareness of eating the right kind of food and leading a hygienic life," District Collector Lalit Kumar Gupta told *The Hindu*. The government gives the Sahariyas, settled in Kishanganj and Shahbad blocks, free housing and other facilities too. But, every year, dozens of children lose their lives and hundreds are hospitalised. Parents and children crowd the malnutrition treatment centres. At the centre in the district hospital, where children from other centres too are referred, beds are in perennial shortage. "These are preventable deaths and hospitalisations. Unfortunately, the community is so isolated that they are not even aware of what is good or bad for children. Despite screening, treatment and monitoring, the children fall back into the SAM category once they are discharged from the centres," says Shivangi Kaushik, deputy programme manager, ACF.

The Hindu, January 19, 2015, P. 11  
(Malnourished Child)



# Malnutrition in younger years marker of disorders later

## DIET DIARY

**ISHI KHOSLA** is a former senior nutritionist at Escorts. She heads the Centre of Dietary Counselling and also runs a health food store. She feels that for complete well-being, one should integrate physical, mental and spiritual health. According to her: "To be healthy should be the ultimate goal for all."

**T**HERE is accumulating evidence to suggest a link between malnutrition early in the life cycle and risk of diabetes, obesity and other chronic degenerative diseases later in life.

Recent research has suggested that risk of obesity, diabetes, heart disease, hypertension and even cancer in adult life can originate as early in life as the womb. Sizes of baby at birth and childhood growth patterns are strong determinants of these diseases. Both low and high birth weight and rapid childhood growth are associated with adult diseases and related disorders.

Besides, birth weight and later weight gain, certain micro-nutrients, proteins, amino acids, vitamin B12,

follic acid even in the peri-conceptional stage can regulate metabolic characteristics and increase the risk of adult diseases later.


Post-natal nutrition including breastfeeding, protein intake in the first year of life, infant weight gain are also critical. Breastfeeding appears to have a protective effect.

A hypothesis originated by Barker in 1989 — called "Barker's Theory" — led to much research in this area. Now, there are a vast number of studies which have documented the relations between foetal and/or later risk of cardiovascular disease. The focus has shifted from simply lifestyle-related westernised diets to study the potential role of

pre-natal and early post-natal nutrition. This introduced the concept of the developmental origins of chronic diseases, and therefore, the interest in the early life period.

It may be easy to accept the importance of intra-uterine period if we realise that almost three-fourth of cell divisions are over before we are born, that is to say, a newborn is almost a miniature adult. A new theory called "developmental origins of health and disease" (DOHAD) evolved and is applicable to a number of modern day diseases such as diabetes, hypertension, coronary heart disease and cancer, among others.

In other words, damage suffered early in life leads to permanent im-



### KEY MESSAGES

**CHILDREN** who are undernourished in the first 2 years of life and put on weight rapidly later in childhood and adolescence are at high risk of chronic diseases related to nutrition.

**THE PREVENTION** of maternal and child nutrition is a long-term investment that will benefit the present generation and their children.

**The Indian Express, January 17, 2015, P. 17  
(Malnutrition)**



# India tops malnutrition chart of south Asia

TIMES NEWS NETWORK

**New Delhi:** Severe acute malnutrition should be recognized as a medical emergency, with one million children under five years of age dying in India due to malnutrition-related causes, say activists. A new study in Baran, Rajasthan, and Burhanpur in Madhya Pradesh has found that preventable deaths continue to hit children in the poorest areas of the country.

According to UNICEF, every year 1 million children under five die due to malnutrition related causes in India. The statistics are alarming and far above the emergency threshold for acute malnutrition (as per WHO classification).

ACF India and Fight Hunger Foundation on Tuesday announced the launch of the Generational Nutrition Program. Speaking about the program, ACF India deputy country director Rajiv Tandon said that there was an urgent need to recognize severe acute malnutrition as a medical emergency. He also stressed on the need for policies to tackle malnutrition and adequate budget for implementation.

The ACF report said that the number of children affected in India is higher than all south Asian countries.

"Within India, scheduled tribes (28%), scheduled castes (21%) and other backward

**GROWTH PROBLEM**

**1 million** children under 5 die due to malnutrition-related causes in India

► This is above the emergency threshold for 'acute malnutrition' as per WHO classification

**IN MP, ACCORDING TO NFHS 3** 40% of children are stunted, 60% underweight and 33% wasted

**IN RAJASTHAN, ACCORDING TO NFHS-3** 20% of kids under 5 are wasted, 24% stunted and 44% are underweight

**SC raps Haryana on female feticide cases**

Decreasing sex ratio is a threat to the human race and all steps must be taken to stem the tide, the Supreme Court on Tuesday said while directing Haryana to take effective steps to stop the malaise of female feticide. A bench of Justices Dipak Misra and A M Sapre directed the state to complete trials of cases for offences of sex determination and female feticide within four months and appoint specialized officers for the same. In Haryana, the sex ratio is at 874:1000, the worst in the country. The court also directed that those who handle investigation and prosecution of such cases be imparted training in judicial academy of Punjab & Haryana HC. **TNN**

castes (20%) and rural communities (21%) have a high burden of acute malnutrition," the report said.

In Madhya Pradesh, according to National Family Health Survey-3 (NFHS-3), 40% children were stunted — down from 49% in NFHS-2, 60% underweight — up from 54%, and 33% wasted — compared to the earlier figure of 20%. "The rise in these nutritional indicators is worrisome and it is essential that strategies for addressing it are adopted on a war footing," the report said.

Regarding Rajasthan, the report said that according to NFHS-3, 20% of children under five are wasted — an increase from 11.7% in NFHS-2, 24% are stunted as opposed to 52% earlier, and 44% underweight — down from 50.6% in the previous survey.

The Times of India, January 21, 2015, P. 12  
(Malnutrition Chart of South Asia)

## 'कुपोषण से निपटने के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए'

नई दिल्ली (एसएनबी)। देश में कुपोषण और भूख को मौजूदगी पर चिंता जताते हुए मंगलवार को एक सम्मेलन में सरकार से इस समस्या का हल करने के लिए अति सक्रिय कदम उठाने को कहा गया। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे विशेषज्ञों ने कहा कि इस समस्या के चलते हर साल हजारों बच्चों की जान चली जाती है।

भारत में सामान्य पोषण अभियान के तहत 'एक्यूट मालन्यूट्रीशन ऐन एवरीडे इमरजेंसी' शीर्षक वाले कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे देश में कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित हैं जिनमें ज्यादातर आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं। इस समस्या के चलते हर साल 10 लाख बच्चों की मौत होती है। महाराष्ट्र के सफल 'राजमाता जिजाउ मदर'... बाल स्वास्थ्य एवं पोषण मिशन की महानिदेशक वंदना कृष्ण ने बताया कि एक बहु-क्षेत्रीय कार्य योजना के जरिए बच्चों में कुपोषण घटाने में प्रगति हो रही है लेकिन आदिवासी इलाकों में यह समस्या अभी भी मौजूद है।

एसीएफ-इंडिया के उप निदेशक राजीव टंडन ने लाखों बच्चों की जान बचाने के लिए इस मुद्दे को मिशन के तौर पर लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे एक नयी दिशा दे सकते हैं। इस बीच, एक रिपोर्ट में पहले के कई अध्ययनों का हवाला देते हुए बताया गया कि भारत में अनुसूचित जनजाति 28 फीसद, अनुसूचित जनजाति 21 फीसद और अन्य पिछड़ा वर्ग 20 फीसद तथा ग्रामीण समुदाय 21 फीसद में घातक कुपोषण का अधिक जोखिम है। सम्मेलन में भाग लेने वालों को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भागत ने इस समस्या के हल के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि वह इस सम्मेलन के संदेश को ठीकतम स्तर पर पहुंचाएंगे।

**पांच साल से कम उम्र के बच्चे देश में कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित : विशेषज्ञ**

Rashtriya Sahara (H), January 21, 2015, P. 7



2.4 Women Health/Reproductive Health (Pregnancy/Breast Cancer/HIV/AIDS Awareness/Health Facility-Dibrugarh)

## स्तन कैंसर के इलाज का नया तरीका ग्लाइको थेरेपी

**मुंबई, प्रेटर :** ग्लाइको थेरेपी स्तन कैंसर के इलाज का नया तरीका है, यह कोशिकाओं का तेजी से निर्माण करती है। अमेरिकी के प्यूर्तो रिको विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर दीपक के बनर्जी ने यह बात 102वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में 'रिसेंट एडवांसेज इन कैंसर बायोलॉजी' व्याख्यान के दौरान कही। ग्लाइको थेरेपी की सबसे अच्छी बात इसका कम हानिकारक होना है। इस थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल पशुओं पर किया जा रहा है।

**बढ़ रही है इमोशनल ईटिंग**

भारतीयों खासकर शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में इमोशनल ईटिंग की आदत बढ़ रही है। रूइया कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री एंड फूड साइंस डिपार्टमेंट के हेड डॉ. ज्योति वोग ने यह बात विज्ञान कांग्रेस में एक व्याख्यान के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए खाने का अलग मतलब होता है। हम जब अकेलेपन का शिकार होते हैं या फिर किसी खुशी का सेलिब्रेट करना होता है, तो भोजन करते हैं। यह सिर्फ हमारी शारीरिक जरूरत नहीं है बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरत है।

**जान बचाने में मददगार टिश्यू इंजीनियरिंग**

भारतीय विज्ञान कांग्रेस में जुटे टिश्यू बैंकिंग और टिश्यू इंजीनियरिंग के प्रख्यात वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने बुधवार को इसके जीवन रक्षक अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान अमेरिका के वर्जीनिया बीच के इंस्टीट्यूट ऑफ रिजेनेरेटिव मेडिसिन के सीईओ एंड प्रेसीडेंट रोनी धामस ने भारतीय संदर्भ में टिश्यू डोनेशन की जरूरत बताई।



Dainik Jagran (H), January 8, 2015, P.14  
(Breast Cancer)

## Stress during pregnancy may affect baby's growth

**NEW YORK:** Stress hormones in the mother can affect foetal development, a new study says.

To test whether high stress levels in pregnant mice had an impact on their offspring, pregnant mice received the natural glucocorticoid corticosterone at different times during pregnancy.

Researchers found that increased levels of glucocorticoid stress hormones in pregnant mice caused the mother to eat more but reduced the ability of the placenta to transport glucose to her foetus.

"The findings show that maternal glucocorticoids regulate foetal nutrition. Higher glucocorticoid hormone levels in the mother can reduce glucose transport across the placenta and lead to a decrease in foetal weight," explained Owen Vaughan, lead author of the study.

Glucocorticoid levels in pregnant women may determine the specific combination of nutrients received by the foetus and influence the long-term metabolic health of their children as a result.

"This could have implications for women stressed during pregnancy or treated clinically with glucocorticoids, if the mechanisms are similar in humans," he added.

The research showed that under stress, certain genes in the placenta were modified.

One of the genes shown to be altered in the placenta by maternal stress hormones was *Redd1*.

This gene is believed to signal availability of other substances, like oxygen, and to interact with intracellular pathways regulating growth and nutrient uptake in other tissues of the body.

"Future studies may prove this molecule is important in the placenta, in linking environmental cues to the nutrition of the foetus," Vaughan concluded.

**Agencies**

Deccan Herald, January 27, 2015, P. 6  
(Pregnancy)



## 2.5 Health and Nutrition -other issues (Hygiene Lesson- Food Vendors/War on Drugs/ Sanitary Mates/Health Scheme)




The Assam Tribune, January 2, 2015, P. 1  
(Health Facility-Dibrugarh)



The Assam Tribune, January 4, 2015, P. 5  
(HIV/AIDS Awareness)





# Swachh Khana Sehat Ka Khajana

## Wash fruits and vegetables before eating them

Fruits and vegetables used for eating-cooking in everyday life may have Pesticide residues hidden on their surface, which are not visible from the naked eye. The toxic chemicals present in these pesticides may cause harm to your health.

### Ways and means to minimize pesticide residues from fruits and vegetables before eating-cooking

**General Methods :**

- Wash in clean running or drinking water and dry with a clean cloth or paper towel.
- Scrub carrots, potatoes, turnips, etc. with a soft brush or cloth towel for 5 to 10 seconds and rinse with slightly warm water.
- Discard outer layer of leafy vegetables like cabbage, etc. before washing.
- Peel fruits like mangoes, pears, kiwis, and vegetables like gourds, loofah, cucumber before chopping them.
- Vegetables and some fruits which are consumed along with peel should be soaked in water for ½ hour to 1 hour and rinsed thoroughly before use.
- Keep vegetables in boiling water just for a minute and rinse in running water thereafter.


**Specialized Methods :**

- Soak fruits and vegetables for 5 to 10 minutes in water diluted with vinegar followed by thorough rinsing.
- Wash vegetables like cauliflower, spinach, broccoli, cabbage, etc. with hot water containing 2 per cent common salt.
- Wash vegetables like carrot, brinjal, etc. with 1 per cent tamarind solution.
- Dipping in ozonated water helps in reduction of pesticide residues.
- Prepare any one of the following solutions and spray on fruits and vegetables, leave it for 5 to 10 minutes and then wash well with fresh water.
  - i.) 1 Tbsp. lemon juice, 2 Tbsp. baking soda, 1 cup of water
  - ii.) 1 Tbsp. lemon juice, 2 Tbsp. white vinegar, 1 cup of water
  - iii.) 1/4th cup vinegar, 2 Tbsp. salt
- Soak vegetables and fruits for 30 minutes in a large bowl of water and any one of above solutions then wash in fresh water.
- For particularly waxy fruits and vegetables spray a mixture of 1 cup water, ½ a cup vinegar, 1 Tbsp. baking soda and a dash of grapefruit seed extract and leave for an hour, rinse them, then consume them.


**Make It a Habit**




**Wash fruits-vegetables before use**



**Mail your Complaints at**  
[www.foodsafety.delhigovt.nic.in](http://www.foodsafety.delhigovt.nic.in)



Issued in Public Interest  
**DEPARTMENT OF FOOD SAFETY**  
Govt. of NCT of Delhi  
8<sup>th</sup> Floor, Mayur Bhawan, Connaught Place, New Delhi - 110001



**Toll Free No.**  
**1800 11 3921**

As per the Food Safety and Standard Act, Registration/Licensing is mandatory for every Food Business Operator. For details visit the website [www.foodlicensing.fssai.gov.in](http://www.foodlicensing.fssai.gov.in)

The Times of India, January 4, 2015, P. 4



# Hygiene lessons for food vendors

## Many Claim NASVI Workshop Helped Them Brush Up Their Skills And Increase Profits

Anupama Yadav & Taniya Tikoo | TNN

New Delhi: With an aim to train street food vendors on cleanliness and hygiene, the National Association of Street Vendors of India (NASVI) recently organized a workshop in the city. Their training also included various aspects of food preservation techniques.

"We were already aware of the cleanliness aspect, but NASVI taught us how to present any food in the right way," said Shyam Sundar, one of the street food vendors. NASVI also distributed I-cards among the registered street food vendors. The workshop was part of the National Street Food Festival that concluded on December 28.

When asked what they benefitted from this workshop, the vendors said it helped them increase their profits. "Now, when customers see us wearing gloves and aprons, they believe we serve better quality food than others," said Satish, owner of Satish Snacks in Sarojini Nagar.

Gulab Singh, a bhelpuri vendor at India Gate, said though he had gone to Singapore to train the staff of a hotel on bhelpuri making, he was unaware about the tricks of the trades till NASVI taught him.

The vendors who are registered with the organization will receive a certificate. They will receive licences once they are found conforming to the cleanliness norm laid down by the civic body. Then they will be allowed to put up their stalls at various places in the city.

Meanwhile, "Street Saathi", a food book, was launched during the festival, which features

### SIMPLY IRRESISTIBLE

**A collage of veg and non-veg fare that best reflects the diverse culinary culture of India**

**Makke Ki Khees:** It's a dish eaten in Malwa and Marwar regions and made from coarsely ground or grated corn paste, which is sautéed with mustard, cumin, asafoetida, ginger and green chillies. After this milk is added and boiled till the paste thickens. Salt and coriander leaves are added before serving



**Taash Kebab:** While most of the Indian non-veg fare has Central Asian or Afghan ancestry, Taash Kebab has Iranian lineage. It's made from half-cooked mutton/chicken pieces which are marinated with lemon juice and ginger garlic paste and then cooked slowly with tomatoes, onion, ginger, chillies and powdered spices. Can be eaten as a snack or served as part of the main course

Source: 'Street Sathi' by Arbind Singh & Sangeeta Singh

all the vendors trained by NASVI. It contains pictures and recipes of various food items. The best part of the book is that it not only tells people about various street food and their preparations, but also sheds light on the lives of the vendors.

Arbind Singh, one of the

**Jhinga Pakoda:** It's a West Bengal speciality. Prawns are cleaned, shells removed and then soaked in salt water for about 15 minutes after which they are patted dry. These pieces are then dipped in a batter of maida (refined wheat flour) and deep-fried and served with mustard chutney



**Kari dosa:** It's a non-vegetarian dish identified with the temple town of Madurai in Tamil Nadu. This dosa is filled with minced mutton cooked in Chettinad style and then mixed with a beaten egg. It is flipped over like an Uttapam and cooked slowly and served with coconut chutney

**Lahsun ki Kheer:** Lahsun is best identified with paste for gravies, chutneys and pickles and can't be imagined as the main ingredient in the milk-based dessert. It is no less than a magician's job to get the natural bitter out and have sweetness enter the veins of garlic pearls



**Dabeli:** A close relative of Vada Pav, it entered the metropolis from Mandvi town in Kutch. A pav is heated on a pan and then filled with boiled potato, masala and a combination of chutneys

**Mawa Kachoris:**



These are the speciality of Rajasthan, especially Marwar. They are somewhat similar to Gujia of UP and Chandrakala of Bihar. Mawa and dry fruits are stuffed into a kneaded wheat flour cover and then deep fried as kachoris, which are subsequently dipped into sugar syrup. Served after garnishing with dry fruits, especially pistachio

authors of the book, said, "I found out that people are really interested in knowing the recipes of the various food items. This book will of great help for them."

Besides the book, an android app with the same name was also launched during the festival. The 'Street Sathi' app

will help foodies locate nearby food joints. It will also help the vendors in terms of establishing their business and earning better revenues.

NASVI plans to train almost 10,000 vendors this year so that they are able to participate in various national and international food festivals.

The Times of India, January 4, 2015, P. 4  
(Hygiene Lesson- Food Vendors)



**PUNJAB**  
**FIGHTS THE NATION'S**  
**WAR ON DRUGS**

**PUNJAB HAS ALWAYS FOUGHT**  
**THE NATION'S BATTLES**

- The External Aggressions
- The Freedom Struggle
- The Militancy
- And now, the War against Drugs

**Some vested interests are**  
**falsely branding the Food Bowl**  
**of India as the Drug Bowl of India**

**MAJOR STATES - FIRs REGISTERED UNDER**  
**NDPS ACT & CONVICTION RATE Shows**  
 that **Punjab is No. 1** in the  
**Fight against Drugs in YEAR-2013**

| Sr. No. | States           | No. of FIRs Registered | Conviction Rate Major States % |
|---------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1       | <b>PUNJAB</b>    | <b>14654</b>           | <b>80.50</b>                   |
| 2.      | Uttar Pradesh    | 6039                   | 73.20                          |
| 3.      | Maharashtra      | 2714                   | 64.40                          |
| 4.      | Tamil Nadu       | 1511                   | 65.00                          |
| 5.      | Haryana          | 1129                   | 58.40                          |
| 6.      | West Bengal      | 981                    | 11.80                          |
| 7.      | Rajasthan        | 943                    | 66.90                          |
| 8.      | Kerala           | 974                    | 78.30                          |
| 9.      | Madhya Pradesh   | 756                    | 56.10                          |
| 10.     | Andhra Pradesh   | 553                    | 18.80                          |
| 11.     | Himachal Pradesh | 531                    | 25.60                          |
| 12.     | Chhattisgarh     | 432                    | 41.60                          |
| 13.     | Jammu & Kashmir  | 390                    | 4.70                           |
| 14.     | Odisha           | 364                    | 23.10                          |
| 15.     | Bihar            | 354                    | 44.90                          |
| 16.     | Karnataka        | 290                    | 15.00                          |
| 17.     | Goa              | 50                     | 54.50                          |
| 18.     | Gujarat          | 47                     | 18.40                          |

**Drugs would have reached every corner**  
**of the Country had we not nabbed & controlled**  
**the activities of the Drug Mafia**

Issued by: 

The Times of India, January 5, 2015, P. 21  
 (War on Drugs)



राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत खुलासा | लड़कियों में खून की कमी,

बालकों की आंखें और दांत कमजोर

## भरपेट आहार और पोषाहार फिर भी बच्चे बीमार!

डीके सिमोदिया @ शाहपुरा

jalpur@patrika.com

स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता काफी कमजोर है। कई बच्चे तो कुपोषण के शिकार हैं तो कई लड़कियों में एनीमिया पाया गया है। केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शाहपुरा ब्लॉक में किए गए अध्ययन में 15 फीसदी स्कूली बच्चे बीमार पाए गए। यह अध्ययन 0 से 18 वर्ष के बच्चों पर किया गया। जांच में किशोरों के पेट व दांतों में कीड़े की समस्या पाई गई तो किशोरियों के शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया से पीड़ित होना सामने आया है।

गौरतलब है कि शाहपुरा ब्लॉक क्षेत्र के राजवास, नायन, धवली, करीरी, हनुतपुरा, बिलान्दरपुर और मनोहरपुर के स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच में यह खुलासा हुआ है। करीब 700 बच्चों को सामुदायिक और जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि घर में माता-पिता और स्कूल तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में सरकार की ओर से दिए जाने वाले पोषाहार के बावजूद बच्चों का कमजोर होना चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि अध्ययन पूरा होने के बाद कमजोर बच्चों के आंकड़े और बढ़ सकते हैं।

### आयरन की कमी है मुख्य कारण

एनीमिया का मुख्य कारण आयरन और विटामिन-डी की कमी है। संतुलित आहार नहीं मिल पाने के कारण शरीर में विटामिन-डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा पेट में कीड़े भी आयरन तत्व को खा जाते हैं। भोजन में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर बालक तो इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं।

### कैसे तंदुरुस्त होंगे बच्चे

जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे भावी पीढ़ी तंदुरुस्त कैसे



### स्वास्थ्य की समस्याएं अनेक

एनीमिया के कारण शरीर में रेड ब्लड सेल्स (लाल रक्त कणिकाएं) की कमी हो जाती है, जो हृदय तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते थकान महसूस होती है। ऐसे में सिरदर्द, खड़े होने पर चक्कर आना, हाथ पैर ठंडे रहना, मसूड़ों और घासूनों में पीलापन आम लक्षण है। गर्भस्था और प्रसव के दौरान एनीमिया मौत का कारण भी बन सकता है।

होगी इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि आजकल की किशोरियों जैसी फिगर के साथ-साथ कम वजन दिखने के लिए संतुलित आहार तो छोड़ ही दीजिए भरपेट खाना भी नहीं खा रही हैं। ऐसे में शारीरिक विकास रुकने के अलावा कई समस्याएं भी पैदा होती हैं। एनीमिया को दूर करने

स्वास्थ्य कार्यक्रम में करीब 4,000 से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। इनमें से अधिकतर में दांतों व पेट में कीड़े, एनीमिया और नेत्र ज्योति कमजोर होने की समस्या सामने आई है। रिपोर्ट जयपुर भेज दी गई है।

डॉ. सत्यनारायण गुप्ता, अरुण चिकित्सक, वनक

शहरों की तरह ग्रामीण परिवेश के बालक भी संतुलित आहार से दूरी बना रहे हैं। पोषाहार में गुणवत्ता पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। बालिका स्कूलों में आयरन गोली वितरण कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी।

### फैक्ट फाइल

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जुलाई से अब तक शाहपुरा ब्लॉक की 225 में से करीब 100 स्कूलों और 102 आंगनवाड़ी केन्द्रों में जांच की जा चुकी है। आंगनवाड़ी के नन्हें मुन्नों के पेट व दांत में कीड़े की मुख्य समस्या सामने आई है। इसी तरह स्कूली बालकों के दांतों में कीड़े, खून की कमी और नेत्र ज्योति कमजोर होने की तथ्याधिक शिकायतें आई हैं। इनके अलावा काल में मवाद और हाथ-पैरों में दर्द की समस्या भी आई है। कुछ नंद बुद्धि बालक भी चिन्हित हुए हैं।

डॉ. हंटराज भयलिया, सेरीरमयजो, बहपुरा

के लिए संतुलित आहार में खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां, फल व दूध के साथ-साथ आयरन की गोतियां जरूर खानी चाहिए।

### यह है कारण

चिकित्सकों के अनुसार बरा व कुल्ला नहीं करने, हाथ नहीं धोने, समय पर भोजन नहीं करने, शुद्ध व पौष्टिक भोजन का अभाव, दूध नहीं पीना और हरी सब्जियों का उपयोग नहीं करना एनीमिया और पेट व दांतों में कीड़े होने का मुख्य कारण है।



# Longing for home, and a clean toilet

Scarce toilets, no soap or sanitary napkins...For women living in relief camps in Assam, the problems didn't end with the violence

Priyanka Borpujari

**B**havni Soren believes there is at least one advantage to not having enough blankets to keep her warm at night. Cold, she awakens before daybreak, and is able to go to the nearby stream to relieve herself with other women. "At home, we had the luxury of waking up a little late in winter and going to the toilet within our own compound. But that is not the case here," says Soren.

Currently living in a relief camp in Lalachor village, Soren is originally from Khoksa-guri village a few kilometres away. She is one of the thousands of women living in relief camps across Kokrajhar and Sonitpur districts in Assam, after the gruesome attack by the armed Songbijit faction of the National Democratic Front of Bodoland (NDFB). As of January 1, nearly 2.5 lakh displaced people were living in 118 relief camps across four districts of Kokrajhar, Chirang, Sonitpur and Udalguri. While many have since returned home, others continue living in camps, fearing more attacks if they return.

Soren is a Santhal, one of the adivasi groups targeted by militants on December 23. Ethnicity matters little for women and girls in relief camps, which also house Bodo families. But gender does. Hopni Mardi, a student of Jamduar College in Gosagaon, Kokrajhar district, says, "Most officials from the government and NGOs who have visited our camps so far have been male. And they only speak to the men. No-



**NO VOICE:** Women in relief camps say they are not able to freely discuss their sanitation issues with government and NGO officials as most of them are male

body asks us if we have any troubles we might be facing as women, and our own men would silence us if we tried to speak up," she says. Former IAS officer and activist Harsh Mander, who visited relief camps in Sonitpur after the December attack, agrees that women are worst affected. "Women are hardly asked about their specific needs, and I have seen this across all the relief camps built to accommodate people after any large scale tragedy."

Women have several concerns, primary among them is camp sanitation. There are just about four toilets for each relief camp though the num-

bers living there would easily go beyond 500. And so as Soren points out, for women, morning ablutions require systematic planning. But with few of them having watches, let alone alarms, it's difficult to wake up before daybreak. Sarala Hasda, for one, relies on her baby waking up to be fed, and that's when she knows it is time. When any of the women are unable to relieve themselves at daybreak, it means a lot of planning for the rest of the day. "We have to wait for a very long time before the boys loitering nearby get the cue that we want them to leave. It is not easy to find a spot to sit

down without being visible," says another woman.

While those in camps have been provided with ration, the women complain that no soap is provided. "We rub our hands in the soil after we have relieved ourselves. But we worry about keeping the children clean," says Hasda.

The situation is worse for women who are menstruating. Mardi explains how though she used sanitary napkins at home, she isn't able to use any now since the market near the relief camp is mostly shut. "Besides, there are other important things to be purchased, like food," she says, adding the women have no option but to cut up clothes to use as pads. The soiled cloth is washed for reuse, and often hung in a corner inside the tent where due to the absence of sunlight, it remains damp even as it is used again.

Mothers of toddlers worry about their children's nutrition. Only some camps confirm receiving food supplements for children, as per the integrated child development scheme (ICDS). Mardi, who could not appear for her exams which were scheduled when the violence broke out, hopes to use her spare time in a fruitful way while living in the camp. "Maybe I will make a list of the needs of the women here, and when officials arrive, I can submit it to them," she hoped. Until the next big car with relief materials come in, getting their hands on basic necessities will continue to be a struggle for the women living in the camps.

The Times of India, January 18, 2015, P. 13

# 'Sanitary Mates' to help in Swachchh mission

ARCHANA JYOTI ■ NEW DELHI

**L**ike ASHA workers who have been playing a key role in strengthening the health services in rural areas, here comes 'Sanitary Mates'— MNREGA women workers — who are all set to become a major component in the Modi Government's Swachchh Bharat mission in the villages to help make the country open defecation-free by 2019.

Sanitary Mates (SMs) will be handpicked by the gram panchayats from women MNREGA workers and their job will be to help identify households without toilets, coordinate with the MGNREGA functionaries for sanction of the

work, assist the selected households in engaging masons, supervise construction as per the specifications.

However, they have to be literate, active and worked the highest number of days under the rural job scheme to qualify as the Sanitary Mates, said a senior official from the Ministry, adding that a letter has been written to all the State Governments in this regard.

Their role will be different from Swachchhta doot who are volunteers and spread awareness about sanitation in the villages.

Each SM shall be considered as a semi-skilled worker and shall be paid for the days of work as any

other mate in MGNREGA. They will be trained in various methods of sanitation and in mobilisation.

The SMs shall identify the households, through a house-to-house survey and after detailed discussion with the household will push for construction of toilets under the MNREGA.

The Ministry hopes that the SMs will help push its plans to provide Individual House Hold Latrines (IHHLs) to about 6 Crore rural households in the next 5 years under the Swachchh Bharat Mission (Gramin).

Post delinking of MNREGA from the Nirmal Bharat Abhiyan,

the entire cost for the construction of the IHHL ie ₹12,000 will be exclusively through the rural job scheme.

As per the last year estimate there are about 31,359 gram panchayats in the country with a possible 36,01,672 IHHLs which have potential to take up works with higher material component as per the MNREGA rules. The selection of these GPs will be made at the district level by the district collector to avoid any overlap with works taken up under NBA.

No work for renovation of old toilets is possible under this initiative. Although GP is the implementing agency, the work would be done by the beneficiary household, the official added.



The Pioneer, January 23, 2015, P. 5

(Sanitary Mates)



## Health schemes for APL families, govt staff launched

**BENGALURU, DHNS:** The State government on Tuesday launched Rajiv Arogya Bhagya scheme which will provide affordable health care to those falling under the Above Poverty Line category.

Simultaneously, it also rolled out Jyothi Sanjeevini, a health scheme for government employees.

Launching the schemes at the Vidhana Soudha, Chief Minister Siddaramaiah said that with this, Karnataka would become the first state in the country to achieve universal health coverage. "There are about 100 hospitals empanelled under the Rajiv Arogya Bhagya and 120 under Jyothi Sanjeevini," he said.

"Each year, over Rs 100 crore is spent from the Chief Minister's Relief Fund for people with health problems. It is mostly those who have to undergo dialysis and heart-related problems," he said.

Senior citizens approached Siddaramaiah during the event and requested him that they also be covered under the Jyothi Sanjeevini scheme. Siddaramaiah said he would discuss the possibility with the health minister. "We will try and assess the possibility of including retired government

employees also under the Jyothi Sanjeevini scheme," he said.

Minister for Health and Family Welfare U T Khader said the government was contemplating having a separate health scheme for journalists. "It is a long-standing demand from pensioners that they be covered under some health scheme. We will look into it," he said.

Jyothi Sanjeevini scheme aims at providing tertiary health care for catastrophic illnesses among government employees. Unlike the earlier facility, this would not involve cash transactions. Government employees, their spouse, children and parents (if they reside with the employee and their monthly income does not exceed Rs 6,000 a month) will be covered under the scheme. Also, the scheme works on an assurance mode and the entire cost would be borne by the Department of Personnel and Administrative Reforms.

The Rajiv Arogya Bhagya scheme will also be implemented with the help of Suvarna Arogya Suraksha Trust. Beneficiaries will have to bear just 30 per cent of the treatment cost, while the State would bear the rest.

## WB NGO shows the way in helping HIV+ kids

Sumati.Yengkhom@timesgroup.com

**Kolkata:** Mahesh Pramanik (name changed) was all of 12 when Anandaghar, the only home for HIV positive children in West Bengal, took him in. The boy from Midnapore was abandoned by his family after his parents succumbed to AIDS.

Today Mahesh is 18. As Mahesh and some other inmates of Anandaghar, run by Organisation for Friends, Energies & Resources (OFFER), step into adulthood, they aspire to stand on their own feet. They hope vocational and skill development training that OFFER has been giving along with formal education could help them earn a living.

"We fought the resistance in admitting them in schools because of their 'HIV positive' status. In addition, we have also been providing vocational training to older children so that this would help them in future. Our aim is to place them in suitable jobs once they are ready," says Kallol Ghosh, founder secretary of OFFER.

Since 2004, Anandaghar has been taking care of 'HIV positive' orphans, unwanted even by their own families. Currently there are 70 such children at the home that provides, apart from food and shelter, education along with clinical care for HIV. But the organization is now starting a bigger task—rehabilitating the children who are 18 years and above by getting them placement—in a rare initiative to get such children back in mainstream.

Bajoria Charitable Foundation (BCF) that has been supporting OFFER is also keen on this rehabilitation project. BCF founder Namit Bajoria, who runs a kitch-

en appliances chain Kutchina, intends to identify skills in these children and improve them before placing them in jobs.

"To begin with, we can place some of them in back office or in outlets in the city. As and when they learn the job they could be given bigger responsibility. The aim is not only financial assistance, but to make these children part of the mainstream society," says Namit Bajoria.

At OFFER these children are being trained at skills like computer operation, bakery and house-keeping etc. OFFER has started approaching corporate houses and other organisations to tie up for the rehabilitation project. But apart from Kutchina and a handful of MNCs, the response has not been very encouraging.

The prospect of earning bread and butter on their own is already a reason for excitement for the likes of Pratik Sarkar. The boy who was rescued from Cooch Behar after being driven out of home five years ago, wishes to join a driving school once he completes 18 years in a few months to earn his living as a driver. There are 17 other children who are nearing 18 years of age and are looking forward to land suitable jobs.

"I have my limitations to provide jobs to all of them. But I want to make a beginning so that this will evoke response from like-minded people and organisations," says Bajoria. Even after these children start earning, OFFER will continue to monitor them, especially their medical care. Most of them are on ART (antiretroviral) drugs and need to maintain a reasonably good CD count to fight the virus.

(Names of the HIV positive children have been changed to protect their identities)



Bajoria couple with a HIV positive kid

Deccan Herald, January 21, 2015, P. 5  
(Health Scheme)

The Times of India, January 29, 2015, P. 12



### 3. Women/Gender issues

#### 3.1 Women Empowerment (Women Reservation-Delhi Police/Training Camp- Self Defence /Domestic Worker/Self Defence-Acid Attack/Nari Shakti/She Texi)

## महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में जुटी है 'चौपाल'

**सुधीर कुमार, पूर्वी दिल्ली**

मानसरोवर पार्क के लाल बाग झुग्गी निवासी जुबैदा खातून आज छोले-भदूरे की रेहड़ी लगाती हैं और पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। आज से दो वर्ष पहले वे सुखीरों के चंगुल में फंसी थीं। जितनी कमाई होती थी उसका अधिकांश हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जाता था, लेकिन आज वे इनसे मुक्त हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं।

इसी तरह आज़ादपुर झुग्गी बस्ती निवासी लक्ष्मी भी अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने ब्याज पर रुपये लेकर घर में छोटी सी दुकान शुरू कर ली, लेकिन कमाई का अधिकांश हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता था। आज वे ब्याजमुक्त होकर अपनी छोटी दुकान चला रही हैं।

मुंडका निवासी आरती का व्यवसाय आज खूब फल-फूल रहा है। वे मिट्टी व पुराने कपड़ों से खिलौने बनाती हैं, लेकिन कभी ऐसा भी वक्त था जब वे हताश हो गई थीं। दरअसल, इन तीनों ही महिलाओं को चौपाल नामक संस्था से बहुत ही कम ब्याज राशि पर और मासिक किरत पर लोन मिला। एक तो इन पर ब्याज का बोझ नहीं पड़ा और दूसरे इन्होंने मेहनत कर अपना मुकाम हासिल किया।

राजधानी में तीन महिलाएं ही नहीं हैं,

- ◆ चौपाल नामक संस्था से मिली नौ हजार महिलाओं को मदद
- ◆ बिना किसी गारंटी के महिलाओं को लोन देती है संस्था

बल्कि इनकी तरह नौ हजार महिलाओं को चौपाल नामक संस्था से मदद मिली और आज वे सुखीरों के चंगुल से मुक्त होकर अपना रोजगार कर रही हैं। रोहतास नगर के पूर्व विधायक जितेंद्र महाजन और समाज सेवी भोलानाथ विज ने चार वर्ष पहले महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए चौपाल नामक संस्था शुरू की थी। आज इस संस्था के माध्यम से चार वर्ष में नौ हजार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लोन दिया जा चुका है। इस कार्य को पूरा करने के लिए जहां 14 लोगों का स्टाफ रखा गया है, वहीं 40 से ज्यादा समाजसेवी निशुल्क सेवाएं देते हैं। इन समाजसेवियों में चिकित्सक, वकील व आर्टि प्रोफेशनल सहित विभिन्न पेशे से जुड़े लोग शामिल हैं। इस संस्था को बिना लाभ के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। महाजन बताते हैं कि कई महिलाएं रोजगार शुरू कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन उन्हें किसी बैंक से लोन नहीं दिया जाता। उनके लिए कोई गारंटी देने को तैयार नहीं होता है। चौपाल संस्था के यमुनापार के संयोजक मनोज गुप्ता बताते हैं कि संस्था



**कार्यक्रम को संबोधित करते पूर्व विधायक जितेंद्र महाजन।**

लोन देने के लिए किसी की गारंटी तो नहीं लेती है, लेकिन इसके लिए पूरा सर्वे किया जाता है। लोन लेनेकी इच्छुक महिलाएं उनकी संस्था से संपर्क करती हैं। उनके निवास का प्रमाणपत्र लेने के बाद उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है। वे बताते हैं कि संस्था की ओर से 10 हजार रुपये का लोन दिया जाता है। इसके एवज में उनसे 11 हजार रुपये एक साल में लिए जाते हैं। 11 हजार रुपये को 12 आसान किश्तों में बांट दिया जाता है। अगर किसी को किसी माह किश्त देने में दिक्कत होती है तो उन पर दबाव नहीं बनाया जाता है, बल्कि उन्हें रोजगार को बढ़ाने के लिए टिप्स देकर प्रेरित किया जाता है। मनोज बताते हैं कि अब तक जितनी महिलाओं ने लोन लिया उनमें से तीन को छोड़कर सभी ने लोन राशि व ब्याज लौटा दिया। तीन महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, जिससे उनके परिवार से लोन राशि नहीं ली गई। इसके अलावा जितनी भी महिलाओं ने लोन लिया वे स्वावलंबी हो चुकी हैं।



**चौपाल संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को अग्रण देते अरुण जेटली व अन्य।**

Dainik Jagran (H), January 1, 2015, P. 9  
(Women Empowerment)





Hindustan (H), January 2, 2015, P. 6  
(Women Reservation-Delhi Police)



Punjab Kesari (H), January 3, 2015, P. 8  
(Training Camp- Self Defence)



## महिला सामाजिक उद्यमियों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाएगा केरल

तिरुवनंतपुरम, 4 जनवरी (भाषा)। समुदाय आधारित गरीबी घटाओ परियोजना कुटुंबश्री और शी-टेक्सी जैसे महिला सशक्तीकरण के अपने प्रयासों की सफलता के बाद केरल देश में महिला सामाजिक उद्यमिता का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार कर एक और मिसाल कायम करने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री ओमान चांडी यहां 12 जनवरी को 'संदेश वन' नामक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। संदेश वन 1000 से ज्यादा महिलाओं का नेटवर्क होगा, जो जमीनी स्तर के विभिन्न लघु उद्योगों को प्रोत्साहित कर व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन करेगा। पूरी तरह उद्यमियों की ओर से संचालित इस उपक्रम को सामाजिक न्याय विभाग के तहत आने वाले केरल राज्य महिला विकास निगम (केएसडब्ल्यूडीसी) ने शुरू किया है। केएसडब्ल्यूडीसी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस प्रयास का मूल उद्देश्य सशक्त महिलाओं के नेटवर्क के जरिए जमीनी स्तर से होने वाले सामाजिक तौर पर प्रासंगिक विकास प्रयासों को

प्रोत्साहित करना और उन्हें क्रियान्वित करना है।

केएसडब्ल्यूडीसी के प्रबंध निदेशक पीटीएम सुनीश ने बताया कि दुनिया में सामाजिक उपक्रम का एक आंदोलन हो रहा है। पारंपरिक उद्योगों के विपरीत सामाजिक उपक्रम सामाजिक चुनौतियों के खिलाफ हल विकसित करने से संबंधित है। संदेश वन कार्यक्रम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत गांव की पंचायतों से 1000 से ज्यादा महिलाएं चुनी जाएंगी। उन्हें आइआइएम अमदाबाद और देश की एक बड़ी कौशल विकास कंपनी आइएलएंडएफएस के संरक्षण में छह महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उ

द्यमिता के कौशल और ज्ञान प्रबंधन में प्रशिक्षित होने के बाद ये उद्यमी राज्य की सभी पंचायतों में 'संदेश वन सेंटर' खोलेंगे।

Jansatta (H), January 5, 2015, P. 10

## Most domestic workers in City are women

**They earn a paltry Rs 4,400 a month, finds study**

**BENGALURU: A majority of the domestic workers in Bengaluru are women who get an average wage of Rs 4,400 a month, despite most of them working in more than one household.**

This is one of the findings of a study, 'Sample Survey of Domestic Workers in Bengaluru City', conducted by researchers at the Sri Alampalli Venketaraman Chair on Labour Research, Bangalore University, which was released by Governor Vajubhai Rudabhai Vala here on Friday.

A sample size of around 1,000 domestic workers was taken from Bangalore North, South, West and East, based on which researchers carried out the study. "Only 10 per cent of domestic workers form organised labour. About 65 per cent do not get even their basic

minimum wages, nor do they get respectable treatment. There has been a rapid increase in the population of domestic workers in the City. However, there has been no increase in their living standards at all," said Dr Y Narayana Chetty, Director, Chair on Labour Research, Bangalore University.

Around 99.8 per cent of the domestic workers are women and the rest men. Of the 1,000 domestic workers, as many as 405 said they earned between Rs 2,000 and Rs 2,999 a month. The second highest wage, according to the study, was between Rs 3,000 and Rs 3,999, earned by 290 workers. Another 139 workers earned Rs 1,000 to Rs 1,999 per month. There were 10 workers who earned as low as Rs 999. Around 145 workers earned between Rs 4,000 to Rs 9,999, with only 11 domestic workers earning wages of Rs 10,000 and above.

Only 190 workers of the 1,000 worked in single households, while a majority worked in more than two households.

As many as 407 workers worked in three households and another 342 in two households. Another 42 and 19 worked in as many as four and five households, respectively. A majority of the workers (260) from the sample earned between Rs 1,001 and Rs 1,500 per household. Two hundred and forty-nine workers earned between Rs 1,501 to Rs 2,000 per household.

Although Karnataka is the first State to fix a minimum wage for domestic workers, it has not implemented it properly, according to the study. Adding to their woes is the fact that only 10 per cent of the domestic workers are organised, which puts them in a very vulnerable position. Even their wages depend on the whims and fancies of their employers, the report noted.

"Of the 1,000 workers, as many as 719 said their wages had been revised. Of these, 56.9 per cent said their wages were revised once a year. As many as 9.6 per cent said their wage revision depended on their owner's wishes, and another 5.4 per cent said it took

place every six months. However, the wages were revised only by Rs 100 to Rs 300, the study noted.

Legislative Council Chairman D H Shankar Murthy, Bangalore University Vice Chancellor B Thimme Gowda and Registrar (Administration) K K Seethamma were present. **DH News Service**

Deccan Herald, January 10, 2015, P. 2  
(Domestic Worker)





शनिवार को 'स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वूमन एंड चिल्ड्रेन' की तरफ से बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। • एफएनडी

## दिल्ली की हर बेटी एसिड हमले से बचाव कर सकेगी

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

**आत्मरक्षा**

'एसिड अटैक' की घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस महिलाओं को इससे बचाव की नई तरीक़ीब सिखाने की तैयारी में है। शुरुआती हिस्से में द्वारका सेक्टर-7 की 1656 बेटियों को यह तकनीक सिखाई गई है। फिलहाल दो परिस्थितियों के बारे में महिलाओं के बचाव के बारे में जानकारी दी गई है। आने वाले दिनों में 'स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वूमन एंड चिल्ड्रेन' इसे राजधानी के अन्य शिविरों में सिखाएगा। पुलिस ने बताया कि राजौरी गार्डन की घटना में महिला डॉक्टर के मित्र ने ही यह वारदात की। ऐसे में यदि कोई पुरुष मित्र किसी महिला को पसंद करता है, लेकिन वह उसे नापसंद करती है तो उसे सावधान रहने की जरूरत है। महिला के मना करने के बावजूद भी वह

- द्वारका में 1656 लड़कियों ने सीखे बचाव के गुर
- 25 दिसंबर से शुरू हुआ था शिविर, आगे भी होगा आयोजन

नहीं मानता है तो उस महिला पर 'एसिड अटैक' हो सकता है।

स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वूमन एंड चिल्ड्रेन की डीसीपी वर्षा शर्मा ने बताया कि शिविर में 1656 बेटियों ने सेल्फ डिफेंस के इतर 'एसिड अटैक' से बचाव के बारे में भी सीखा।

शिविर का आयोजन 25 दिसंबर से किया गया था, जो शनिवार को समाप्त हुआ। एसिड अटैक से बचाव की तकनीक कांस्टेबल परधीन, कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल संजीव ने तैयार की है।

Hindustan (H), January 11, 2015, P. 4

(Self Defence-Acid Attack)

## 'सेल्फ डिफेंस से महिलाओं में आता है आत्मविश्वास'

नई दिल्ली, (ब्यूरो): पूर्वी दिल्ली स्थित आईपैक्स भवन में 10 दिवसीय स्वरक्षा प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हुआ। इस मौके पर प्रतिभागियों ने शिविर में दिए गए प्रशिक्षण का प्रदर्शन करके दिखाया। कार्यक्रम के समापन पर शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र व आत्मरक्षा के लिए मिर्ची स्प्रे दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बीच शिविर को समाप्त किया गया।

इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ताज हसन ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मुकाबले के लिए महिलाओं व बालिकाओं को प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से महिलाओं के भीतर आत्मरक्षा की भावना प्रबल

होती है। आगामी योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में भी हमारी योजना है कि 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। इसके लिए अतिरिक्त प्रशिक्षक भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस साल चार ऐसे आयोजन किए गए, जिसमें 2000 से अधिक महिलाओं व बालिकाओं ने हिस्सा लिया। पुलिस उपायुक्त वर्षा शर्मा ने कहा कि इस तरह के शिविर से बच्चियों व युवतियों के अलावा कामकाजी महिला व गृहणियों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली



पंजाब केसरी मीडिया पार्टनरशिप

पुलिस कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में भी उनकी सुविधानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाएगी। डी.सी.पी. (ईस्ट) अजय कुमार ने कहा कि बच्चों ने प्रशिक्षण का बहुत ही सुन्दर प्रदर्शन किया। आईपैक्स सोसायटीज महासंघ के अध्यक्ष सुरेश बिन्दल ने बताया कि दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चार सौ से ज्यादा किशोरियों, युवतियों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। शिविर में मीडिया पार्टनर की भूमिका तिभा रहे पंजाब

केसरी ने महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने की इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस का साथ देने की बात कही। इस मौके पर सुरेन्द्र कुमार (अतिरिक्त उपायुक्त पूर्वी), जय किरान (ए.सी.पी. विशेष यूनिट), लक्ष्मी (ए.सी.पी. विशेष यूनिट), अलका आजाद (इंस्पेक्टर विशेष यूनिट), राजकुमार साहा एस.एच.ओ. मधु विहार व अन्य पुलिस अधिकारी व क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल रहे।

Punjab Kesari (H), January 13, 2015, P. 8



## Women make only four per cent of top BSE 100 executives: ILO report

Women account for less than four per cent of top management jobs in BSE 100 companies, according to an ILO study released recently.

While women have greatly increased their share of management jobs and as entrepreneurs over the last two decades, all data sources and analyses report a continuing dearth of women in top decision-making positions, as CEOs and board members, a report by the International Labour Organisation's (ILO) Bureau for Employers Activities says.

The larger the company, the less likely the head will be a woman, it says.

Only 5 per cent or less of the CEOs of the world's largest corporations are women, according to the "Women in Business and Management: Gaining Momentum" report.

The survey, conducted among around 1,300 private sector companies in 39 developing countries, captures the extent to which the companies have policies and measures in place to promote women in management.

The percentage of women CEOs in public listed companies is topped by China 5.6 per cent, followed by NZSX 100 New Zealand 5 per cent, US Fortune 500 4.8 per cent, SGX Singapore 4.6 per cent, BSE 100 India

4 per cent, and UK 4 per cent. CAC 40 France and DAX 30 Germany have no women as CEOs in their public listed companies.

Women don't fare any better as percentage of board seats held by women in companies. The 2013 Catalyst Inc survey in 44 countries reveals that in just four countries women represent over 20 per cent of board members (Finland, Sweden, Norway and United Kingdom); in 13 countries between 10 and 20 per cent; and in 14 countries between five and 10 per cent and in 13 countries less than 5 per cent. India along with Japan, Russia, Kuwait, Oman, Bahrain, UAE among other countries fall under the less than five per cent category.

Thirty per cent is often considered as the critical mass required for women's voices and views to be taken into account.

The abysmal situation of gender representation is echoed in politics: In March 2014, just 18 women were heads of state, and women were only 22 per cent (22.9 per cent) of all elected parliamentarians worldwide in April 2014. Some commentators in the report describe progress as "glacial." They state that unless action is taken it could take 100 to 200 years to achieve parity at the top.

The ILO company survey found that 87 per cent of the boards of respondent companies had a man as president while 13 per cent had a woman as president.

One of the reasons why it can be more difficult for women to be selected for top management jobs is the concentration of women in certain types of management functions displaying the "glass walls" phenomenon, which is segregation by gender within management occupations.

PT

The Hindu, January 14, 2015, P. 16



## Women on warships soon

STATESMAN NEWS SERVICE  
New Delhi, 20 January

The Navy is chalking out a policy to allow women on board warships in the next few years, a senior Navy official said at a function. The Navy is preparing to showcase "Nari Shakti" at the Republic Day parade on 26 January.

"The living conditions in ships are entirely different. So now, we are modifying the ships and designing them as per the conditions required for women officers," Commodore B K Munjal, who is in-charge of the Navy's women contingent at the Republic Day parade, said. He said the country will "soon" have women officers fighting shoulder to shoulder with men in every field. Commodore Munjal said higher authorities in the Navy are working on the proposal and a decision should come soon. "We are looking forward to it and hopefully it should be sorted out soon," he said.

While all the three wings of the armed forces have women officers on the rolls, combat duties are not extend-

ed to them.

For the first time in history, all women contingents from the Navy, Air Force and the Army will march down Rajpath this Republic Day following a suggestion from Prime Minister Narendra Modi himself.

"It was a suggestion by the Prime Minister that we should try and showcase Nari Shakti (women power)," a senior Navy officer said. The women officers, who have been practicing for nearly a month for hours together, are looking forward to it.

"The experience is great, it is a proud feeling to march on Rajpath. It is the first time for lady officers. I guess we should set the tradition and every year they should march," Lieutenant Nandita Bharadwaj said.

Asked whether she would want to go on a ship and serve shoulder to shoulder with men, she said, "Definitely yes. Nowadays all the warships which are coming into the Indian Navy, have different provisions and different rooms for lady officers. In the next few years, lady officers will go on board ships."

The Statesman, January 21, 2015, P. 7  
(Nari Shakti)

## Women Employees Earn 27% Less than Men: Monster Survey

Babar.Zaidi  
@timesgroup.com

**New Delhi:** Corporate houses may have rules against gender discrimination, but women employees still don't get paid as much as their male counterparts. A survey by recruitment firm Monster India says that the median wage earned by women is 27% lower than what men make. On an average, men earn ₹259.8 per hour whereas their female colleagues earn just ₹190.5. The online survey had 35,959 respondents across age groups, industries and organisational hierarchies. Nearly 86% of the respondents were males.

Gender continues to play a significant role in determining the wages in the Indian labour market, notes the survey. It says this gap in earnings could be due to a preference for male employees, promotion of male employees to supervisory positions, career breaks for women due to child birth and other socio-cultural factors.

The gender pay gap is not uniform across sectors. In the IT sector, women earn around 34% less, while the difference is only 19% in the finance sector.

The other key factor that defines the pay cheque is the level of education. According to the survey, someone with a professional or post-graduation degree is likely to earn ₹100 per hour more than an ordinary graduate. Even so, the person with a 3-year bachelor's degree will earn

₹80 per hour more than someone with only higher secondary education. "In general, it is beneficial to invest in education in order to obtain higher returns in future, in terms of wages," says the survey report.

The nature of ownership of your company also decides how much you earn. Foreign owners are the best paymasters, says the survey. Employees of companies wholly owned by foreigners earn ₹150 more per hour than workers of companies where foreigners have a partial stake. Workers in domestic companies are the worst paid, earning about ₹115 per hour less than workers in companies where foreigners have a stake and ₹268 per hour less than wholly foreign-owned companies.

Finally, size of the company also defines the wages earned by employees. The average wage in small firms with 10-50 employees is just above ₹150 per hour but in giant companies with 5,000 or more employees, it is above ₹320 per hour.

The survey notes that the IT sector was the best paying sector in the country, with the median wage at ₹341.8 per hour. This is followed by finance where employees get ₹291 per hour and construction and technical consultancy where the median wage is ₹259 per hour. Employees in the education sector get the lowest salary of ₹186.50 per hour. This could also be due to a higher percentage of women employees in the education sector, the report says.

The Economic Times, January 21, 2015, P. 8



**Republic pulse:** Women officers take centre stage as parade highlights their achievements

# 'Nari Shakti' marches through Rajpath

Kalyan Ray

**NEW DELHI:** Two pairs of sisters, widow of two Navy officers, who met with untimely death and 10 women mountaineers, conquerors of the Everest, were among the 450 plus women officers, who marched on the Rajpath as the armed forces depicted Nari Shakti or Women's Power.

The first pair of sisters is Lieutenant Prabhjot Daveta and Flying Officer Ramnik Daveta, who took part in the women officers contingent of the Army and Air Force respectively.

The two second generation officers donned their uniforms taking inspiration from their father, who was a Colonel in the Army.

Lieutenant Prabhjot is serving in the Army Service Corps whereas Flying Officer Ramnik is posted in the Air Force Station Kanpur.

Lieutenant Surabhi Gandhi from Himachal Pradesh, who joined the Navy two years before her younger sister Lieutenant Soloni Gandhi, were part of the 144 strong Naval women officer marching contingent, led by Lt Cdr Priya Jeyakumar, who was commissioned in the Navy in 2010 but got her first opportunity this time.

It was the fourth participa-



Lieutenant Prabhjot Daveta and Flying Officer Ramnik Daveta.

tion for Lt Cdr Shweta Kapur who sailed in the high seas in the Navy's yacht Mhadai. This time she did not march, but stood atop the a Navy tableau that projected the accomplishment of four of the Navy's women officers who braved the vagaries of the seas and participated in an ocean voyage from Goa to Rio-de-Janeiro in Brazil.

The naval contingent had two women officers who lost their naval officer husbands in accidents.

Sub-Lieutenant Sandhya Wadhwa's husband Commander Kuntal Wadhwa died in an accident on board INS Kolkata – the new indigenously-built Destroyer – when the

ship was undergoing trials at the dockyard. He was to take over as the ship's engineering officer but died while testing a carbon dioxide unit.

Sandhya overcame the shock and grief to join the Navy. Incidentally, Commander Kuntal Wadhwa on Sunday was posthumously awarded Nau Sena Medal (Gallantry).

Lt Chippy K Devasia, 30, who lost her husband, Lt Cdr Jose Mathew, in an accident in Mauritius in 2013, also decided to join the maritime service as a personal tribute to the man she loved. Unlike many women who come from the family of the armed forces, there was also Sub-Lt Hema S, who hails from a humble background in Bangalore.

"It was a proud moment for all of us," said Lieutenant Bidisha Pandey, a logistics officer from the Eastern Naval Command.

While the IAF contingent was led by Squadron Leader Sneha Shekawat, the 154-member all-women army team was headed by Captain Divya Ajit Kumar, who passed out of Officer's Training Academy, Chennai, in 2010 and is serving with the Corps of Air Defence.

The Army, Air Force and Navy currently employ women as short service commission officers in the non-combat branches.

DH News Service

## Wouldn't drive bike after watching BSF daredevils: Obama

**NEW DELHI, PTI:** United States President Barack Obama said he will "not drive" a motorbike after watching the daredevil motorcycle performance by BSF personnel at the Republic Day parade here on Sunday.

"I would, by the way, not drive a motorcycle after watching those incredible acrobats," Obama said, clearly over-

whelmed by the performance of the "Jaanbaaz" bike riders and their daring stunts.

His comments at the Indo-US Business Forum meet here in the evening came hours after TV grabs showed him and US First Lady Michelle Obama cheering and giving the thumbs up to the BSF daredevils—famed for their formation of a human pyramid on moving

bikes—during their stunning display at the parade.

Obama thanked Prime Minister Narendra Modi for the invitation extended to him for joining "in this incredible Republic Day celebrations and (for) the hospitality that you have shown to me".

"Today's ceremony and the parade were truly spectacular, a moving tribute to India's

founding, its democracy, its progress," he said.

In a jocular vein indicating the series of meetings and speeches Modi and he have made since yesterday, the US President said, "I felt that the Prime Minister must be tired by now, but what's another speech between friends," as he began his speech at the business meet.

Deccan Herald, January 27, 2015, P. 7

(Nari Shakti)



# Obama stresses on women power

## SAYS WHEN WOMEN DO WELL NATION MAKES PROGRESS

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, 27 January

US President Barack Obama today said the sight of "incredible" Indian women in the armed forces was one of his "favourite things" during his visit as he stressed that a nation's success depends on its women when their women make progress.

Obama made the remark while lauding the role played by Indian women in various spheres of life in his address to a select audience of youngsters.

The President, who wound up this three-day visit to India with this speech, referred to the presence of women defence officers in India.

"One of the favourite things on this trip for me has been to see all these incredible Indian women in the Armed forces including the person who commanded the guard that greeted me when I arrived (at Rashtrapati Bhavan). It's remarkable. It is a sign of great strength and progress," he said amidst a thunderous applause from the crowd and his wife Michelle at Siri Fort.

For the first time the defence forces, chose women officers to lead their marching contingents during the Republic Day parade on January 26. Wing Commander Pooja Thakur of the Indian Air Force led the Guard of Honour at the Rashtrapati Bhavan when Obama was accorded a ceremonial welcome last Saturday. "In India, women have shown that they can succeed in every field including government where many of your leaders are women. The young women, like present here, are playing their part in India's progress.

"We know from experience



that nations are successful when their women are successful. When girls go to school...this is one of the most direct measures of whether a nation is going to develop perfectly...and how it treats its women," Obama said.

He urged men, to ensure that the fairer sex are given their freedom and right.

"It is as husbands and fathers and brothers that we have to step up because every girl's life matters and every daughter deserves the same chances as our sons and every woman should be able to go about her day, to walk the street and ride the bus and be safe and treated with respect and dignity she deserves," he said.

"So, if nations really want to succeed in today's global economy they can't simply ignore talents of half their people," he said.

He also mentioned the important role his wife plays in his life. The US President and the First Lady wants India to know America believes in them too. US is working to make sure that women and girls have all the opportunities they deserve."

President Obama specifically talked about top Democrat in the House of Representative Nancy Pelosi while praising women power.

"She was the first women Speaker of the House and my great partner," he said.

The Statesman, January 28, 2015, P. 10



## 'She Taxis' to commence service from next month

AYESHA MINHAZ | DC  
HYDERABAD, JAN. 28

Armed with GPS live tracking system, SOS (crisis) button to alert nearby police stations, a dedicated call centre facility, pepper spray etc., the first batch of "She Taxis" are set to hit Hyderabad roads next month.

Road Transport Authority of Telangana along with the Women and Child Welfare Department are working on the above to make the "She Taxis" as secure as possible.

"Currently, the women drivers are enrolled in a one-month program at the Maruti Training School in Himayathnagar where they are undergoing training through both in-house simulator and



Women drivers getting trained.

— DC

on-road practice," said Ranga Reddy deputy transport commissioner C. Ramesh.

The women drivers are being trained in vehicle maintenance and repair competence too and plans are under consideration to include self defence

sessions.

Reportedly, the RTA has finalised the model of the cars to be Swift Dzire vdi. As per sources from the department, the women drivers will have to pay 55 per cent of the loan amount and they happily agreed.

Deccan Chronicle, January 29, 2015, P. 3

(She Texi)



# रेप के खिलाफ ज्यादा कम्प्लेंट

## पुलिस का दावा, आसान रजिस्ट्रेशन से बढ़ा महिलाओं में कॉन्फिडेंस

**26 परसेंट इजाफा हुआ रेप केसों में**  
साल 2000 से 2011 तक हर साल औसतन 500 रेप केस दर्ज होते थे। 2011 में 572 रेप रजिस्टर्ड हुए थे। 2012 में भी इस संख्या में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ और 706 रेप के मुकदमे दर्ज हुए। 16 दिसंबर 2012 को बस गैंग रेप कांड हुआ। इसके बाद हुए हंगामे ने महिला अपराध के प्रति पुलिस का रवैया बदला डाला। अगले ही साल यानी 2013 में रेप केसों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया और 1636 मुकदमे दर्ज हो गए। इससे भी बड़ा उछाल आया 2014 में। पिछले साल 15 दिसंबर तक 2069 रेप केस दर्ज हुए।

**क्या है वजह?**  
आखिर रेप केसों की संख्या में पिछले कुछ सालों में चार गुना इजाफा क्यों हुआ? पुलिस अफसर इसकी पहली वजह बताते हैं कि बस गैंग रेप कांड के बाद सभी एसएचओ को रेप की सभी कम्प्लेंट दर्ज करने को हिदायत दी गई है। दूसरी वजह यह है कि महिलाओं में अब पहले की तुलना में आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वह केस दर्ज कराने सामने आ रही हैं।

**'दोस्तों' ने किए सबसे ज्यादा रेप**  
पिछले साल 2014 में कुल 2,069 रेप केसों में 84 वारदातों में मुल्जिम महिलाओं के लिए अजनबी थे। हालांकि यह आंकड़ा कम लगता है, लेकिन पिछले सालों में रेप के अजनबी मुल्जिम डेढ़-दो प्रतिशत ही होते थे। पिछले साल अजनबियों की संख्या बढ़ी है। इन 84 के अलावा रेप के सभी मुल्जिम जानकार हैं। रेप के इन आरोपियों में सबसे बड़ी संख्या रही दोस्तों की। महिलाओं के या उनके परिवारों के चेस्त 45 परसेंट रेप केसों में मुल्जिम थे। शादी का चादा कर सम्बंध बनाने वालों की भी काफी संख्या इनमें है। 13 परसेंट मामलों में महिलाओं के रिश्तेदार मुल्जिम हैं। 20 परसेंट वारदातों में पड़ोसियों ने भरोसा तोड़ा।

**402 रेप के आरोपी फरार**  
2069 रेप केसों में 1667 में मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ मामलों ऐसे भी आए, जिनमें जेल में बंद किए जा चुके आरोपी की मौजूदगी वारदात

क वक्त किसी और जगह साबित हुई। नेब सरय थाने में एक मुल्जिम को जेल में 15 दिन तक रखने के बाद खुद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर स्टेटस रिपोर्ट में माना था कि रेप के वक्त के दौरान वह अपने दफ्तर में था।

**क्या है वजह?**  
इसकी वजह औपन रजिस्ट्रेशन है। पहले बहुत सी कम्प्लेंट पुलिस दर्ज नहीं करती थी। अब गर्ल्स बिना डरे सामने आ रही हैं।

**1282 एफआईआर**  
ईव टीजिंग यानी अश्लील फिकरेबाजी में भारी उछाल आया है। 2013 में 916 तो 2014 में 1282 एफआईआर दर्ज हुई।



**4179 केस छेड़छाड़ के दर्ज**  
छेड़छाड़ की वारदातों में भी बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले तक हर साल अमूमन 600-700 एफआईआर दर्ज होती थी। 2012 में रेप की ही तरह यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ा और 727 केस दर्ज हुए। बस गैंग रेप होने के बाद 2013 में छेड़छाड़ के कुल 3515 केस दर्ज हुए। 2014 में यह संख्या 4179 हो गई।

**रेप के मामले में निपटारे का पीरियड**



**छेड़छाड़ के मामले**



**पीड़िता से रेप करने वाले**



Nav Bharat Times (H), January 3, 2015, P. 3  
(Rape Cases)



# Crime cases double in 2014

Robbery leads surge with six fold rise, car thefts most reported: Police

SARAH HAFEEZ  
& ANANYA BHARDWAJ  
NEW DELHI, JANUARY 2

**T**HE YEAR 2014 witnessed an almost doubling of crime in Delhi, the city's police chief BS Bassi revealed at Delhi Police's annual review meet on Friday. Cases registered in the capital rose to 1,47,230 last year, from 73,902 in 2013, police statistics reveal.

"The highest number of cases are of vehicle theft and snatching. Rapid urbanisation has led to certain factors which have a bearing on the

crime rate in the city. Large expansion of new colonies and thousands of unplanned colonies is an important factor for street crimes such as robbery and snatching," Deepak Mishra, who takes care of the city's law and order, said.

Robbery cases grew nearly sixfold. Close to 6,200 cases of robbery were registered in 2014 against 1,106 the year before.

House theft cases also increased by over 300 per cent with 12,276 cases being reported last year.

Motor vehicle thefts saw a 59 per cent increase from 13,895 cases in 2013 to 22,223 cases last year.

The number of rapes reported saw an increase of 31 per cent while those of murders rose slightly at 15 per cent, the figures showed.

Attempt to murder and kidnapping for ransom saw 32

per cent increase each.

Police said with sustained efforts at rigorous investigation — by the specialised departments such as Crime Branch and Special Cell — 59 per cent of the heinous crimes were solved by December 15, 2014.

The main factors which police said are behind this spurt are socioeconomic imbalances in a fast-urbanising city, especially around housing estates such as Rohini and Dwarka.

Proximity of affluent colonies to the cluster housing of the underprivileged deepen a sense of inequality, the report says. Adverse sex ratio of 866 females per 1,000 males in the capital is another factor cited.

Easy modes of escape after committing a crime, facilitated by NCR's long borders with three states, resulted in increased mobility of criminal elements, the police said.

The Indian Express, January 3, 2015, P. 3

## Women trafficking: SC not pleased with Centre's pace

PNS ■ NEW DELHI

**T**he Supreme Court on Thursday told the Centre to adopt a change in attitude on the sensitive issue of women trafficking after it found that 25 years since its verdict resulted in Advisory Committees to curb trafficking being formed at both Centre and State level, many States were either unresponsive or had committees on paper that had not met for over a decade.

"You are not a post office, you are the Government of India," observed the Bench of Justices AR Dave, Madan B Lokur and Kurian Joseph, while

**You are not a post office, you are the Government of India**

hearing a petition by NGO Prajwala. The court passed the comment after going through an affidavit by Centre that gave the position in 10 States. Even among the 10 States that had replied to the letters issued by the Centre, most were evasive and incomplete.


"You are to do more than writing letters (to States)... There is no information as to what are the terms of reference

of these Committees and the work done by them," the Bench told Additional Solicitor General Neeraj K Kaul, appearing for Centre.

"We are in the process of again writing to States which supplied us incomplete information," the ASG said, adding that the letters were issued to all states on December 12 but only few had responded. "There is one attitude that you simply go by the information States provide or there is the other attitude that you tell them it's insufficient and require them to give you more information," added the Bench.

The Pioneer, January 30, 2015, P. 5  
(Women Trafficking)





The Indian Express, January 3, 2015, P. 3  
(Crime against Women)



# MARKED RISE IN CASES OF CRIME AGAINST WOMEN

ABHAY SINGH

abhay8942@gmail.com  
New Delhi, 2 January

Already dubbed an 'unsafe' city for women, Delhi has recorded a significant rise in crime against women with as many as 2069 rapes recorded up to 15 December this year as compared to 1571 in the corresponding period of 2013. The number of molestation cases has also increased by about 25 per cent with 4179 such cases registered during the same period last year.


Police claimed that 95.94 per cent of the rape cases reported to police have been committed by accused known to the victim or her family.

Incidents of alleged rape in the national capital in 2014 have gone up by almost one-third since the previous year, it was revealed at the annual police press conference today. Twenty per cent of the rape cases this year remain unsolved, said the police. Culprits in 60 per cent of the solved cases were nabbed within a week of the crime being reported, police said.

Police said 72 per cent of the accused in rape cases are victims' friends, relatives, acquaintances. Three per cent are victims' employers and co-workers while 21 and 4 per cent accused are neighbours and strangers respectively.

Police claimed that 4179 cases of molestation of women were reported in 2014. Of these as many as 67.17 per cent cases have been solved. Though the registered crime against women grew exponentially, 78 per cent cases were solved within a fortnight.

Crime against women is a blot on the social order, and a society that claims to revere and respect women has not been able to fully tame men with criminal mindset, Delhi Police Commissioner Bhim Sain Bassi said, adding that safety and security of women will continue to be the foremost concern of the force this year. Of the 1282 cases regis-



Delhi Police Commissioner B S Bassi during annual press conference in the Capital on Friday. ■ Sns

## DISTRICT-WISE CRIME BREAK-UP

■ Central Delhi registered 16195 cases in 2014 as against 8014 cases registered in the previous year. The working out percentage during 2014 was 57.08 per cent in heinous cases and 34.91 per cent in all IPC cases.

■ East Delhi registered 33899 cases as against 18039 registered in 2013. Around 60 per cent of heinous cases and 28 per cent of total IPC cases were solved.

■ North Delhi registered 31911 IPC cases in 2014 as against 14722 registered in 2013. The working out percentage during 2014 was 51.05 per cent in heinous cases and 24.05 per cent in IPC cases.

■ The New Delhi district registered 2311 cases during 2014 against 1320 cases in 2013. Altogether 43.10 per cent of heinous cases were solved.

■ The registration of total IPC cases in South Western Delhi was 28204 in 2014. Around 58.70 per cent of heinous cases were worked out. In the previous year 13598 cases were registered.

■ In South East Delhi 30426 cases were registered last year as against 15908 cases in 2013. The working out percentage was 33.46 per cent heinous cases and 33.46 per cent of all IPC cases.

tered till mid-December last year, only 54 per cent were solved. Incidents of eve-teasing increased by 45 per cent over one year.

The cases of harassment stood at 1,282 in 2014 compared to 879 in 2013, while the cases of dowry death touched 147 in 2014 as compared to 137 in 2013.

Mr Bassi said women are being trained to fill the "physical capacity gap". He said Delhi's women would be trained to take on men when harassed or not given their due.

"We appeal to every-

one to join hands with us so that every woman in Delhi gets trained in self-defence. I want every woman to have a brown belt in judo," he said.

Over 15,000 women in the Capital have been trained in self-defence this year and around 1.25 lakh over the last 12 years. Apart from the basic self-defence techniques, they are also taught how to use their belongings like pens, dupattas and handbags to protect themselves from molesters and snatchers.

The Statesman, January 3, 2015, P. 2



## CCTV camera installation among top priorities: Bassi

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, 2 January

In a bid to ensure smart policing in the national capital, Delhi Police Commissioner B S Bassi today said that his force will incorporate all the modern technologies and installing CCTV cameras will be one of its priorities.

Bassi also said Delhi Police is now upgrading its systems at the Central Police Control Room so that all incoming calls received on Telephone No. 100 are simultaneously forwarded to the nearest PCR van and the concerned police station in real time through cyber highway.

He said Delhi Police will be the first police organisation to do so in the country. It will reduce the turnaround time for PCR vans to proceed to the next call in queue. This system will also have the facility of sending SMS to the complainant as well as the concerned SHO through the control room.

The Police Commissioner also said that installation of 3,932 closed-circuit television (CCTV) cameras has already been completed at 85 locations including border check posts and courts.

"A large number of CCTV cameras have been installed in the city in past few months. It has also turned out to be very helpful in keeping an eye on unlawful act. Even in the future, tech-based surveillance will remain our top priority," Bassi said.

### ON DRUGS

Mr Bassi pledged that the force would work harder to curb the menace posed by drug addiction in the country even as he invoked Prime Minister Narendra Modi's 'Mann ki Baat' talk in which the latter had spoken about the social problem.

He said that a total of 133.38-kg of smack/heroin

had been recovered during the year, making it the highest haul of the last eight years.

A total of 319 drug-related cases were reported and 392 persons were arrested in 2014.

Police also informed that they recovered more than 1,200 stamps of 'Lysergic Acid Diethylamide', known commonly as LSD, in the capital in 2014, which was worth Rs 8 crore on the international market.

It is the second-highest recovery in the history of Delhi Police and the Narcotics Control Bureau and is also one of the biggest in the country.

"The Prime Minister recently expressed concern about drug abuse in the country during his 'Mann Ki Baat' radio programme. He said that the drug addiction menace is a national pain as it leads to the dark alleys of destruction and devastation.

"Our police force will make sure that in the year ahead, we contribute as much as we can to curb this social problem. Money earned through selling drugs is used in anti-national activities and, even as this problem has always been our major concern, we'll work harder on it in future," he said.

Bassi also appealed to the media to extend help over the issue wherever they can. "I request the media also to support our effort because the minor drug peddlers are the ones who must be busted soon. The issue is of national significance as it is related to the future of India's youth," he said.

### FOCUS ON COMMUNITY POLICING

Delhi Police has launched an unique active community policing scheme 'Yuva Prahari', under which youth of an area will be trained to accompany police control room (PCR) teams during patrolling in their area.

## Induction of NE youths

New Delhi, 2 January: Inducting youths from Northeastern states in the Delhi police force will reflect country's national integrity and will make the force better equipped to deal with crime against people from those states in the city, Delhi police commissioner B S Bassi said today.

Replying to a question related to a recent decision to induct 160 youths from Northeast states into Delhi Police, Bassi said that the move will showcase an excellent example of our country's unity in diversity and will make interaction of people from those states living in the National capital more convenient.

The Police Commissioner mentioned that recently during the annual DGSP/IGSP Conference in Guwahati Prime Minister had urged for broad basing police recruitment.

The top cop said that to ensure emergent mid course correction, suitable changes in our relevant standing order have been notified.

"I have written to the DGSP of eight North Eastern states to recommend names of suitable candidates from each of the state on the basis of their any ongoing or forthcoming recruitment process, for appointment of 10 male and 10 female Constable (Exe.) in Delhi Police. Shri Kiren Rijju, MOS Home has also very kindly written to the CMs of NE States to help Delhi Police in this regard," Bassi said. "If these jawans or youths from different states are inducted in Delhi's police force it would make the personnel understand each other better. With the jawans and their family living here and their heterogeneous culture would showcase a unique example of nationalism," he said. During his visit to Delhi Police Headquarters a couple of days ago, Minister of State Kiren Rijju had said, "the Delhi Police do not proportionately represent the people of the Northeastern region in its forces. There are incidents in which we feel that Northeast people have to be more visible. Sometimes, justice is not enough to be done, it should be seen to be done".

The minister had also emphasised that initiatives including the Northeast helpline (1093), NE police unit at Nanakpura, Delhi Police Facebook page especially for people from the Northeast to contact the police directly, 22 WhatsApp groups for all sections of Northeast people at Delhi should be continued. **PII**

Mr Bassi said "recently we have started a unique active community policing scheme involving young adults between the age of 18-35 called 'Yuva Prahari' in partnership with the Nehru Yuva Kendra Sangathan, an autonomous body under the Department of Youth, Government of India."

Under the scheme, young adults, after attending specially designed orientation programme by Delhi Police, will be part of the patrolling teams in the PCR vans operating in their area.

"They would assist the police team in handling the calls. These young volunteers

would help in further improving the interface between the patrolling staff and the community," he said, adding it would also positively channelise the energies of these non-student young adults.

On a pilot basis, 125 such volunteers which include 36 girls have been selected after a due selection process and police verification, Bassi said.

The volunteers have been imparted training for a week which includes basic first-aid, self defence and an understanding of the functioning and structure of the PA-100 Emergency Response System, he added.

The Statesman, January 3, 2015, P. 2



# महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। घर भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस के आंकड़े यही दर्शाते हैं। राजधानी में 96 फीसदी रेप के मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित व रिश्तेदार ही होते हैं। जबकि चार फीसदी मामलों में अनजान व्यक्ति आरोपी होता है।

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष दर्ज रेप की 2069 घटनाएं दर्ज की गईं। जिसमें 919 (44.42 फीसदी) मामलों में आरोपी पीड़िता का दोस्त व पारिवारिक जानकार है। 420 (20.30%) मामलों में आरोपी पीड़िता का पड़ोसी, 298 (14.40%) जानकार, 282 (13.62%) रिश्तेदार, 66 (3.19%) सहकर्मी है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने रेप की 84 (4.06%) ऐसे मामले दर्ज किए जिसमें आरोपी को पीड़िता से कोई जान पहचान नहीं थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस वर्ष दर्ज रेप के मामले में 586 (28.32%) ऐसे मामले में हैं जिसमें पीड़िता आरोपी के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही थी और शादी से इंकार करने पर पीड़िता ने रेप का मामला दर्ज कराया।

96 फीसदी मामलों में पीड़िता के परिचित ही होते हैं दुष्कर्म के आरोपी

28 फीसदी लिव-इन में रहने वाले देते हैं चारदात को अंजाम

### महिला अपराधों में हुई बेतहाशा वृद्धि

| अपराध         | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|------|------|------|------|
| दुष्कर्म      | 572  | 706  | 1636 | 2069 |
| छेड़छाड़      | 657  | 727  | 3515 | 4179 |
| फकिरिया       | 162  | 214  | 916  | 1282 |
| दहेज हत्या    | 142  | 134  | 144  | 147  |
| दहेज प्रतिलोभ | 1585 | 2046 | 3045 | 3005 |
| दहेज मांग     | 7    | 15   | 15   | 13   |
| अपहरण         | 2085 | 2210 | 3609 | 3887 |
| पोक्सो एक्ट   | -    | -    | 136  | 105  |

### हेल्पलाइन नंबर पर किया संपर्क

| नंबर             | 2013  | 2014  |
|------------------|-------|-------|
| 100              | 10409 | 12552 |
| 1091             | 51743 | 53708 |
| महिला हेल्पडिस्क | 58766 | 36284 |

### महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

- 100 नंबर वाली हेल्पलाइन की संख्या 40 से 100 की गई
- 1091 नंबर वाली हेल्पलाइन की संख्या 4 से 10 की गई
- सभी थानों में सातों दिन और 24 घंटे महिला हेल्प डेस्क
- हर पुलिस थाने में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए महिला पुलिसकर्मी
- महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 300 बस रूट पर विशेष नजर
- सी पीसीआर वैन में महिला पुलिसकर्मी की तैनाती
- परिवर्तन स्कीम के तहत 398 बीट पर महिला पुलिसकर्मी की तैनाती
- थाना स्तरीय कमेटी में महिला की भागीदारी
- तीन सी बस स्टैंड पर विशेष तैनाती
- 141 महिला सब इस्पेक्टर और 1200 महिला कांस्टेबल की भर्ती
- एनजीओ के साथ विशेष आयुक्त (ट्रैफिक) की हर माह मीटिंग
- अज्ञात कॉल और पीछा करने की शिकायत पर विशेष जांच
- 859 पीसीआर वैन को रात में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाइक और इमरजेंसी व्हीकल की गश्त
- दुष्कर्म के आरोपियों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर डालना (अब तक 1364 आरोपियों को डाला गया)

Amar Ujala (H), January 3, 2015, P. 2  
(Domestic Violence)

## ALL-WOMEN POLICE FLYING SQUADS FOR SRINAGAR

Srinagar, 4 January: In the wake of increasing crimes against women in Srinagar, police have decided to deploy all-women police flying squads in the city.

"All-women police flying squads will be deployed in Srinagar city at sensitive places to check crimes against women," a police spokesman said.

He said the squads would be deployed specially at the coaching centre hubs in the city.

"To begin with, the city police will deploy all-women police flying squad vehicles in coaching hubs of Parraypora and Baghat areas to assist the girl students. Later, the squads will be deployed in other sensitive places," the spokesman said.

He said in case of stalking, harassment, teasing or any unwarranted advances by delinquents, the girl students are requested to contact nearby female police personnel for immediate assistance.

This measure was taken as some victims felt uncomfortable talking about such sensitive issues with the opposite gender, he said.

"This endeavor is a part of initiatives to be taken by police to sensitize the society about the dignity and honor to be extended to ladies," he added.

The Statesman, January 5, 2015, P. 7



# Nasty scars fail to singe their determination

She was one step away from being an air hostess with a major airline carrier. Eleven years on, her dream still remains to be achieved. Though she could not achieve her "goal", she feels happy to lead an "almost normal" life now. She has accepted that she will never look the same.

Soniya, 30, now runs a salon out of home. At 19, she was attacked with acid on her way back from work. "I did not even know then what an acid attack was. I screamed thinking the guy on the motorbike had thrown boiling water at me. I passed out at hospital. When I regained consciousness a day later, I realised my life had changed."

Soniya was attacked by a guy in the neighbourhood who wanted to settle scores after having spent a few days in a jail. "I had bought a phone from him. A few days later, the police called me and asked from where I had bought the phone. They told me it was a stolen phone. I told the police the name of the person from whom I had bought it. Following this, he was in jail for a day or two," says Soniya.

Once out, the guy repeatedly threatened Soniya with "dire consequences" if she did not apologise in public. She refused. One and a half months later, she was attacked. While Soniya worked at a VLCC salon at Ghaziabad in Uttar Pradesh before the attack, her father ran a kirana store. The family ran into debt while trying to meet medical expenses. After being treated in Safdarjung and

Lok Nayak Hospital (LNJP), Soniya underwent treatment at home. Despite several surgeries, Soniya's face remains disfigured today and her eyesight affected.

Cosmetic surgeries for acid attack survivors take a few years. While most cannot meet medical expenses, life of survivors often comes to a standstill with no support from family or their workplace. A rounded rehabilitation programme for acid attack survivors is currently missing.

"Plastic surgeries for acid attack survivors are very expensive. The survivors also have to spend a significant amount on visiting hospitals. The need for physiotherapy and psychological care is largely overlooked. In several cases, it is important to provide the survivors with housing and jobs as the perpetrators continue to harass them or the family withdraws support," says Kerry Mcbroom, a lawyer at the Human Rights Law Network (HRLN).

Recently, HRLN has come out with *Burning Injustice* — a manual for lawyers, activists and acid attack survivors in the country. The manual has not been priced. "It is a comprehensive guidebook which talks about the laws, amendments and the different types of injuries," says Mcbroom.

In most cases, the face and eyes of the victims bear the brunt of the attack. "The attacker's intention is to disfigure the person. So eyes and face suffer severe injuries. In some cases of disfigurement,



Ritu

rective surgery," says Dr K Agrawal, head of the department, burns plastic and maxillofacial surgery, Safdarjung Hospital. Safdarjung sees roughly between 25 and 30 cases of acid attack victims in a year, he adds.

LNJP, which has over 100 beds for burns, sees at least one case every month. "It depends on the extent of damage how many corrective surgeries a patient will need. It may range up to 15 in some cases," says Dr Rajeev B Ahuja, head of the department, burns & plastic surgery, LNJP.



Soniya

According to figures compiled by Acid Survivors Foundation India (ASFI), an NGO headquartered in West Bengal, 130 cases were reported in 2014. In 2013, 122 cases were reported.

"The cases have exponentially increased in the past few years. The attacks are not specific to urban areas. In unorganised sectors like jewellery trade, dyeing of cotton fabric where strong acids are available, people often use them to settle personal scores," says Rahul Varma, national director and chief executive officer, ASFI.

According to activists, the number of cases in the public domain is under reported. "It is often not reported when a victim dies after the attack. Also, in several cases of acid attack, FIRs are not lodged," says Mcbroom.

She says Rs 3 lakh recommended to the victim by the Supreme Court is not enough as corrective surgeries cost till Rs 30-40 lakh, say activists. Most of the corrective surgeries cannot be conducted in the government hospitals with a long waiting period and inadequate facilities, say victims.

## Vulnerable to attacks

The most common age group vulnerable to attacks is between 11 and 30 years, says Varma. This is because in most cases men attack women with acid to avenge rejection of marriage or relationship proposal. Attacks due to property dispute, marital discord, political rivalry and refusal to pay dowry are also common, he adds.

However, the case of 23-year-old Piyali Dutta doesn't fit into any of the categories. Piyali was unlucky as she was standing next to a woman when her husband threw acid on his wife in Shyamnagar, West Bengal. While the woman died, Piyali suffered injuries on her face, neck, arms and legs.

"I was in Class 8 at that time. Next two years were like a blur. When I started attending school after over two years, stares bothered me. But I realised I cannot let it affect my life," says Piyali.

Now a final year student in a Bachelor of Arts course, Piyali wants to be a primary school teacher. "Since my father suffered a stroke, my mother has run around to raise a lot for my treatment. I cannot let her down." Piyali is among many other victims who have decided to get on with "normal lives".

Ritu, 19, along with four others runs *Sheroes Hangout*, a cafe in Agra after she came in touch with Stop Acid Attacks, an NGO campaigning for such victims. Her cousin masterminded an acid attack on her in connection with a property dispute.

"I manage the finances at the cafe. But with my left eye damaged, I miss playing volleyball like before."

Ritu, who is from Rohtak in Haryana, now stays in an apartment in Agra along with her colleagues. Lately, she has taken an interest in painting. Her colleague Rupa designs clothes as well.

Soniya, who could not attend her last round of interview at the airline, has a new dream now — to bring up an eight-year-old girl. She adopted her sister's daughter when the child was a few days old. "She calls me mamma and is very attached to me," says Soniya. Over the years, she feels confident of herself.

"I recently visited Pune and Gujarat... I felt so confident about myself. But I cannot get back my eyesight. A hospital in Hyderabad said the eye operation would cost me Rs 3.6 lakh. I cannot raise the amount by running this salon," she adds. **Ritwika Mitra in New Delhi**



# आधी दुनिया के लिए असुरक्षित दुनिया

सभ्य समाज कहलाने लायक हम तभी होंगे जब स्त्रियों के खिलाफ हिंसा पूरी तरह रुक जाए



भारत डोगरा

किसी भी सभ्य समाज की एक बड़ी पहचान यह है कि उसमें महिलाएं बाकी नागरिकों की तरह ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। इस नजरिए से देखा जाए तो आज हम एक बेहद असभ्य दुनिया में रह रहे हैं। यौन हिंसा और घरेलू हिंसा यहाँ असहनीय हद तक बढ़ी हुई है। यह स्थिति एक तरफ पाकिस्तान जैसे धार्मिक कट्टरता में फंसे हुए मुल्क में देखी जा सकती है तो दूसरी तरफ आधुनिक व खुले समाज वाले देश अमेरिका में भी देखी जा सकती है। इन दो समाजों में महिलाओं की हालत अन्य मामलों में बहुत भिन्न है, पर दोनों में एक साझा बात यह है कि हिंसा दोनों जगह बहुत अधिक है।

शिक्षा, तकनीक और अन्य स्तरों पर इतनी तरक्की के बावजूद समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता क्यों नहीं बढ़ रही है?

अपने ही देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, तो वर्ष 2014 में यहाँ लगभग 6500 बलात्कार व छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुए। दर्ज नहीं हुए मामलों की संख्या और भी ज्यादा होगी। चर्चित पुस्तक 'अंग्रेस्ट अवर विल' में सुसन ब्राउनमिलर ने लिखा है कि सामान्यतः बलात्कार के पांच मामलों में से कोई एक केस ही धाने में दर्ज हो पाता है। इन आंकड़ों से इस सच्चाई को जोड़कर देखा जाए तो चमकती-दमकती दिल्ली का एक बहुत चिंताजनक पक्ष सामने आता है।

यह दशा तब है जब महीनों पहले से इस शहर में महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास चल रहे हैं और यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में



सारी हलचलें बाहर, मन के भीतर कुछ नहीं

छाया हुआ है। पुलिसकर्मियों की संख्या सुरक्षा का बजट दिल्ली में देश के अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक है। इसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज मामले वर्ष 2013 की तुलना में 2014 में तेजी से बढ़े हैं।

## हर ओर खतरा

इसे लेकर प्रशासन ने कई सुझाव रखे हैं। मसलन सड़कों व यातायात को अधिक सुरक्षित किया जाए, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं आदि। ये सब प्रस्ताव अपनी जगह जरूरी हैं। रोड व ट्रैफिक तो सेफ होने ही चाहिए। पर पुलिस का कहना है कि 96 प्रतिशत रेप तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए जो विक्रिम को अच्छी तरह जानते थे। ऐसे में मुद्दा केवल सुरक्षा व्यवस्था का नहीं रह जाता। यह प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज में किस तरह की प्रवृत्तियां पनप रही हैं।

नील मैलमय ने अमेरिका के कॉलेजों में एक सर्वेक्षण किया, जिसमें पूछा गया कि यदि कोई कानूनी अड़चन न हो तो क्या यौन संबंधों में वे जोर-जबरदस्ती करने को तैयार होंगे? 58

प्रतिशत ने उत्तर दिया कि यदि कानून का भय न हो तो वे ऐसा कर गुजरेंगे।

नाओमी वुल्फ की पुस्तक 'द ब्यूटी मिथ' में भी ऐसे अध्ययनों के बारे में बताया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि वे रेप कर सकते हैं। अमेरिका में एक अन्य सर्वेक्षण एम.एस. पत्रिका ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के सहयोग से किया। 3187 महिलाओं के इस सर्वे से पता चला कि यहाँ 'रेप' की जो कानूनी तौर पर मान्य परिभाषा है, उसके अनुसार एक चौथाई महिलाएं इस अपराध का शिकार बन चुकी थीं।

रेप की 84 प्रतिशत विक्रिम ने बताया कि वे दुष्कर्म करने वाले को पहले से जानती थीं। नाओमी वुल्फ ने 'ब्यूटी मिथ' पुस्तक में ऐसे कई अध्ययनों का सारांश दिया है। डायना रसल ने सैनफ्रैसिस्को की 930 महिलाओं के सर्वेक्षण के आधार पर बताया कि उनमें 44 फ्रीसदी बलात्कार या इसके प्रयास का शिकार हो चुकी थीं और इनमें 88 फ्रीसदी रेप करने वाले को जानती-पहचानती थीं।

हॉलैंड में 1054 मध्यवर्गीय महिलाओं

के अध्ययन से पता चला कि 15.6 प्रतिशत के रिश्तेदारों ने उनका यौन शोषण किया था जबकि 24.6 प्रतिशत का किसी अन्य ने बचपन में यौन शोषण किया था। यानी कुल 40 प्रतिशत महिलाएं यौन शोषण भुगत चुकी थीं। कुछ विशेष अवधियों में ऐसे मामलों अचानक बढ़े। जैसे स्वीडन में वर्ष 1981-88 में रेप 50 प्रतिशत बढ़ गए। हॉलैंड में 1980-88 में यह संख्या 33 प्रतिशत बढ़ी।

दिल्ली में सिर्फ एक वर्ष में इन मामलों में 30 फ्रीसदी की बढ़ोतरी हुई। यौन हिंसा के अतिरिक्त अन्य तरह की हिंसा से भी महिलाएं बहुत त्रस्त हैं। विभिन्न अध्ययनों से दर्दनाक सच्चाई सामने आई है कि विभिन्न देशों में एक तिहाई से दो तिहाई तक महिलाएं घरेलू हिंसा की पीड़ा भुगत रही हैं। बहुत ही दर्दनाक हिंसा के उदाहरण धनी व निर्धन, दोनों तरह के देशों में सामने आ रहे हैं।

## अधूरे हैं प्रयास

ये आंकड़े वाकई हताशा करने वाले हैं। विचार करने की जरूरत है कि आखिर दुनिया में शिक्षा, तकनीक और अन्य स्तर पर लगातार तरक्की के बावजूद स्त्री के प्रति संवेदनशीलता क्यों नहीं बढ़ रही? आज भी उसे सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह क्यों देखा जा रहा? कहीं हमारी शिक्षा में कोई बुनियादी कसर है, या विकास के तौर-तरीकों में? जाहिर है यह किसी एक देश या समाज की समस्या नहीं है। इससे पूरी दुनिया जूझ रही है।

शायद बुनियादी सामाजिक संबंध सुधारने पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। सामाजिक रिश्ते, खासकर स्त्री-पुरुष संबंध सुधारने पर, सोच व नजरिया बदलने पर उचित ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह परिवार, स्कूल-कॉलेज और कार्य स्थल, हर स्तर पर किया जाना चाहिए। ऐसे प्रयास समझदारी व निरंतरता से होंगे, तभी समाज महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी विकृतियों से मुक्त हो सकेगा।

(लेखक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं)



### 3.4 Women in difficult Circumstances/ Women in distress (Surrogacy)

**सुरोगेसी से संबंधित नए बिल को पेश करेगी केंद्र सरकार**

## किराए पर कोख के गलत इस्तेमाल पर कसेगी नकेल

**कानून बनने से किराए पर कोख देने वाली गर्भवती महिला के स्वास्थ्य सुरक्षा को संरक्षित किया जा सकेगा**

**प्रियंवदा सहाय**

नई दिल्ली। किराए पर कोख का गलत इस्तेमाल करने वालों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार बजट सत्र में एक बिल को पेश करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल से संबंधित अपनी तैयारी पूरी कर ली है।

इसके कानून बनने से किराए पर कोख देने वाली गर्भवती महिला के स्वास्थ्य सुरक्षा को संरक्षित किया जा सकेगा। जबकि इससे पैदा हुए बच्चों के बाल अधिकारों को भी कानून में शामिल किया जाएगा। नए बिल से यह तय हो सकेगा कि एक

महिला कितनी दफा सुरोगेट मदर (किराए पर कोख देने वाली महिला) बन सकती है। इसके लिए महिला को न्यूनतम आयु, क्षतिपूर्ति राशि, सुविधा और दंड के बारे में कानूनी जानकारी हासिल की जा सकेगी। इसका लाभ सुरोगेट मदर को सीधे मिल सकेगा। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक वीएम कटोच ने बताया कि सुरोगेसी से संबंधित



दिशा निर्देश तो हैं लेकिन इस संबंध में अब तक कोई कानून नहीं बन सका था। इसलिए अब कानूनी रूप देकर भारत में सुरोगेसी से जुड़ी समस्याओं का निदान संभव हो सकेगा। बजट सत्र में इसे पेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। महत्वपूर्ण यह है कि इससे किराए पर कोख का इस्तेमाल कर मुकरने या गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को अनदेखा कर उल्लू सीधा करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी।

बच्चे के जन्म लेने के बाद किसी तरह की विकलांगता, शारीरिक या मानसिक विकार होने पर किराए के कोख का इस्तेमाल करने वाले दंपति पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। वहीं विदेशी दंपतियों को भी सुरोगेसी का लाभ लेने के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होगा। बताते चले कि इस बिल को शीत सत्र में ही पेश किया जाना था लेकिन यह संभव नहीं हो सका। माना जा रहा है कि गरीब राज्यों में सुरोगेसी को एक धंधे का रूप दे दिया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में विदेशी दंपति बहुत ज्यादा रकम अदा कर इसका लाभ उठा रहे हैं।

Amar Ujala (H), January 31, 2015, P. 1

(Surrogacy)



### 3.5 Women Safety/Support Services (Girls Safety Mobile Apps/Himmat Apps/Women Helpline-Railway/Nirbhaya Centre/One Stop Centre/Make Delhi Women Friendly/Eco Toilets for Women)

# Rajnath launches girls' safety mobile app

SNS & PTI  
New Delhi, 1 January

The Union Home Minister, Mr Rajnath Singh, today launched Himmat, a safety mobile application of Delhi Police that will help a woman in distress.

The app will basically cater to employed women who have smartphones and travel alone even late in the night.

Mr Singh also distributed pepper spray to women and awarded girls who had successfully completed Delhi Police self-defence programme. He lauded Delhi Police's efforts to use technology for better policing.

Explaining the work of the app, Delhi Police Commissioner B S Bassi said after downloading the app, a new user has to register with the Delhi Police website by sharing their name, mobile number and that of a minimum of two relatives/friends.

Once the user registers, she will get an SMS on the mobile number given at the time of registration with a download link and registration key. User has to enter this key in the registration window in the application. This is a one-time process.

"In case of an emergency, the user can send an alert by shaking her phone or by pressing the power button/soft button. As soon as the distress button is pressed, it will trigger a 30-second audio and video recording on the phone which will be relayed to the Police Control Room, and the victim will get a call back from the PCR," said Mr Bassi.

An SMS alert will also be sent to a minimum of five friends and relatives of the user and a status will be posted on his Facebook and Twitter timeline which will be connected to the App.

"All the details of the victim, including her location, time will be there in the SMS which will also be transmitted simultaneously by the Police Control Room to the Police Patrol cars in the area and the local Station House Officer (SHO) through the Delhi Police Cyber Highway," said Mr Bassi.

The police however cautioned people not to misuse the App. "Himmat application and service are to be used only when there is a threat to life and limb. Generating false SOS alerts/alarms, intentionally/unintentionally, will lead to cancellation of the registration after 3 such (false SOS alerts) incidents.

The user must report in an email/to support number, if in case they want to re-register and activate the facility. Support number is 011-23490378," said Mr Bassi.

"This app is currently available on Android platform, since a survey has revealed that most working women use Android based phone. In due course this facility will be extended to other operating systems as well," said a senior Delhi Police official.

Lauding the Delhi Police for launching the emergency call application for women in distress, Mr Rajnath Singh said the force has been training women of all ages in self-defence techniques and so far over 15,000 women have been imparted training.

The Home Minister said such self-defence training inculcates a sense of self-confidence in women. He said Indian people have been traditionally more sensitive to women's safety issues as women have been worshipped and respected from ancient times.

Mr Singh said the government is taking steps to increase police representation in policing. The representation of women in the Central Armed Police Forces (CAPFs) will rise significantly in the next few years, the Home Minister said. He said the Ministry of Home Affairs has targeted to increase women's representation in CAPFs from the lowly 1.5 percent to five percent in the next two to three years. The Union Home Minister said MHA has also sent an advisory to all State Governments to provide 33 per cent representation to women in the State Police Forces, he said.



The Statesman, January 2, 2015, P. 7  
(Girls Safety Mobile Apps)



# महिलाओं की सुरक्षा करेगा 'हिम्मत'

दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया ऐप, फोन हिलाते ही पहुंचेगा मैसेज

नयी दिल्ली, 1 जनवरी (एजेंसी)

महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने 'हिम्मत' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर चलने वाले इस ऐप के जरिये दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली पुलिस का 'स्वयं रक्षा' कार्यक्रम पूरा करने वाली लड़कियों को पुरस्कृत किया और आत्म रक्षा के लिए उन्हें मिर्च स्प्रे भी बांटे। दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने बताया कि इस ऐप को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट या गूगल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। किसी आपात स्थिति में फोन हिलाकर या पावर बटन



नयी दिल्ली में बृहस्पतिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह मोबाइल ऐप हिम्मत को लांच करते हुए। साथ में है दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी। - मानव रंजन कुंड



नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम में आये बच्चों से मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी अचानक रुककर इनसे मिले। - पेट

दबाकर पुलिस को मैसेज भेजा जा सकता है। पुलिस ने लोगों को आगाह किया कि वे इस ऐप का दुरुपयोग न करें। बिना वजह संदेश भेजने की 3 घटनाओं के बाद रजिस्ट्रेशन रद्द कर

दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी मॉडल पुलिस बल बनने और उदाहरण पेश करने की है। उन्होंने स्वीकार

किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में हाल में वृद्धि से भरोसे में कमी आयी है और दिल्ली पुलिस के साथ गृह मंत्रालय की छवि भी प्रभावित हुयी है।

Dainik Tribune (H) , January 2, 2015, P. 12  
(Himmat Apps)

## मोदी सरकार ने बढ़ाई महिलाओं की हिम्मत

महिला सुरक्षा के लिए 'हिम्मत ऐप' लांच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली, (ब्यूरो) : महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने एक और अहम कदम उठाते हुए हिम्मत नामक ऐप लॉन्च किया है। जिसका गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विज्ञान भवन में उद्घाटन किया।

गृहमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। उनकी सुरक्षा के लिए जो दिल्ली पुलिस ने अहम कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ हैं। उनका कहना है कि इसकी मदद से स्मार्टफोन यूजर्स पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर सकते हैं। इस ऐप में एक बटन भी दिया गया है। जिससे आप झटपट 30 सेकेंड का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी को आम जनता को दो तोहफे दिए पहला ये कि अगर सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को आप हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, तो इसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा। दूसरा महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया मोबाइल ऐप। इस मौके पर मौजूद महिलाओं को पेपर स्प्रे भी बांटे गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस ऐप की मदद से यूजर इमरजेंसी में जल्द से जल्द पुलिस से संपर्क कर सकता है। इस ऐप के डेटाबेस में यूजर को पांच दोस्तों या सगे-संबंधियों के नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जब कभी एसओएस कॉल की जाएगी। एक मैसेज अपने आप इन पांच नंबरों पर चला जाएगा। बताया जाता है कि इस तरह से न केवल पुलिस, बल्कि उपभोक्ता के सगे-संबंधी भी उसकी सहायता के लिए घटना स्थल पर पहुंच सकते हैं।

Punjab Kesari (H), January 2, 2015, P. 8  
(Himmat Apps)



**WOMEN SAFETY**

# Over 2,100 register with Delhi Police mobile app in two days

**Prawesh Lama**  
prawesh.lama@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** 'Himmat', the mobile-based women's safety app of Delhi Police, has elicited good response with almost 2,100 members registering within 48 hours of its launch on Thursday.

A recent HT-CFore survey found that almost 91 per cent of women found the city unsafe.

Over the last two days, the police headquarters had seen at least 50 women registering for the app every hour. Hundreds of them sent SOS messages through the app to check the police response.

Police said that they were putting in extra hours to ensure that responses were sent to all such messages and women had confidence in the application's efficiency. Till 4 pm on Saturday, the police had received almost 402 SOS messages from women who had sent audio and video clips through the application.

An official from the police control room (PCR) called back each caller on receiving their message, instructing them that they would have to follow the same process if the need arose in the future.

The app was launched by Union Home Minister Rajnath Singh and police commissioner BS Bassi on January 1. The application started functioning on 4 pm of the same day.

Police said that out of the 402 SOS calls, 295 calls were made from Delhi while 106 calls were from outside Delhi. One SOS call was made from outside the country.

At least 50 women are getting their numbers registered every hour. Presently, the application works only on Android-based phones.

Police expect the registrations to increase manifold, once the application is extended to other mobile operating systems in the coming days.

Special commissioner of police (operations) Sundari Nanda told Hindustan Times that the public response had been very good.

"We already have the 100 emergency number and the women's helpline. I am a mother and this kind of application does boost the confidence. With this application, women will feel much safer with help just a click away. We are monitoring the number of registrations every six hours," she said.

**FRIEND IN NEED: HOW THE APP WORKS**



Photo for representational purposes only. VIJAYANAND GUPTA/FILE

- Download the app from Google Play.
- The app can be downloaded from the Delhi Police website.
- Registration—provide 5 emergency contact numbers.
- In case of emergency, open the app and either shake the phone or press the power button on the phone a few times. This will alert the PCR.
- The phone will capture video/ audio evidence through the application. This will be used as evidence.
- The police can track the phone once the application has been activated.

Hindustan Times, January 4, 2015, P. 3

# महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'हिम्मत एप'

**नई दिल्ली**  
bhopal@patrika.com

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े दिल्ली पुलिस के पहले एकीकृत मोबाइल एप 'हिम्मत' की शुरुआत गुरुवार से हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लांच किया। सिंह ने इस मौके पर महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर के विज्ञापन को भी जारी किया।

दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग, दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी की मौजूदगी में खास एप को लांच करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की आत्मरक्षा के सुरक्षाने में लगी है और अभी तक 15 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अगले दो-तीन वर्ष में केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी पांच फीसदी तक हो जाएगी। अब महिलाएं पुलिस के व्हाट्स एप पर भी वीडियो अपलोड कर शिकायतें कर सकेंगी।

**नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा एप**

दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि यह एप सीधे पुलिस नियंत्रण कक्ष से जुड़ा है और उसे इस तरह की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इसके बाद फोन की लोकेशन से घटना की जगह पर पहुंचा जा सकेगा। पुलिस नियंत्रण कक्ष अपनी इस प्रणाली को हर दस सेकंड में अपडेट करेगा। महिलाओं के लिए यह एप खासा उपयोगी होगा।

**यह होगी सहूलियत**

- देर रात दफ्तर से घर जाने वाली महिलाओं को खास सुविधा
- स्मार्ट फोन पर एप अपलोड कर किसी भी वक्त खतरा महसूस होने पर पुलिस को दी जा सकेगी सूचना
- मोबाइल फोन के लोकेशन पर पुलिस पहुंचेगी घटनास्थल पर
- नेकटतम पांच मित्रों या रिश्तेदारों तक पहुंचेगा एसएमएस भी
- रैंडम फोन धारकों को होगी आसानी एप के उपयोग में

दिल्ली पुलिस की वेबसाइट - [www.delhipolice.nic.in](http://www.delhipolice.nic.in) व गूगल प्ले स्टोर से फ्रीड्रूक अपलोड किया जा सकेगा हिम्मत एप

इस एप से महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी। एप को मोबाइल पर डाउनलोड करके मुसीबत के समय पुलिस को एलर्ट किया जा सकेगा। मोबाइल फोन को विशेष तरीके से हिलाने या पावर बटन को दो बार दबाने से पुलिस को पता चल जाएगा कि इस फोन को इस्तेमाल करने वाला मुसीबत में फंसा है।

बीएस बस्सी, पुलिस आयुक्त, दिल्ली

**केंद्र का खास निर्देश**

- पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत करने का राज्यो को केंद्र का निर्देश
- 1.22 प्रतिशत ही महिलाएं हैं केंद्रीय पुलिस बल में
- 5 प्रतिशत महिला भागीदारी करने की तैयारी है अगले दो-चार वर्षों में
- 11,000 महिलाओं ने वर्ष 2014 में 100 नंबर पर आपातकाल में किया फोन
- 49,717 महिलाओं ने 1096 नंबर पर किया फोन
- 1410 महिलाओं ने 1091 नंबर पर किया काल

Rajasthan Patrika (H), January 2, 2015, P. 1  
(Himmat Apps)



## Delhi Police plans to set up server system for women's safety

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, 4 January

Delhi Police is mulling setting up a system to enable women travelling in cabs or autorickshaws share registration number plate pictures on a police server to ensure that the driver behaves responsibly and the vehicle is traced easily in case of any untoward incident.

Delhi Police Commissioner B S Bassi has asked Special Commissioner (Operations) Sundari Nanda to explore the possibility to set up such a system.

"We can set up such a system where a woman before boarding an auto or cab can click a picture of its registration number plate on her phone and send it to us.



The photo can be deleted from the system after 72 hours if no complaint about the journey is made," Bassi said. Police believes that if the driver of the cab or auto will know that a photograph of his vehicle has been sent to police, he will be more responsible and issues like overcharging and misbehaving will not happen.

There have been incidents in the past where drivers of autos and cabs have not just misbehaved but even sexually assaulted woman commuters.

An Uber cab driver, identified

as Shiv Kumar Yadav, had allegedly raped a 27-year-old finance executive in his taxi which she had hired to return to her home in north Delhi's Inderlok area on December 5.

The top brass of Delhi Police wants to extensively use technological solutions to make the city safer, especially for women. Home Minister Rajnath Singh had launched 'Himmat', a mobile-app of Delhi Police on January 1 to enhance safety of women in the national capital.

"The woman user can download the app and raise SOS alert by either shaking the phone, or by using button switch installed in audio jack or by using the mobile soft button in the application. Alerts will then go to her

guardians as well as the police control room. Once the woman raises an alert, her location, video and audio of 30 seconds are shared with the Central Police Control Room," Bassi said.

The control room will get the alert and then the dispatcher will guide PCR van to attend to the caller. The app will keep giving 10 seconds update on the dynamic location of the woman in distress. Women can download it on Android smartphones and use it after registering with the Delhi Police's website. The app will soon be launched on iOS operating system for iPhone users.

All police stations of Delhi have been mapped on this app. This is being integrated with the existing PA-100 system, he added

The Statesman, January 5, 2015, P. 2

## Your licence plate can rat you out

Delhi Police now plans to set up a server for women's safety

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

After launching its app *Himmat* for women of the national Capital, Delhi Police is now mulling setting up a system to enable women travelling in cabs or autorickshaws to share registration numberplate pictures on a police server to ensure that the driver behaves responsibly and the vehicle is traced easily in case of any untoward incident.

Delhi Police Commissioner BS Bassi has asked Special Commissioner (Operations) Sundari Nanda to explore the possibility of setting up such a system as that would help women during their daily travels.

"We can set up such a system where a woman before boarding an auto or cab can



click a picture of its registration numberplate on her phone and send it to us. The photo can be deleted from the system after 72 hours if no complaint about the journey is made," the police chief added.

Delhi Police believes that if the driver of the cab or auto will know that a photograph of his vehicle has been sent to the police control room, he

will be more responsible and issues like overcharging and misbehaving will not happen.

There have been incidents in the past where drivers of autos and cabs have not just misbehaved but even sexually assaulted woman commuters.

An Uber cab driver, identified as Shiv Kumar Yadav, had allegedly raped a 27-year-old finance executive in his taxi,

We can set up such a system where a woman before boarding an auto or cab can click a picture of its registration numberplate on her phone and send it to us. The photo can be deleted from the system after 72 hours if no complaint about the journey is made

**BS BASSI**

which she had hired to return to her home in North Delhi's Inderlok area on December 5.

The top brass of Delhi Police wants to extensively use technological solutions to make the city safer, especially for women.

Home Minister Rajnath Singh had launched *Himmat*, a mobile app of Delhi Police on January 1 to enhance

safety of women in the national Capital.

"The woman user can download the app and raise SOS alert by either shaking the phone, or by using button switch installed in audio jack or by using the mobile soft button in the application. Alerts will then go to her guardians as well as the police control room. Once the woman raises an alert, her location, video and audio of 30 seconds are shared with the Central Police Control Room," Bassi said.

The control room will get the alert and then the dispatcher will guide PCR van to attend to the caller. The app will keep giving 10 seconds update on the dynamic location of the woman in distress.

Women can download it on Android smartphones and use it after registering with the Delhi Police's website.

The app will soon be launched on iOS operating system for iPhone users.

All police stations of Delhi have been mapped on this app. This is being integrated with the existing PA-100 system, he added.

The Pioneer, January 5, 2015, P. 2



**जीआरपी को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार**

## महिला यात्रियों की सुरक्षा होगी पुख्ता

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) बल की कमान अपने हाथों में लेने की योजना बना रही है। वर्तमान में यह बल राज्य पुलिस बल का हिस्सा है। सरकार रेल यात्रियों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से जीआरपी का नियंत्रण रेल मंत्रालय के आधीन करना चाहती है।

रेलमंत्री सुरेश प्रभु गुरुवार को यहां सभी राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधिकारियों के साथ चलती ट्रेनों में यात्रियों व महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध पर चर्चा की जाएगी। ट्रेनों में लूट, डैकती, चोरी, दुष्कर्म, छेड़छाड़, जहरखुरानी व हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर रोकथाम के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि रेल मंत्रालय ने

**स्थल सिविलिटी फोर्स गठन पर चर्चा संभव**

महिला यात्रियों की सुरक्षा रेलमंत्री सुरेश प्रभु की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। यही कारण है कि पिछले साल दिसंबर माह में रेलवे में नए एकीकृत विशेष सुरक्षा बल (स्थल सिविलिटी फोर्स) के गठन की घोषणा की गई थी। प्रभु सुरक्षा के मुद्दे पर कई मीटिंग्स पर एक साथ काम कर रहे हैं, यह ठसी का हिस्सा है। गुरुवार की बैठक में स्थल सिविलिटी फोर्स के गठन पर चर्चा हो सकती है।

**रेलवे फोरेंसिक लैब**

रेलमंत्री ट्रेनों में अपराध करने वालों की पहचान के लिए रेलवे फोरेंसिक लैब बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। रेलवे की फोरेंसिक लैब को गृह मंत्रालय और राज्यों की फोरेंसिक लैब से जोड़ा जाएगा। इससे रेल मंत्रालय के पास विभिन्न राज्यों के अपराधियों का एक विस्तृत डाटा बैंक बन जाएगा।

तीन साल पहले आरपीएफ संशोधन विधेयक प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें आरपीएफ को अधिक कानूनी अधिकार मिलने का प्रावधान है। लेकिन कानून व्यवस्था को राज्यों का मामला बताकर 17 राज्यों ने इसका

**तीन स्तरीय सुरक्षा अडचन**

वर्तमान में रेलवे में तीन स्तरीय सुरक्षा तंत्र यात्रियों की मदद में अडचन है। आरपीएफ रेल संपत्ति की निगरानी व सुरक्षा करती है। यात्रियों के अपराध के मामले में वह जीआरपी की मदद करने तक सीमित है। पुलिस, रेल लाइन सुरंग आदि की सुरक्षा स्थानीय जिला पुलिस की होती है।

विरोध किया है। इसलिए रेलमंत्री ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से बातचीत कर समस्या का हल निकालने का प्रयास शुरू किया है। इसके बाद विरोध कर रहे मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता की जाएगी।

Hindustan (H), January 15, 2015, P. 17



## Railways to launch all-India helpline for women in distress

In its efforts to provide the best of security to women passengers, the Indian Railways is now ready to launch an all-India helpline for women passengers in distress. The helpline number would urgently coordinate with the nearest Railway Station or concerned authorities to provide necessary support to the distressed traveler.

A top Railway official said that helpline to be introduced next month will send an alert to nearest Railway Station for assistance. Security personnel are also being trained as part of improving behavioral issues on dealing with the fairer sex. All these are part of the ₹40-crore Railways integrated security system plan that will cover 40 locations all over India.

The Railways have already provided escorts in ladies compartments.

Amongst the various measures for safe journey for women, the Railways has also launched a mobile application in Mumbai which ensures that women in distress can send an alert to the nearest Railway Station.

"The Railways was deploying more number of lady constables in women's compartments. In future, more and more CCTV will be installed in train coaches to increase safety of women as part of Railways' objective to provide better network and more basic amenities," said a senior Railway official.

Last week, as part of ensuring better security to the passengers, the Centre proposed a series of measures to provide top-notch security cover to train passengers including a consensus with the State Governments to amend the RPF Act and hand over the entire security to the railways elite security force.

The new proposals also include online crime registrations and securing seats for ex-Army men in all train coaches. The Railways is also emphasising the need to make concerted efforts to organise training on behavioral issues to the RPF personnel.

The Pioneer, January 19, 2015, P. 5

(Women Helpline-Railway)

## महिलाओं के लिये खुलेंगे वन-स्टाप सेंटर : पांचाल

फरीदाबाद 23 जनवरी (हप्र)

हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कमलेश पांचाल ने कहा है कि आयोग के सुझाव पर सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर पीड़ित महिलाओं की तुरंत सहायताार्थ वन-स्टाप सेंटर (निर्भया सेंटर) खोलने का निर्णय लिया गया है और इनकी शुरुआत जिला पंचकुला में इस प्रकार का सेंटर खोल कर की जा चुकी है।

श्रीमती पांचाल आज यहां सेक्टर-21 सी स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के पत्रकारों से रूबरू हो रही थी। उनके साथ पुलिस आयुक्त सुभाष यादव और उप पुलिस आयुक्त सैन्ट्रल व जिला




फरीदाबाद में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कमलेश पांचाल महिलाओं की समस्याएं सुनते। साथ ही पुलिस आयुक्त सुभाष यादव व डीसीपी फूल कुमार।-शिव मुख्यालय फूल कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित थे। श्रीमती पांचाल ने आयोग की ओर से महिला उत्पीड़न की विभिन्न प्रकार की धाराओं से जुड़े व निर्धारित कुल 17 मामलों पर पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा भी की। श्रीमती पांचाल ने कहा कि उक्त प्रकार के सेंटर प्रत्येक जिले के सिविल अस्पताल या फिर पुलिस आयुक्त अथवा अधीक्षक कार्यालय के नजदीक ही स्थापित किए जाने हैं। इन सेंटरों पर डॉक्टर के नेतृत्व में मेडिकल टीम मौजूद रहेंगी।

Dainik Tribune (H) , January 20, 2015, P. 7

(Nirbhaya Centre/One Stop Centre)





The Asian Age, January 25, 2015, P. 14  
(Safety of Women)



The Statesman, January 26, 2015, P. 4  
(Make Delhi Women Friendly)





Deccan Herald, January 28, 2015, P. 2



The Pioneer, January 29, 2015, P. 3



### 3.6 Women -other issues (National Women's Day)

## महिलाओं के लिए बनाए गए इको टॉयलेट

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की शौचालय संबंधी समस्या को दूर करने के लिए विशेष तैयारी कर ली गई है। इसके लिए दो दर्जन से अधिक इको टॉयलेट बनाए गए हैं। इन्हें पहले चरण में कर्नाट प्लेस, सरोजनी नगर, लाजपत नगर और चांदनी चौक में रखा जाएगा। सबसे अहम यह है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद आसान होगा। इस सेवा को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू करने की तैयारी तेजी से चल रही है। एनडीएमसी से मिली जानकारी के तहत महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय की समस्या को देखते हुए इको टॉयलेट बनाए गए हैं। इन्हें केवल यूरिनरी



महिलाओं की सुविधा के लिए बनाए गए इको टॉयलेट। • हिन्दुस्तान

सेवा के लिए प्रयोग किया जाएगा। बंगलुरु की एक निजी कंपनी की मदद से फिलहाल 15 इको टॉयलेट बनाए गए हैं। इन्हें दिल्ली की ऐसी जगहों पर रखा जाएगा, जहां महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय की सबसे अधिक परेशानी होती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू टॉयलेट सेवा को पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका जैविक कचरे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। मालूम हो कि दक्षिण भारत में कई सरकारी योजनाओं के तहत इको टॉयलेट से खाद बनाने का काम किया जा रहा है, जबकि यूरिनरी टॉयलेट की मदद से यूरिया बनाया जाएगा। एमसीडी प्रवक्ता डॉ. योगेंद्र सिंह मान ने बताया कि इकोयूरिनरी के तहत कुछ हद तक महिलाओं की समस्या को दूर किया जा सकेगा। हालांकि दूसरे चरण में पोर्टेबल टॉयलेट की संख्या बढ़ाई जाएगी।

यूरीन में मौजूद यूरिया और नाइट्रोजन का प्रयोग खाद के लिए किया जा सकता है। इस मकसद से यूरीन को सीवरेज की जगह इको टॉयलेट में पहले एकत्र होने दिया जाता है। इस दौरान फलश विधि में वैक्यूम का प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी की भी जरूरत नहीं होती। इसके लिए टॉयलेट को जमीन से कुछ इंच की ऊंचाई पर बनाया जाता है। यूरीन को एक कर उसे खाद का रूप दिया जाता है। हालांकि अगले चरण में डिजाइन के आधार पर इको टॉयलेट को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी।

Hindustan (H), January 5, 2015, P. 5  
(Eco Toilets for Women)


## महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता करेगी छह इंच की 'भवानी'

**सुविधा**  
नई दिल्ली | निधि माट

महिलाओं की सुरक्षा अब एक छह इंच की छड़ी करेगी। इसे 'समिधा भवानी यंत्र' नाम दिया गया है। बैग में आई लाइनर जितनी जगह घेरने वाली इस छड़ी का मौका पड़ने पर चार तरह से प्रयोग किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष अभियान 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के तहत इस यंत्र को बनाने के लिए जापान और जर्मनी की मार्शल आर्ट एसोसिएशन का सहारा लिया गया है। महिला दिवस से पहले इसे आम महिलाओं तक पहुंचा दिया जाएगा। पुणे के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. पवन कोहली ने बताया कि छह इंच के इस यंत्र को इस्तेमाल करना बेहद आसान होगा। सिर्फ बैटरी रिचार्ज करके महिलाओं को इसे अपने साथ रखना होगा। 'भवानी यंत्र' बनाने की परिकल्पना जापान में बचाव के लिए अपनाई गई समुदाई आर्ट से ली गई है। पहली बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार इस यंत्र को बनाने से पहले छह प्रमुख शहरों की महिलाओं से राय जुटाई गई और दस हजार से अधिक महिलाओं की सुरक्षा संबंधी सोच को एक ही यंत्र में शामिल करने की कोशिश की गई है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी प्रमुख क्षेत्र की महिलाओं को इसे इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मालूम हो कि यंत्र का पेटेंट भारतीय है और भारतीय कंपनी द्वारा ही तैयार किया जाएगा। फिलहाल इसे सिने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लॉन्च करेगी।

**क्या-क्या करेगी 'समिधा भवानी'**

- छह इंच की सिलेंड्रिकल रॉड के किनारों पर लिथेन रहित इलेक्ट्रॉनिक शॉक की व्यवस्था है। खतरे की स्थिति में महिला को वह यंत्र सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को टच कराना होगा। त्वचा के संपर्क से ही रॉड से करंट पैदा होगा
- आपात स्थिति में छह इंच की छड़ी डेढ़ से दो फीट के डंडे में भी तब्दील हो सकती है



दार्च 'समिधा भवानी यंत्र' की मूल लम्बाई छह इंच है बटन दवाने पर यह छड़ी दो फीट के डंडे में तब्दील हो सकती है

- इसी छड़ी में पेपर स्प्रे की सुविधा होगी। अब तक के पेपर स्प्रे एक व्यक्ति के लिए होते हैं, जबकि 'भवानी यंत्र' में इतनी क्षमता का पेपर स्प्रे रखा गया है कि वह एक साथ छह से दस लोगों की आंखों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए काफी है। इसे 12 फीट की दूरी से भी प्रयोग किया जा सकता है
- सबसे अहम इस एक छड़ी में ही जीपीआरएस और टेलीकम्यूनिकेशन की भी सुविधा होगी। युवती अपनी सुविधा के आधार पर पांच नंबर इसमें दर्ज कर सकेगी। खतरा होने पर केवल एक बटन दवाने पर परिजन के पास न केवल फोन पहुंच जाएगा, बल्कि यंत्र सामने वाले व्यक्ति की फोटो भी खींचकर भेज देगा

**मुफ्त मिलेगा यंत्र**

स्थानीय पुलिस स्टेशन की मदद से 15 से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 'समिधा भवानी यंत्र' निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को इस बात की भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह इस बात पर नजर रखें कि किस क्षेत्र से सबसे अधिक इस यंत्र की मांग हुई। इससे पुलिस महिलाओं के लिहाज से सबसे असुरक्षित क्षेत्र को भी पहचान कर सकेगी।

Hindustan (H), January 29, 2015, P. 3



कन्या भ्रूण हत्याओं के परिणामस्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में लिंग असंतुलन काफी बढ़ा है। इस वजह से इस क्षेत्र के लोग दूसरे राज्यों से दुल्हनें खरीद कर शादी करने पर मजबूर हैं। नतीजतन इन क्षेत्रों में दुल्हनों की खरीद-फरोख्त का व्यापार धड़ल्ले से पनप रहा है। दानिश रजा की रिपोर्ट

# दुल्हनों का बाजार

कमला की दोमोजिली इमारत की तरफ उंगली से इशारा करते हुए एक स्थानीय महिला फुसफुसाती है, 'उसे यह मत बताना कि मैंने उसके घर के बारे में आपको बताया है।' कमला हरियाणा के जौंदजिले की एक पाँच कोलनी में रहती है। अपने पड़ोसियों में वह इस बात के लिए कुख्यात है कि स्थानीय क्षेत्र के कुंवारा के लिए वह अलग-अलग राज्यों से दुल्हन खरीद कर लाती है। दिखने में मोटी और नाटी कमला हालाँकि विनम्र है, लेकिन सावधान रहती है। बाँगनी सलवार-कमीज और काले ओवरकोट पहने कमला मुझ से बात करने से पहले अपने परिवार के सदस्यों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। बातचीत शुरू करने से पहले वह मुझसे पूछताछ करती है, 'आपसे किसने कहा कि मैं इस तरह की शादियाँ करवाती हूँ?'

घुओँ का व्यापार उत्तर पश्चिम भारत में पनपता जा रहा है। लिंग अनुपात का बढ़ता अंतर और प्रति परिवार खेती लायक जमीन में आ रही कमी के कारण इस क्षेत्र के पुरुषों को बड़ी मुश्किल से अपने अनुसार रिश्ता मिलता है। विकल्प के रूप में वे दूसरे राज्यों की तरफ देखने को मजबूर हैं और उनको इस माँग की पूर्ति कमला जैसी नेटवर्क बनाए रखने वाली महिलाएँ, ब्रोकरों और एजेंटों के जरिये दूसरे राज्यों से दुल्हन लाकर करती हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेस एसोसिएशन की राज्य संयुक्त सचिव सविता बेरवाल कहती हैं, 'यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है। इस कारण उनका विवाह नहीं होता।' यूनिसेफ के अनुसार, 1991 से भारत के 80 फीसदी जिलों में लिंगानुपात का अंतर

बढ़ता जा रहा है। एक तरफ लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या घट रही है, वहीं एक अनुमान के मुताबिक अनेक चिकित्सा पेशेवरों द्वारा किया जा रहा भ्रूण लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण गर्भपात का व्यापार 1000 करोड़ तक पहुँच गया है।

हालिया हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ओपी घनखंड ने जौंद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि वे सत्ता में आ जाते हैं तो जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वह उनके लिए बिहार से दुल्हन लाएंगे।

अपने बेटों के लिए पत्नियों की माँग को लेकर ब्रोकर के पास जाने की प्रवृत्ति, ट्रेफिकर्स के काम करने का ढंग तथा पैसों के खेल को समझने के लिए हम हरियाणा के जौंद और हिसार के चार ट्रेफिकर्स से मिले। इनमें से कुछ पंजीकृत मैरिज ब्यूरो की आड़ में यह काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर का कारोबार जुबानी ही चल रहा है। मुख्य रूप से उनके स्रोत क्षेत्र असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और नेपाल हैं। यह इन जगहों का दौरा नियमित रूप से करते रहते हैं, पर अधिकतर सौदा फोन पर होता है। वे लड़की की उम्र और रूप-रंग के अनुसार 50 हजार से दो लाख रुपये की माँग करते हैं। स्रोत क्षेत्र और गंतव्य स्थान के ट्रेफिकर्स आपस में पैसों का बंटवारा कर लेते हैं। यह राशि जोखिम के अनुसार तय होती है कि खरीदार लड़की से शादी करना चाहता है या फिर उसे बेच देना चाहता है।

(कथित ट्रेफिकर्स के नाम बदल दिए गए हैं)

यूनिसेफ के अनुसार, 1991 से भारत के 80 फीसदी जिलों में लड़कों के मुकबलें लड़कियों की संख्या घटती जा रही है।

Hindustan (H), January 1, 2015, P. 11

## 'Declare Phule's wife b'day National Women's Day'

NEW DELHI, 3 JAN: A dalit women's group today demanded that day of education pioneer Savitribai Phule (in photo), wife of iconic social reformer Mahatma Jyotiba Phule, be declared as National Women's Day.

At event organised here to commemorate her 185th birth anniversary activists of the National Women Dalit Movement said that there was no better way to pay tribute to the 19th century social reformer.

Savitribai joined her husband in opening the first school for girls in Maharashtra in 19th-century Pune taking on a hostile and orthodox society where women's education was taboo.

Lauding Phule's role in pioneering women's education in the country, ac-



tivist Bharulata Kamble said, "There is no better way to pay tribute to Savitribai Phule than celebrating her birthday as National Women's Day. We must not forget how she took on the formidable forces of caste and patriarchy apart from playing a stellar role in women's education."

Kamble, also a documentary filmmaker, was felicitated during the event along with Rahi Bhide, Editor of Maharashtra-based media group Punyanagari for their contribution in uplifting of the Dalit community.

Rajni Tilak, founder of the National Women's Day campaign also asked for the inclusion of a chapter on Savitribai Phule in the teacher training curriculum "in order to inspire teachers".

The Statesman, January 4, 2015, P. 3  
(National Women's Day)



## 4. Demography and Vital Statistics

4.1 Census Data/Evaluation/Survey Reports (DCPCR Report/UN Report/UNICEF Report-Malnutrition/Data-State's Child Sex Ratio/NCRB Data- Cybercrime)

**MOST ACCUSED FIRST TIME OFFENDERS, DROPOUTS**  
**90,000 cases of street crime in 2014: Report**

**abhay singh**

NEW DELHI, 3 JAN: Over 90,000 people became victims of street crimes in 2014, according to latest police statistics.

The statistics reveal that last year 96,922 cases were registered as compared to 33,997 cases reported in 2013 — a whopping 185 per cent jump. Altogether 12,655 accused were arrested.

Cases of robbery increased 458.77 per cent in 2014 compared to the previous year. Last year 6180 cases of robbery were reported, an increase of 5074 cases from 2013.

Official data of Delhi police puts the cases of snatching in 2014 at 6944 and 1803 (29 per cent) cases were solved with the arrest of 2556 persons.

Interestingly 90.85 per cent of the arrested accused were first time offenders and 61.47 per cent of them were illiterate or school drop-outs.

Besides witnessing an upward trend in cases of robbery and snatching, the police also reported a sharp rise in cases of burglary and theft.

Police claimed that 78 cases of dacoity were reported out of which 65 cases were solved with the arrest of 260 persons. Dacoity increased to 151.66 per cent compared to 2013.

Altogether 22,223 cases of motor vehicle theft were reported till 15 December 2014. In 2013, 13,895 cases were registered.

Among the stolen vehicles, 15,237 were two wheelers, there were 6019 cars and 994 other vehicles. Only 2322 (10.43 per cent) vehicles were recovered and 2925 auto lifters were arrested.

According to police, the acute shortage of parking space, the general practice of parking on the roadside and unwillingness of a majority of motor-vehicle owners to install anti-auto theft equipment are major contributing factors.

Also, in the past one year, the city has witnessed a staggering surge in registration of criminal cases.

Delhi Police hopes that the presence of around 900 police control room (PCR) vehicles on the streets acts as a deterrent for criminals.

Last year, 84,41,300 PCR calls were made in which 1425777 were enquiry calls. In 2216446 cases PCR vans have attended calls on the spot out of which 59038 were calls related to motor vehicle accidents.

Around 12552 PCR calls were made by women, 1747 by senior citizens, 465 calls were made under eyes and ears scheme and students made 2742 calls to the police.

The Statesman, January 4, 2015, P.2  
(Report- Street Crime)



# Learning outcomes poor, says ASER

Pheroze L. Vincent

**NEW DELHI:** Even as the reading levels of schoolchildren have stagnated throughout the country, Tamil Nadu has seen sharp improvements.

The Annual Status of Education Report (ASER), 2014, says only an average 48.1 per cent of Class V children across India can read a Class II-level text.

While this is an improvement from the 47 per cent in 2013, the percentage shot up to 46.9 from 31.9 in Tamil Nadu.

Though the reading levels in Himachal Pradesh (75.2 per cent) and Haryana (68.1 per cent) are higher, they do not differ much from 2013. The survey facilitated by Pratham, a non-governmental organisation, says Tamil Nadu has made the highest gains.

In Assam, Jharkhand and Madhya Pradesh, less than 35 per cent of the Class V children surveyed can read a Class II-level text.

The survey covered 5.7

## PROGRESS CARD


ASER finds out if children in rural India go to school, can read text and do basic arithmetic

**ENROLMENT**  
% of children enrolled in school at 96% or above for six years in a row  
**India close to universal enrolment for 6-14 age group**


**COMPREHENSION IN ENGLISH**  
Clear decline in ability to read English in upper primary grades



**READING** % of children who can read a Std II text remains low



**ARITHMETIC** % of Std VIII students who can do division drops



lakh children aged three to 16 from over 34,000 households between September and December across 16,497 villages in 577 districts.

### More teachers

K. Devarajan, Director of School Education, Tamil

Nadu, during 2012 and 2013, said targeted teaching with adequate recruitments had resulted in the improvements in the State.

"In the past two years, 40,000 teachers have been recruited and teachers focus on weaker students. This,

along with the incentives and teaching tools, has made a difference," he told *The Hindu*.

"The survey does not collect data on reasons for the changes. However, I can say that in the past two years, Tamil Nadu focussed a lot on improving the basics in Tamil and Maths in Classes I and II. It may also be the case that the activity-based learning in government schools is giving results now," ASER head Rukmini Banerji told *The Hindu*.

The need of the hour, she said, is to fix learning goals and have remedial classes for children to catch up.

"Several States have programmes to teach children, irrespective of the class they are in, basics that they have not yet understood. That is the way forward. Sticking to the syllabus will not help those who are left behind," she said.

T.N. SCORES IN MATHS TOO  
PAGE 10

## FROM PAGE ONE

### T.N. scores in Maths too

Pheroze L. Vincent

**NEW DELHI:** In Maths, the achievements made by Tamil Nadu schoolchildren are even greater than those in reading, says the Annual Status of Education Report (ASER), 2014.

The national average of Class V children who can do division increased from 25.6 per cent to 26.1 per cent between 2013 and 2014. In Tamil Nadu, it leapt from 14 per cent to 25.8 per cent during the period.

Across the country, the

ability of Class V children to divide a three-digit number by a single digit fell from 36.2 per cent in 2010 to 26.1 per cent in 2014.

Learning outcomes stagnated in reading and arithmetic since 2013. In Class II, only one out of four children can read a Class II text and even in Class VIII, one-fourth still cannot read. "We are at a stage where it is not getting any worse," said Madhav Chavan, chief executive officer of Pratham, a non-governmental organisation.

The Hindu, January 14, 2015, P. 1 & 10  
(Annual Status of Education Report-2014)



# Even 9-year-olds are taking drugs: Report

## Most Start Out Of Curiosity, Peer Pressure

Ambika.Pandit  
@timesgroup.com

New Delhi: Published close on the heels of Prime Minister Narendra Modi's call to fight drug abuse and focus on ex-addicts' rehabilitation, a special report by Delhi Commission for Protection of Child Rights has highlighted how children as young as nine years are falling victim to substance abuse.

Titled 'mental health care of children', the DCPCR special report is a first-of-its-kind compilation by the government of data drawn from various studies and surveys on mental health problems. It delivers a broad framework to effectively address the mental health needs of children in distress. Abuse of drugs is increasing among children in India while the age of onset is decreasing, says the report.

Users mostly begin the habit with consumption of licit or authorized substances such as tobacco and alcohol, also known as 'gateway substances'.


DCPCR notes "use of substances is high in some categories of population such as street children". "Substance use rates of 40-80% are reported in various small scale studies on street children carried out in various cities—Delhi, Bangalore, Ahmedabad, Kolkata, Mumbai—and railway platforms from Delhi to Bhopal in the last 10-15 years," the report states. Most street children using substances are school dropouts "who usually work up to eight hours a day to support their drug habit".

Data from National Family Health Survey 2006 reports alcohol use among young people—11% boys and 1% girls (aged 15-19 years)—in the general population. Adolescents constitute only 5% of substance users seeking treatment as most do so only after about five years of drug use. There is lack of availability of systematic national statistics on substance use among children

### VULNERABLE CHILDHOOD

DCPCR's special report on mental healthcare of children

|   |  |  |
|---|--|--|
| Children comprise 40% of India's total population | Census 2011: Of 20 million living in Delhi two million below 6 years | Most studies report prevalence of mental illness in 20% of child & adolescent population |
|---|--|--|



#### SUBSTANCE ABUSE

- Tobacco:** cigarette, bidi, gutka
- Alcohol:** Beer, whisky, rum, vodka
- Cannabis:** Bhang, ganja, charas
- Inhalants:** ink eraser fluid, glue, petrol
- Opioids:** Opium, heroin, pharmaceutical opioids (Propoxyphene, Pentazocine, Buprenorphine)
- Sedatives:** Diazepam, Nitrazepam, Alprazolam

#### STUDIES WARN OF GROWING RISK

- > Substance use rates of 40-80% reported in various studies on street children in different metro cities
- > Mean age of onset is 9 years. Even younger children are victims
- > Tobacco use reported in 50-75% street children, alcohol and inhalant use in 25-50% and cannabis in 15-25%
- > Most street children using substances are school dropouts. They work up to 8 hours daily to fund drug habit

and adolescents save a few brief reports on local and regional use, the DCPCR report says.

Curiosity is the main reason behind starting substance use followed by peer pressure and depression and stress, hence early identification is critical. There is a dearth of guidelines for school authorities for handling drug use among adolescents. "Substance use disorders are common among

#### SHOCKING FINDS

school-going children. The most common reaction of schools; denial, informing parents, punishment, suspension from school and, in some cases, counselling or referral for treatment," it is stated.

It is suggested that schools must ensure there is no substance use in and around their premises. No student should be allowed to leave during school hours.

The child should be guided to avail counselling and treatment.

Explaining that the DCPCR report is an attempt to address the varying mental health care needs of children facing challenges including substance abuse, physical and sexual abuse and disability, the Commission's chairperson Arun Mathur said, "The report has analyzed the mental health problems of children in different settings besides the roles of the family, professional services and other caregivers."

To put together this report, a DCPCR committee chaired by Dr Sarita Sarangi drew upon the expertise of renowned specialists from All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS), IHBAS, RML, the state's women and child development department and voluntary organization specializing in mental health, Manas Foundation.

The Times of India, January 19, 2015, P. 5  
(DCPCR Report)



# Schools score on basic amenities, RTE Act implementation: Report

TIMES NEWS NETWORK

**SCHOOLS GET PASS MARKS IN PROVIDING FACILITIES**

**Annual Status of Education Report (Rural)**

**RTE-mandated pupil-teacher ratios**

|      |       |
|------|-------|
| 2013 | 45.3% |
| 2014 | 49.3% |

**Drinking water provision and availability**

|      |       |
|------|-------|
| 2010 | 72.7% |
| 2014 | 75.6% |

**Girls' toilets available (on day of the visit)**

|      |       |
|------|-------|
| 2013 | 62.6% |
| 2014 | 65.2% |

**Girls' toilets useable (on day of the visit)**

|      |       |
|------|-------|
| 2013 | 53.3% |
| 2014 | 55.7% |

**Availability of computers in schools visited**

|             |       |      |       |
|-------------|-------|------|-------|
| 2010        | 15.8% | 2014 | 19.6% |
| Kerala      | 89.8% |      |       |
| Gujarat     | 81.3% |      |       |
| Tamil Nadu  | 62.4% |      |       |
| Maharashtra | 46.3% |      |       |

**Schools with libraries**

|      |       |
|------|-------|
| 2010 | 62.6% |
| 2014 | 65.2% |

**25,000 UK students to come to India for studies in 5 yrs**

Expanding the Indo-British partnership in education sector for mutual benefits, about 25,000 students from the United Kingdom will come to study in Indian universities over the next five years, Andrew Soper, Minister Counsellor in the British High Commission at New Delhi said on Wednesday. The initiative will be undertaken by the British Council in a project called Generation UK.

Asked as to how the British students will benefit by studying in Indian academic institutions when they have world class facilities back home, he said, there are a number of good educational institutions in India too which can help the students from his country to excel in their chosen field.

**In Bihar, Uttar Pradesh, Gujarat and Himachal Pradesh, drinking water was available in more than 85% of schools**

**In four states, more than 75% of schools visited had usable girls' toilets. These states are Gujarat, Kerala, Himachal Pradesh and Haryana**

and Haryana - had more than 75% of schools with useable girls' toilets.

But only 19.6% schools have computers in 2014 as compared to 15.8% in 2010.

States that stand out include Gujarat (81.3%), Kerala (89.8%), Maharashtra (46.3%) and Tamil Nadu (62.4%).

More and more schools are having libraries - up from 62.6% in 2010 to 78.1% in 2014. Pratham team also found that in about 40.7% of schools, children were seen using library books compared to 37.9% in 2010.

The Times of India, January 15, 2015, P. 12  
(Annual Status of Education Report-2014)

# बाल साक्षरता में भारत ने की शानदार प्रगति

संयुक्त राष्ट्र, प्रेड : भारत ने बाल साक्षरता की दिशा में शानदार प्रगति की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2012 के बीच भारत में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में 1.6 करोड़ तक की कमी आई है। हालांकि अब भी 14 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते।

रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में सबसे अधिक कमी दक्षिण एशिया में आई है। यहाँ 2000 से 2012 के बीच ऐसे बच्चों की संख्या में 2.3 करोड़ की कमी आई। यह जानकारी यूनेस्को और यूनिसेफ द्वारा तैयार साझा रिपोर्ट 'फिक्सिंग द ग्लोबल प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल : फाइंडिंग्स फ्रॉम द ग्लोबल इनीशिएटिव ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन' में दी गई है। 42 देश ऐसे थे, जो वर्ष 2000 और 2012 के बीच प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल न जा पाने वाले बच्चों की संख्या को आधे से भी ज्यादा कम करने सफल रहे। इनमें अल्जीरिया, बुरुंडी, कंबोडिया, घाना, भारत, ईरान, मोरक्को, नेपाल, मोजंबिक, निकारागुआ, रवांडा, वियतनाम, यमन और जॉर्जिया शामिल हैं। हालांकि कई देशों द्वारा इतनी प्रभावशाली प्रगति के चावजूद वर्ष 2012 में दुनिया भर में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र के लगभग नौ फीसद बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। इनमें लड़कों की संख्या इस उम्र के लड़कों की कुल संख्या का आठ फीसद थी और लड़कियों की संख्या इस उम्र की लड़कियों की कुल संख्या का 10 फीसद थी। स्कूल न जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 5.8 करोड़ थी और इसमें 3.1 करोड़ लड़कियां थीं।

**2000 से 2012 के बीच स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में 1.6 करोड़ की कमी**

**यूएन रिपोर्ट की खास बातें**

- स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 5.8 करोड़ थी। इनमें 3.1 करोड़ लड़कियां हैं।
- 2011 तक भारत में 14 लाख बच्चे प्राथमिक स्कूल नहीं जाते थे।
- 14 साल की उम्र के 14 फीसद बच्चे कटते हैं मजदूरी।
- दुनिया में पाँच किशोरों में से एक ऐसा है, जो स्कूल नहीं जा पाता है।

स्कूल नहीं जाते थे। इनमें लड़कों की संख्या इस उम्र के लड़कों की कुल संख्या का आठ फीसद थी और लड़कियों की संख्या इस उम्र की लड़कियों की कुल संख्या का 10 फीसद थी। स्कूल न जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 5.8 करोड़ थी और इसमें 3.1 करोड़ लड़कियां थीं।

Dainik Jagran (H), January 22, 2015, P. 14  
(UN Report)



# बच्चों को स्कूल लाने में भारत ने की प्रगति

**संयुक्त राष्ट्र (भाषा)।** संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने यहां स्कूल में पढ़ने न जाने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2000 से 2012 के बीच 1.6 करोड़ तक की कमी लाने में और दक्षिणी एशिया में प्रगति का वाहक बनने में सफल रहा है लेकिन अभी भी ऐसे 14 लाख बच्चे हैं, जो प्राथमिक स्कूल नहीं जा पाते।

स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में सबसे अधिक कमी दक्षिणी एशिया में आई है, जहां इस संख्या में वर्ष 2000 और 2012 के बीच लगभग 2.3 करोड़ की कमी आई है। यह जानकारी यूनेस्को और यूनिसेफ द्वारा तैयार साक्षा रिपोर्ट 'फिक्सिंग द ग्लोबल इनीशिएटिव ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन' के जरिए दी गई है। वर्ष 2000 के बाद से कुछ ही देश ऐसे हैं, जो स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी की दिशा में वैश्विक प्रगति के वाहक हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जो स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2000 और 2012 के बीच लगभग 1.6 करोड़ की कमी लाया है।

वहीं 42 देश ऐसे थे, जो वर्ष 2000 और 2012 के बीच प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल न जा पाए वाले बच्चों की संख्या को आधे से भी ज्यादा कम करने सफल रहे। इन देशों में अल्जीरिया, बुरुंडी, कंबोडिया, घाना, भारत, ईरान, मोरक्को, मोजम्बिक, नेपाल, निकारगुआ, रवांडा, वियतनाम, यमन और जाम्बिया शामिल हैं। हालांकि कई देशों द्वारा इतनी प्रभावशाली प्रगति किए जाने के बावजूद वर्ष



## संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

■ भारत अकेला ऐसा देश है जो स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2000 और 2012 के बीच 1.6 करोड़ की कमी लाया है

2012 में दुनिया भर में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र के लगभग नौ प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में नहीं पढ़ने नहीं जाते थे। इन बच्चों में लड़कों की संख्या इस उम्र के लड़कों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत थी और लड़कियों की संख्या इस उम्र की लड़कियों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत थी।

स्कूल न जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 5.8 करोड़ थी और इसमें ज्यादा संख्या (3.1 करोड़) लड़कियों की थी। भारत में 5.881 करोड़ लड़कियां और 6.371 लड़के प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की उम्र के हैं। वर्ष 2011 तक, प्राथमिक कक्षा के छात्रों की उम्र के 14 लाख बच्चे भारत में स्कूल नहीं जाते थे। इनमें 18 प्रतिशत लड़कियां और 14 प्रतिशत लड़के थे। जिन अन्य देशों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या पांच लाख से अधिक है, वह हैं- इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान और सूडान। भारत में सात से 14 वर्ष के उम्रसमूह के लगभग 14 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो बाल मजदूरी में लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि भारत ने प्राथमिक शिक्षा में पंजीकरण करवाने

के मामले में महत्वपूर्ण सुधार किया है, लेकिन शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए ये संख्या स्तब्ध करने वाली है। भारत में शारीरिक अक्षमता वाले 29 लाख बच्चों में से 9.9 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। छह साल से 14 साल के उम्र समूह वाले इन बच्चों की यह संख्या कुल संख्या का 34 प्रतिशत है। यह प्रतिशत उन बच्चों में कहीं अधिक है, जिन्हें कोई बौद्धिक अक्षमता (48 प्रतिशत), बोलने में परेशानी (36 प्रतिशत) और कई अन्य अक्षमताएँ (59 प्रतिशत) हैं। रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा समावेशी बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के जरिए सभी बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है। किसी तरह की अक्षमता का सामना कर रहे बच्चों की बड़ी संख्या को स्कूलों से जोड़ने की दिशा में और अधिक प्रगति वांछनीय है।

इस रिपोर्ट में ज्यादा बच्चों को स्कूलों तक लाने और यहां बनाए रखने के लिए स्कूलों की फीस हटाए जाने, नकदी हस्तांतरण कार्यक्रम और स्कूलों में भोजन के कार्यक्रम आदि के प्रयासों को श्रेय दिया गया। स्कूल में भोजन की व्यवस्था लागू करने के सबसे बड़े कार्यक्रम को स्कूलों में पंजीकरण एवं उपस्थिति की दरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का श्रेय दिया जाता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दुनियाभर में पांच किशोरों में से एक ऐसा है, जो स्कूल नहीं जाता। इसका अर्थ यह है कि 12 से 15 साल की उम्र के बीच लगभग 6.3 करोड़ युवा ऐसे हैं, जिन्हें शिक्षा का उनका अधिकार नहीं मिल रहा।

Rashtriya Sahara (H), January 22, 2015, P. 15  
(UN Report)



**संकट ♦ दक्षिण एशिया का सबसे कुपोषित देश बना भारत**

# कुपोषण से हर साल मर रहे 10 लाख बच्चे

**नई दिल्ली**  
jaipur@patrika.com

विश्व में सबसे तेजी से प्रगति करने का दम भरने वाले देश में जब 5 साल से कम उम्र के करीब 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण के कारण मर रहे हों तो चिंता होना लाजिमी है। जी हां, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषण की स्थिति और भी अधिक विकरल होती जा रही है। इतना ही नहीं कुपोषण के मामले में भारत दक्षिण एशिया का अग्रणी देश बन गया है।

**रोकी जा सकती हैं मौतें**  
राजस्थान के बारन और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सर्वे से पता चला है कि कुपोषण के कारण बच्चे ऐसी मौत का शिकार होते हैं, जिसको रोका जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुपोषण को चिकित्सकीय इमरजेंसी घोषित किए जाने की मांग की है।



**आंकड़े गवाह हैं...**

एसीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अनुसूचित जनजाति (28 फीसदी), अनुसूचित जाति (21 फीसदी), अन्य पिछड़ा वर्ग (20 फीसदी) और ग्रामीण समुदायों (21 फीसदी) में कुपोषण के सर्वाधिक मामले पाए जाते हैं। फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) की तीसरी रिपोर्ट के अनुसार, 40 प्रतिशत बच्चे रोध की समस्या के शिकार हैं, 60 फीसदी बच्चे कम वजन का शिकार हैं।

**बजट की जरूरत पर जोर**

एसीएफ इंडिया और फाइट हंगर फाउंडेशन ने मंगलवार को जेनरेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की। प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए एसीएफ इंडिया के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर राजीव टंडन ने कहा कि कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए पॉलिसी बनाने एवं इसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

Rajasthan Patrika (H), January 22, 2015, P. 14  
(UNICEF Report-Malnutrition)



## 'Why should we spend on a girl who will bring us no money?'

CHANDER SUTA DOGRA  
ROHTAK, JHAJJAR, JAN 22

ON Thursday, as Narendra Modi launched his government's 'Beti Bachao, Beti Padhao' scheme from a stage in Panipat, in another district less than 100 km away, groups of women discussed the social situation and mindsets that had prompted the Prime Minister to launch his attack

against the "mental illness" and "medieval mindset" that led to the "sin" of female foeticide.

The village of Shimli, not far from the district headquarters of Rohtak, has one of the worst child sex ratios (CSR) in notoriously girl child-unfriendly Haryana — a mere

CONTINUED ON PAGE 2

» DAUGHTERS IN NUMBERS, P 6




### THE BETI IN HARYANA

Haryana, the state where the Prime Minister launched the Beti Bachao Beti Padhao campaign, has traditionally had the lowest sex ratio in the country. A look at how much has changed over the years.

#### HARYANA, YEAR ON YEAR



The state's child sex ratio (girls per 1,000 boys in the age group 0-6), though far below the national average, has been improving over the last five calendar years, state government figures show.



INDIA 919 (2011)

#### DISTRICTS: AMBALA FLUCTUATES


Ambala district's progress has taken a sudden downturn. Until the beginning of 2014, it was improving its sex ratio before it started to plunge.



SOURCE: GOVT OF HARYANA, CITING CRS FIGURES

The Indian Express, January 23, 2015, P. 1  
(Data-State's Child Sex Ratio)





The Economic Times, January 28, 2015, P. 8  
(NCRB Data- Cybercrime)



## 4.2 Birth Rate/Mortality Rate/Morbidity Rate

# शिशु व मातृ मृत्यु दर को काबू करने को तरजीह दी जाए: मोदी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 9 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में शिशु और मातृ मृत्यु की ऊँची दर व इन्सेफलाइटिस पर काबू नहीं पाए जाने को लेकर शुक्रवार को गहरी चिंता जताई और इन पर काबू पाने को तरजीह देने को कहा। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने पर विचार के लिए आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह ऐसा तंत्र विकसित करे, जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों के डाक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार करके उसकी योजनाओं और तंत्र को चुस्त दुरुस्त बनाने को कहा।

उन्होंने व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकार्ड रखने का एक व्यापक तंत्र बनाने और उसे बाद में आधार व्यवस्था से जोड़ने का भी सुझाव दिया। 'सबको स्वास्थ्य' उपलब्ध कराने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने सुझाव दिए कि इसके लिए पहले वर्तमान स्वास्थ्य योजनाओं और तंत्र को चुस्त दुरुस्त किया जाए। प्रधानमंत्री ने देश के ऐसे क्षेत्रों और ब्लाक की शिनाख्त करने को कहा, जहां शिशु एवं मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों की पहचान करके वहां सबसे अधिक ध्यान दिया जाए जिससे बाल एवं मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके।

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक मोदी ने कहा कि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को काबू करने के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाया चाहिए। एक-प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य हस्तक्षेप और दूसरा- उचित सामाजिक हस्तक्षेप करके उन स्थानीय धारणाओं और रीति रिवाजों को दूर किया जाना जो इस कार्य में बाधक बन रहे हैं। इन्सेफलाइटिस बीमारी के बने रहने और खासकर, हर साल सैकड़ों बच्चों के इसकी चपेट में आने पर गहरी चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस तरह के रोगों को नियंत्रित करने की एक कारगर रूप-रेखा तैयार करें। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से वैसे ही निपटा जाए जैसे प्राकृतिक आपदाओं और अन्य राष्ट्रीय आपदाओं से निपटा जाता है।

पूरे दक्षिण क्षेत्र को पोलियो मुक्त बनाने में भारत द्वारा मदद किए जाने की अपनी पूर्व घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बारे में एक समुचित कार्य योजना बनाने को कहा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नट्टा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखने में योग को बेहद उपयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की योजनाएं तैयार करने को कहा।

संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में प्रधानमंत्री की पहल पर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। मोदी ने इस बात पर खास जोर दिया कि स्वच्छता अभियान का असर देश भर के अस्पतालों और जन स्वास्थ्य केंद्रों में भी नजर आना चाहिए।

Jansatta (H), January 10, 2015, P. 5



4.3 Demography and other relevant statistics (Data- Rape Cases/Street Crime/Violence against Women/Population)

# 35% rape cases await probe, police data shows

**Karn Pratap Singh**  
karn.singh@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** The Delhi Police has been swift throughout the year in registering cases of rapes and molestations.

But the performance of the force in the disposal of such cases and filing chargesheets has been not very impressive, Delhi Police statistics have revealed.

Out of 2,001 rape cases registered this year till December 3, the Delhi police have filed chargesheets in about 1,308 cases. It means that only about 65% cases reached the chargesheet level, while a good 35% cases are still pending investigation.

Similarly, almost 3,000 cases of molestation are pending investigation against over 4,100 cases that had been registered till December 3 this year.

Senior police officers attribute the slow rate of disposal of rape and molestation cases to lesser number of women investigating officers available with the force

and a delay in receiving forensic reports. As per the instructions of the home ministry, cases of rape have to be probed only by women investigators.

According to numbers available, only 773 chargesheets in rape cases were filed within the mandatory period - 20 days of the arrest of the first accused. In 312 cases, chargesheets were filed within 30 days of arrest of the first accused.

In 152 cases, the chargesheets were filed within 60 days, whereas in 71 cases the investigating officers took more than 60 days to file the chargesheets.

District-wise statistics of rape cases showed that south Delhi police topped the chart in rape cases, with 261 cases having been registered this year till December 3. South Delhi is followed by southeast and outer districts police that registered 257 and 248 rape cases registered, respectively, this year. The New Delhi district police registered the lowest number of rape cases, only 20, this year.

## SLOW PROBE

Rape chargesheets filed (till Dec 3)

■ Cases registered  
■ Chargesheets within 20 days  
■ Total chargesheets

| District     | Cases registered | Chargesheets within 20 days | Total chargesheets |
|--------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| North        | 57               | 29/10                       |                    |
| Central      | 86               | 30/25                       |                    |
| Northwest    | 159              | 67/50                       |                    |
| Outer        | 248              | 64/94                       |                    |
| East         | 218              | 32/59                       |                    |
| Northeast    | 229              | 99/38                       |                    |
| South        | 261              | 158/25                      |                    |
| Southeast    | 257              | 143/59                      |                    |
| Southwest    | 234              | 43/95                       |                    |
| West         | 229              | 107/63                      |                    |
| New Delhi    | 20               | 0/16                        |                    |
| <b>Total</b> | <b>1996</b>      | <b>772</b>                  | <b>1306</b>        |

Hindustan Times, January 1, 2015, P. 2  
(Data- Rape Cases)

# राजधानी में क्राइम पहले से दोगुना

| अपराध       | 2013 | 2014  | बढ़ोतरी |
|-------------|------|-------|---------|
| लूट         | 1106 | 6180  | 458.77% |
| घर में चोरी | 2870 | 12276 | 327.74% |
| डकैती       | 31   | 78    | 151.61% |
| स्नैचिंग    | 3316 | 6944  | 109.41% |
| रेप         | 1571 | 2069  | 31.70%  |
| मर्डर       | 486  | 561   | 15.43%  |

इस बढ़ोतरी की एक वजह यह भी है कि पहले शिकायतें इतनी आसानी से दर्ज नहीं होती थीं।  
- भीमसेन बस्ती, पुलिस कमिश्नर

**■ नगर संवाददाता, नई दिल्ली**

राजधानी में पिछले साल के मुकाबले क्राइम करीब 200 फीसद बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से शुकवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2013 में जहां 73 हजार 902 एफआईआर दर्ज की गईं, वहीं 2014 में 1 लाख 47 हजार 230 मुकदमे कायम हुए। घर में चोरी, लूट और स्नैचिंग जैसे स्ट्रीट क्राइम सबसे ज्यादा

साढ़े चार गुना तक बढ़े जबकि रेप और मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में मामलों में इजाफा हुआ। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाले मर्डर की संख्या बढ़ी है। अजनबियों द्वारा रेप की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पहले सिर्फ डेढ़-दो प्रतिशत मामले ही ऐसे होते थे। इस बार 2014 में दर्ज रेप के 2,069 केसों में से 84 में मुल्जिम महिलाओं के अजनबी थे। बाकी मामलों में मुल्जिम जानकारों ने ही धरोसा तोड़ा। ▶▶ पेज 2,3

Nav Bharat Times (H), January 3, 2015, P. 1



# Street crime in Delhi triples, a rape every 4 hrs

**Karn Pratap Singh**  
letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** Nearly 300 people were robbed, mugged or had their belongings snatched every day of the past year in Delhi, data released by the police said Friday, underlining the failure of the authorities in keeping the city's roads safe.

Street crimes in the city surged by 186% in 2014 with 12 cases reported every hour, up from four in 2013. The overall crime rate also doubled - 147,000 cases till December 15, 2014 - compared to the previous year.

Crimes against women remained a worry with a rape reported every four hours and a molestation every two hours in the Capital. Number of rape cases grew to 2,069, up 32% from 2013 while cases of molestation jumped 25% to 4,179.

Percentage of crimes solved, however, plunged to an abysmal 29.5% from 48.86% in 2013. Culprits in only 26.96% of all snatching cases and 46.12% of robbery cases were brought to book in 2014, down from 47.24% and 75.56% respectively in 2013.

Delhi police commissioner BS Bassi attributed the spurt in street crimes to police registering all complaints and police control room calls as FIRs, not turning away people to keep the crime graph down.

The number of investigating officers hadn't kept pace with rising crime, causing the dip in number of cases solved, Bassi added. Delhi has around 84,000 officers policing its 1.67 crore population - a ratio of one cop per 200 people.

Amongst street crimes, robbery rose by a whopping 459% - 18 cases

**UNSAFE CAPITAL**  
32% jump in rape cases. Every 2 hours, a woman is molested in the city

**277** street crimes reported everyday, 12 per hr  
**186%** Increase over 2013

**421** crimes reported everyday, 18 per hour  
**100%** Increase over 2013

Only 29.5% of crimes solved in 2014, down from 49% in 2013

**84,000** Total police strength  
One cop = 200 people

**4,848** women police officers  
Only one female cop = 1,600 Women

daily or 6,180 overall - when compared to 2013 that reported 4 cases daily and 1,106 in total. Incidents of snatching also doubled from 3,316 in 2013 to 6,944 last year.

Bassi said the rise in cases was due to his battling for "truthful registration" of crime. "Last year, I urged we must stamp out the practice of burking from our functions since it is a major cause of public dissatisfaction. I now have no hesitation in saying reluctance to register cognizable crime has almost disappeared among Delhi Police officers," he said.

**80% RAPES SOLVED, P3**

Hindustan Times, January 3, 2015, P. 1  
(Data-Street Crime)

# MAN, WOMAN AND CRIME

OF THE **2,44,270** cases registered for violence against women, **1,06,527** were categorised as "CRUELTY BY HUSBAND OR HIS RELATIVES".

**MOST CRIMES AGAINST women** take place within their homes. According to the National Crime Records Bureau, almost half the cases of violence against women registered in the country in 2012 were committed by their husbands or their in-laws.

**OTHER CRIMES**

**45,351** No. of assaults on women with intent to outrage her modesty

**24,923** cases of rape registered

**CRUELTY BY HUSBAND OR HIS RELATIVES**


INDIA **1,06,527**

States **1,04,454**  
Union Territories **2,073**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| West Bengal       | 19,865 |
| Andhra Pradesh    | 13,389 |
| Rajasthan         | 13,312 |
| Uttar Pradesh     | 7,661  |
| Maharashtra       | 7,415  |
| Gujarat           | 6,558  |
| Assam             | 6,407  |
| Kerala            | 5,216  |
| Madhya Pradesh    | 3,988  |
| Bihar             | 3,686  |
| Karnataka         | 3,684  |
| Haryana           | 3,137  |
| Orissa            | 2,638  |
| Delhi             | 1,985  |
| Tamil Nadu        | 1,965  |
| Punjab            | 1,293  |
| Jharkhand         | 1,261  |
| Chhattisgarh      | 980    |
| Tripura           | 858    |
| Uttarakhand       | 368    |
| Jammu & Kashmir   | 301    |
| Himachal Pradesh  | 251    |
| Chandigarh        | 73     |
| Manipur           | 43     |
| Arunachal Pradesh | 26     |
| Goa               | 24     |
| Meghalaya         | 16     |
| Mizoram           | 8      |
| Puducherry        | 6      |
| A&N Islands       | 5      |
| Sikkim            | 4      |
| Daman & Diu       | 3      |
| Lakshadweep       | 1      |
| D&N Haveli        | 0      |
| Nagaland          | 0      |

The Indian Express, January 11, 2015, P. 16  
(NCRB Data- Violence against Women)





Hindustan Times, January 3, 2015, P. 4

## वर्ष 2011 जनगणना : उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात और महिला साक्षरता दर में सुधार


इलाहाबाद, 17 जनवरी (भाषा)। उत्तर प्रदेश में इस सदी के पहले दशक में संपूर्ण लिंगानुपात में सुधार आया है लेकिन छह साल तक की उम्र के वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या में गिरावट चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के जनगणना अभियान निदेशालय के संयुक्त निदेशक प्रदीप कुमार के मुताबिक 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य का लिंगानुपात 912 है जो 2001 के 898 से थोड़ा ज्यादा है।

उन्होंने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया जिलों में लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों से अधिक हो गयी। जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया जिलों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्रमशः 1024, 1019 और 1017 रही। ये तीनों जिले आर्थिक रूप से कमजोर पूर्वी क्षेत्र में हैं। कुमार ने कहा, 'लेकिन जहां तक छह साल तक की उम्र के वर्ग के बच्चों की बात है तो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2001 के 916 से घटकर 2011 में 902 रह गई।' सबसे अच्छे लिंगानुपात बलरामपुर जिले में 950 दर्ज किया गया जबकि सबसे खराब बागपत में 841 दर्ज किया गया। कुमार ने बताया कि बच्चों में लिंगानुपात में काफी गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आई जहां वह 921 से घटकर 906 हो गई। शहरी क्षेत्रों में बच्चों में लिंगानुपात सबसे अधिक खराब रहा लेकिन इस दशक में गिरावट कम रही यानी वह 890 से घटकर 885 हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले दशक में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 62.09 लाख बढ़कर 4.14 करोड़ हो गई। हालांकि राज्य की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ में उनकी फीसद 21.1 फीसद से घटकर 20.07 फीसद रह गई।

प्रदीप कुमार के मुताबिक वैसे अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 950 फीसद बढ़कर 11.34 लाख हो गई जो राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 0.6 फीसद है। ओंकेड़े के अनुसार अनुसूचित जनजातियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, बलिया और देवरिया जैसे जिलों में केंद्रित जान पड़ती हैं। सोनभद्र, बलिया और देवरिया में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 3.35 लाख, 1.10 लाख और 1.09 लाख है। पिछले दशक में राज्य में साक्षरता दर 11.4 फीसद बढ़कर 67.7 फीसद तक पहुंच गई। हालांकि पढ़ और लिख सकने वाले लोगों का प्रतिशत विभिन्न जिलों में भिन्न भिन्न है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर 80.1 फीसद गौतमबुद्धनगर जिले है जबकि सबसे कम साक्षरता दर 46.7 फीसद श्रावस्ती जिले में है। महिला साक्षरता दर 15 फीसद की तेजी के साथ 57.2 फीसद पर पहुंच गई। उधर पुरुष साक्षरता दर 8.5 फीसद की वृद्धि के साथ 77.3 फीसद पर पहुंच गई।

Jansatta (H), January 18, 2015, P. 9  
(Population)





Dainik Jagran (H), January 23, 2015, P. 1



## 5. Schemes/Programmes relating to Women and Children

5.1 Schemes/Programmes (Scheme-Beti Bachho Beti Padhao/SAGY/Ladli Yojana/MGNREGA/Swachh Mission/Kilkari/Sabko Ghar/Pradhanmantri Jan Dhan Yojana/Sukanya Samridhi Khata)

# Villages adopted by MPs to get priority in govt schemes

## BIAS? Decision will create islands of developed villages, claims Opposition

**Brajesh Kumar**  
brajesh.kumar@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** Villages chosen under the Sansad Adarsh Gram Yojna (SAGY) will not only receive special attention from members of Parliament over their development work, various schemes will also be diverted to these at the expense of others, show government documents.

While drawing up annual plans for schemes such as Indira Awas Yojna (IAY), national rural livelihood mission (NRLM), and Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (RGPSA), the states will have to ensure the villages under SAGY are given priority.

For RGPSA, the scheme launched in 2013-14 with an objective of empowering the panchayati raj institutions through financial assistance for various activities, the Centre has directed all states to accord priority to SAGY villages.

"It is requested that state governments accord priority to gram panchayats selected under SAGY while preparing annual action plan under the RGPSA for meeting the requirements of the items admissible under the scheme," the ministry of panchayati raj wrote to states on December 10.

The guidelines for IAY and NRLM have been amended similarly for the same purpose.

Revising the guidelines of these schemes for the benefit of the SAGY villages lends credence to the Opposition's criticism that PM Narendra Modi's pet project will create islands of developed villages leaving out many others.

TMC spokesperson Derek O'Brien had told HT that his party had decided not to adopt villages as it believed the scheme leaves out other villages. "Our understanding is that if you adopt a single village then the others feel neglected," he said.

The Left too has taken a similar stand.

Under SAGY, each MP has to take responsibility for three villages and turn them into a 'model village' by 2019 through the convergence of different government schemes and their implementation.



Under the scheme, Prime Minister Narendra Modi had adopted Jayapur village in his constituency, Varanasi.

ASHOK OUTTA/HT FILE

Hindustan Times, January 2, 2015, P. 8  
(Scheme-SAGY)

## 'लाडली' योजना में बदलाव को मंजूरी

चंडीगढ़, 6 जनवरी (ट्रिब्यून)

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही 'लाडली' योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है। विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंजूरी दे दी है। इसका खुलासा आज खुद सीएम ने यहां हुई ईएसआई तथा श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में किया। उन्होंने कहा कि सरकार अब पहली बेटी पर भी आर्थिक मदद देगी। याद रहे कि पूर्व की सरकार के समय में केवल दूसरी ही बेटी के जन्म पर आर्थिक मदद किए जाने का प्रावधान था।

साथ ही, सीएम ने कन्यादान योजना का भी विस्तार किए जाने के संकेत दिए हैं। इससे पहले योजना के अंतर्गत परिवार की मात्र 2 बेटियों को इसका लाभ मिलता था लेकिन अब इस योजना के तहत माता-पिता की सभी बेटियों को इसका फायदा मिलेगा। इस अवसर पर वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी अपने सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू किये जा रहे राष्ट्रीय स्तर के करियर स्पॉन्सरशिप योजना के तहत चलाये जाने वाले पायलट प्रोजेक्ट को हिसार में शुरू करने की मुख्यमंत्री से आग्रह किया।

Dainik Tribune (H) , January 7, 2015, P. 3  
(Scheme- Ladli Yojana)



## बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जागरूकता रैली निकाली

नारनौल, 8 जनवरी (निस)

आंगनबाड़ी विभाग द्वारा चलाए जा रहे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत आज गांव गोमला व गोमली में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यातिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपर वाइजर केला देवी ने शिरकत की। जबकि रैली का नेतृत्व आंगनबाड़ी वर्कर सुनीता यादव ने किया।

मुख्यातिथि ने आंगनबाड़ी वर्कर्स, सहायिकाओं व गांव की महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या रोकने एवं बेटियों की रक्षा करने तथा पढ़ाने के बारे जागरूक किया। मुख्यातिथि ने ग्रामीणों को कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह व दहेज प्रथा जैसी समाज में फैली बुराईयों को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया। इस



नारनौल में शनिवार को गांव गोमला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूक रैली निकालती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। -निस

अवसर पर शान्ति देवी, संतोष प्रवीणा, स्नेहलता, किरोशिता, देवी, सुनीता यादव, सविता, नीलम व सुमन सहित अनेक शकुन्तला, अन्नु, कविता, पुष्पा, महिलाएं उपस्थित थीं।

Dainik Tribune (H) , January 9, 2015, P. 6  
(Beti Bachho Beti Padhao)

### Govt plans basic technical skills for MGNREGA workers in 2,500 blocks

Brajesh Kumar

NEW DELHI: The government plans to train MGNREGA workers with basic concepts of civil engineering and involve them in planning and supervising work in 2,500 most backward blocks in the country. With the move the workers may soon upgrade from unskilled to skilled.

These workers who will be called barefoot engineers will need to be matriculate, should belong to SC/ST household and also be an active worker (should have worked in last two years as MGNREGA worker).

The rural development ministry last week issued guidelines for training 10,000 workers and instructed states to identify areas that will deploy them.

The barefoot engineers will be entrusted with the task of identification of the proposed works, conduct technical surveys, prepare estimates and assist in the planning process.

The workers will perform these functions under the supervision of qualified technical assistant/junior engineers.

The first phase of training for the selected workers will begin from April this year and will last till December following which they will be deployed.

The government will also develop and ratify national occupational standards according to which the engineers will be trained and certified.

After the completion of the training the candidates will be designated as 'skilled' workers for the identified area.

The ministry believes the opportunity will increase their income and provide horizontal and vertical mobility to the hitherto unskilled workers. It would also reduce dependence of these poorer sections on wage employment alone provided by the government.

The Centre plans to identify and upgrade skill of one lakh MGNREGA workers in age group 18-35 every year. These workers will be categorised under four groups — construction labour cooperatives, agriculture labour cooperative, skill and job placement, and improvement of existing skill sets.

Hindustan Times, January 9, 2015, P. 15  
(MGNREGA)



## 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के तहत कार्यक्रम आयोजित

नारनौल/पलवल, 9 जनवरी (अस/एस/किस)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा व सर्व धर्म एवं जन परोपकारी संस्था नई दिल्ली की नारनौल शाखा द्वारा आयोजित 'बेटी-बचाओ, बेटी तहत आज गांव हुडिना रामपुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता मुकेश कुमारी ने शिरकत की।

मुकेश कुमारी ने कहा कि बेटियों में ही हमारा भविष्य है। पंकज कुमार ने कहा कि लड़कियों को बचाना ही

समाज में अपने अस्तित्व को बचाना है।

सूचना, जनसम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा के महानिदेशक अभिलक्ष लिखी के निर्देशानुसार जिला पलवल में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया है। गत एक जनवरी से शुरू किया गया यह कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी तक चलेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष गिराज सिंह डागर तथा सत्यभान शर्मा ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं हरियाणा

सरकार की सराहना की।

समाजसेवी संस्था लोकसंस्कृति संरक्षण प्रकोष्ठ के सौजन्य से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के तहत नारनौल में जागरूकता व हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अपने इस हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रकोष्ठ के सदस्यों ने घर-घर जाकर लोगों को जिला महेंद्रगढ़ में स्त्री-पुरुष अनुपात को आने वाले समय में चिन्ता का विषय बताते हुए कन्या भ्रूण-हत्या जैसे जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे आने की अपील की।

Dainik Tribune (H) , January 10, 2015, P. 7  
(Beti Bachho Beti Padhao)

## मोदी 'बेटी बचाओ' को अभियान बनाएंगे

**पहल**

नई दिल्ली | सुहेल हाजिद

स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे और मेक इन इंडिया अभियान के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि हरियाणा के पानीपत से शुरू होने वाले इस अभियान में सभी प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों के चुनिंदा शहरों को शामिल किया जाएगा। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत से पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पानीपत में इस विषय पर दो दिन की कार्यशाला भी आयोजित की है। इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।

बता दें कि मोदी लड़कियों के साथ भेदभाव खत्म करने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने का आह्वान कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर उन्होंने बेटियों के साथ भेदभाव खत्म करने और समानता का माहौल बनाने की अपील

**बालिका संरक्षण**

- 22 जनवरी को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री करेंगे अभियान की शुरुआत
- सभी प्रदेश और केंद्र शासित राज्य होंगे इसमें शामिल

**मुख्य बिंदु**

- सभी ग्राम पंचायतों में गुहा-गुह्री खोई लगाए जाएंगे। इनमें गांव में हर माह का लिंग अनुपात दर्ज होगा
- ग्राम पंचायत लड़की के जन्म पर परिवार को तोहफा भेजेगी। पंचायत साल में कम से कम एक दर्जन लड़कियों का जन्मदिन मनाएगी
- सभी ग्राम पंचायतों में लोगों को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' की शपथ दिलाई जाएगी
- गांव में लिंग अनुपात सुधारेगा तो ग्राम पंचायत को सम्मानित करेंगे
- बाल विवाह के लिए ग्राम प्रधान को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी

करते हुए इस बारे में लोगों से सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के आधार पर सरकार ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को अंतिम रूप दिया है।

Hindustan (H), January 10, 2015, P. 14  
(Beti Bachho Beti Padhao)



## Govt diluting MNREGA: Cong

STATESMAN NEWS SERVICE  
New Delhi, 9 January

The Congress today accused the Narendra Modi government of "systematically diluting" the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) programme across the country, which, it alleged, had been adversely affecting millions of farm labourers who have been dependent on this statutory employment scheme for their livelihood.

The Congress national spokesperson Ms Shobha Oza charged that the Modi government has not released about Rs 10,000 crores to states under the MNREGA during the current financial year.

"The rural jobless poor have thus been hit hard. They have not been given payment for their MNREGA work. And they are also not getting any work now," Ms Oza said.

As compared to the last financial year, there has been 45% reduction in MNREGA funds released by the Centre to states - the sharpest since the

inception of the scheme in 2006 - under the Modi government, Ms Oza said, adding that "In the current financial year, the Central government only released Rs13,618 crore to states, against Rs 24,676 crore in the same period last year".

Charging the Modi government with "deliberately creating circumstances that are leading to low rural wages and farm distress", Ms Oza alleged that the government was "anti-poor".

The Congress spokesperson also slammed the former rural development minister Mr Nitin Gadkari for having allegedly created an "impression" through his statements that MNREGA would be diluted or "discontinued".

Besides highlighting the issue of delayed payment of MNREGA wages to workers, she also charged that the number of beneficiary households from the MNREGA scheme has drastically reduced since the Modi dispensation came to power last year. The MNREGA guarantees a legal right of 100 days of employment every year to each rural household, and stipulates wage payments within 15 days.

The Statesman, January 10, 2015, P. 3

(MGNREGA)

## 'Calculate disability as per earning capacity'

### Form panel on endosulfan victims, HC directs govt

**BENGALURU:** The High Court of Karnataka on Monday directed the State government to calculate the percentage of disability of endosulfan victims based on an individual's earning capacity and not his or her medical assessment.

During the hearing of a suo motu petition on rehabilitation of endosulfan victims in Dakshina Kannada, Uttara Kannada and Udupi districts, a division bench comprising Chief Justice D H Waghela and Justice Ram Mohan Reddy sought to know the methodology adopted by the government to calculate the percentage of disability.

Amicus curiae Vaishali Hegde submitted that persons suffering from cancer and those who have become visually challenged due to endosulfan had been categorised as persons with less than 25 per cent disability and hence were denied stipend. The bench questioned the government counsel on the rationale behind such classification.

The amicus curiae said that the government has fixed 1980 as the benchmark year for pay-

ing compensation to victims suffering from congenital disorders. Accordingly, those born in 1980 and later will be eligible to receive compensation. It was in 1980 that spraying of endosulfan on cashew plantations began. The amicus curiae pointed out that the policy adopted was unfair.

The government counsel submitted that the State government had earmarked Rs seven crore for paying compensation and the process of identifying the beneficiaries would be completed by March 2015.

The bench later directed the government to form a committee comprising representatives of district legal services authority and members of non-governmental organisations to monitor the rehabilitation process, and named the amicus curiae as the chairperson of the committee. The matter was adjourned to February 2.

#### Jayalalitha case

Former Additional Solicitor General L Nageshwara Rao appearing for former Tamil Nadu chief minister J Jayalalitha in the disproportionate assets case, claimed on Monday that none of Jayalalitha's aides was a public servant and hence their sentencing under Section 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act was incorrect.

During the hearing of the appeal by Jayalalitha and others challenging their conviction in disproportionate assets case, the counsel said that the three

aides of Jayalalitha were not her blood relatives and hence sentencing them under Benami Transactions Act, was also incorrect. He claimed that the prosecution had failed to furnish enough documents in the trial court to substantiate its case. The special bench of Justice C R Kumaraswamy adjourned the hearing to Tuesday.

#### Renaming cities

The High Court has directed the State government to submit details of process followed in renaming the 12 cities and towns in the State. During the hearing of a petition challenging the renaming of Gulbarga and Kalaburagi, a bench headed by Chief Justice D H Waghela sought to know whether the decision on renaming was taken on the floor of the Assembly.

The petitioners had contended that the government had no powers to rename towns and cities and sought to know the compulsion for such an exercise.

The bench observed that the new names are the ones known prior to the British rule. The British had changed the names of the places to suit their convenience since they could not pronounce them. The bench directed the government counsel to submit details on the procedure followed by the government to change the names of the cities and towns. The matter was adjourned to January 14.

DH News Service

Deccan Herald, January 13, 2015, P. 4



## 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की निगरानी करेगा राष्ट्रीय कार्यबल

नई दिल्ली, (वार्ता): सरकार के महत्वाकांक्षी 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के निर्देशन और निगरानी के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। सूत्रों ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान मूल रूप से केंद्र सरकार का है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। हालांकि इस संबंध में निर्देशन और निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक कार्यबल का गठन होगा और

बजट आवंटन भी केंद्र सरकार करेगी। इस कार्यबल के अध्यक्ष केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव होंगे जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव विकास संसाधन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विकलांगता संबंधी विभाग, लिंग अनुपात विशेषज्ञ और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। कार्यबल विभिन्न राज्यों द्वारा इस

संबंध में बनाई योजनाओं की समीक्षा करेगा और उचित सुझाव और सहयोग देगा। कर्मचारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की विषय वस्तु तैयार करने की जिम्मेदारी भी इसी कार्यबल की होगी। यह कार्यबल संयुक्त संचार कार्यवाई के लिए एक तप समिति का भी गठन करेगा। कार्यबल की बैठक प्रति तिमाही आयोजित की जाएगी। राज्य में भी महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव

की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया जाएगा और जिला स्तर पर अभियान का निर्देशन और निगरानी करेगा। यह अभियान एक सौ जिलों में लागू किया जा रहा है। इनमें 95 ऐसे जिले शामिल हैं जिनमें बालक-बालिका अनुपात बढ़ रहा है और राष्ट्रीय औसत से कम है। बाकी पांच जिले ऐसे हैं जिनमें बालक-बालिका अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और यह अनुपात घट रहा है। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी को शुरू करेंगे।

Punjab Kesari (H), January 13, 2015, P. 3  
(Beti Bachho Beti Padhao)



**इस बार की लोहड़ी**  
**बेटियों की लोहड़ी-14 जनवरी, 2015**  
**बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ**  
राष्ट्रीय कार्यक्रम का  
**माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी**  
हुडा ग्राउंड, पानीपत (हरियाणा) से 22 जनवरी, 2015 को शुभारम्भ करेंगे



**श्री मनोहर लाल**  
माननीय मुख्यमंत्री  
हरियाणा



**श्रीमती मेनका संजय गांधी**  
माननीय केंद्रीय मंत्री  
महिला एवं बाल विकास



**श्रीमती कविता जैन**  
माननीय महिला एवं बाल  
विकास मंत्री, हरियाणा



**श्री कृष्ण कुमार**  
माननीय राज्य मंत्री, महिला  
एवं बाल विकास, हरियाणा

Dainik Tribune (H) , January 14, 2015, P. 1





Dainik Tribune (H) , January 15, 2015, P. 3

# PM to launch 'Beti Bachao' with a bang on January 22

## Scheme To Focus On Low Child Sex Ratio

Himanshi Dhawan  
@timesgroup.com

New Delhi: After Swachh Bharat and Make In India, the Modi government's big bang flagship scheme will be 'Beti Bachao, Beti Padhao' (BBBP), which will help address the country's low child sex ratio. The scheme will be launched by PM Narendra Modi on January 22 and will focus on a multi-sectoral approach to tackling the problem of the vanishing girl child.

A toilet in every girls' school in 100 vulnerable districts, an innovation fund at state-level to encourage best practices in improving child sex ratio (CSR) and gender inequities, district-level awards to schools strengthening girl child education are some of the targets that the scheme hopes to accomplish by 2017.

The Rs 100-crore scheme is expected to be monitored by the Maneka Gandhi-headed ministry of women and child development (WCD) in coordination with the ministries of health and HRD. Au-

ditions are expected to be done by civil society and the CAG to ensure that targets are met.

The launch is expected to be a high-wattage affair with Union ministers, chief ministers of West Bengal, Rajasthan, Gujarat and Haryana and senior officials attending it.

The objectives of the scheme is to prevent gender-biased sex selection by stringent enforcement of laws, especially by strengthening the implementation of Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Pro-

hibition of Sex Selection) Act, 1994 (PC&PNDT Act) with strict punishments for violations.

BBBP will also ensure access and availability of essential requirements related to nutrition, healthcare, education and protection and elimination of discrimination against a girl child which can lead to low self-esteem, lifelong deprivation and exclusion from the mainstream.

Initiatives will be taken to encourage girls to express their views and to be heard, to help them participate actively,

effectively and equally at all levels of social, economic, and political leadership. Long-term interventions for gender equality would focus on creating enabling environment. The objectives will be achieved through convergence and coordination with concerned ministries, departments and district administration.

The decline in the CSR, defined as number of girls per 1,000 boys between 0-6 years, has been unabated since 1961. The decline from 945 in 1991 to 927 in 2001 and further to 918 in 2011 is alarming.

### TARGETS FOR GIRL CHILD CAMPAIGN

1. Improve sex ratio at birth in 100 gender critical districts by 10 points in a year (all-India CSR is 918 females to 1,000 males according to the 2011 census)
2. Reduce gender differentials in under-five child mortality rate from 59:51 for girls vs boys in 2011 to 55 for girls in 2017
3. Improve nutrition status of girls under 5 by reducing number of underweight and anaemic girls (Currently, 7 of 10 children are anaemic and 42.5% underweight)
4. Ensure universalization of ICDS, girls' attendance and equal care monitored, using joint ICDS NRHM
5. Increase girl's enrolment in secondary education from 76% in 2013-14 to 79% by 2017
6. Provide toilet for girls in every school in 100 districts by 2017
7. Promote a protective environment for girl children through implementation of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act 2012
8. Train elected representatives/grassroot functionaries as Community Champions to mobilize communities to improve CSR & promote education for girls

Mother Child Protection Cards

Budget allocated: ₹100cr. Scheme cost is however about ₹200cr

HIGH-VOLTAGE LAUNCH BY PM MODI ON JAN 22

The Times of India, January 15, 2015, P. 13  
(PM to Launch Beti Bachao )



## Toilet building: Swachh mission falls short of target

### SLOW PACE

Achievement under rural sanitation programme for 2014-15

| Component                    | Target      | Achievement | %     |
|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Individual household latrine | 1,25,32,963 | 24,79,320   | 19.78 |
| School toilets               | 82,078      | 15,608      | 19.02 |
| Anganwadi toilets            | 66,856      | 5,117       | 7.65  |
| Community complexes          | 8,385       | 422         | 5.03  |

Dipak.Dash@timesgroup.com

**New Delhi:** The government may be giving highest priority to build toilets in every rural household, school and anganwadis under its flagship Swachh Bharat Mission (SBM), but achievement so far is dismal against the target set for this financial year and there is no chance of the target being achieved in the next four months of this fiscal.

Between April and December, only 24.79 lakh individual household toilets could be built across villages against the annual implementation plan (AIP) to construct 1.25 crore such units. The figures for building school toilets is no better and the performance is the worst so far as constructing community toilets is concerned. The achieve-

ment is only 5.33%.

According to the agenda note circulated by the drinking water and sanitation department, the performance of over a dozen states including Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Telangana is below the national average of 19.8%. The ministry has called a meeting of all state secretaries to review the implementation of sanitation schemes next week.

The note also mentions how states have miserably failed to meet the target of building community sanitary complexes, which is crucial for success of SBM in rural areas. States including Gujarat, Andhra, Rajasthan, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Odisha have performed poorly.

For the full report, log on to [www.timesofindia.com](http://www.timesofindia.com)

The Times of India, January 17, 2015, P. 15  
(Swachh Mission)

## ‘स्वास्थ्य कर्मियों पर बेटी बचाने का जिम्मा’

जीद, 17 जनवरी, इप

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की जिम्मेदारी अब महिला स्वास्थ्य कर्मियों के कंधों पर आ रही है। बहु उद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मियों, एनएम् और आशा कर्मियों को अब सरकारी अस्पतालों में इस योजना को लेकर घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलवाई जा रही है। विभाग को सरकार के यह आदेश भी मिल चुके हैं कि सभी एमपीएचडल्लू, एनएम्, आशा वर्कर 22 फरवरी को पानीपत में

प्रस्तावित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करें। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने भी इस योजना को लोगों के घर-द्वार पहुंचाने की तैयारी कर ली है। किशोर हेल्थ काउंसलर रितु खोखर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों ने संकल्प लिया है कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को पढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे।

अधिकारी भी करें सहयोग

स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि उच्च अधिकारियों को भी इस कार्य में पूरा सहयोग करना चाहिये।

Dainik Tribune (H) , January 18, 2015, P. 10



## SAVING, EDUCATING GIRL CHILD

# Slew of measures unveiled in Haryana

Prelude to national programme to be launched by PM on January 22

Gaurav Vivek Bhatnagar

**CHANDIGARH:** From focussing on 12 districts of Haryana with the most skewed sex ratio, to urging women in the households to boycott those who favour female foeticide, to rewarding schools which enrol the highest number of girl students, Union Ministers and Haryana Ministers on Saturday announced a slew of measures for saving and educating the girl child in the State.

### Awareness yatras

The Ministers flagged off Awareness Yatras in different districts as a prelude to Prime Minister Narendra Modi launching the Beti Bachao Beti Padhao national programme from Panipat on January 22.

Union Minister for Rural Development Birender Singh urged women to boycott those who pressured them or



Haryana CM M.L. Khattar launches the Beti Bachao, Beti Padhao campaign in Chandigarh on Saturday. - PHOTO: PTI

others to resort to female foeticide. Mr. Singh said the Beti Bachao Beti Padhao programme seeks to eradicate this practice.

State Health Minister Anil Vij urged social and religious institutions and khap panchayats to support the national programme and take a pledge that they would not let

female foeticide take place in their areas. The school managements, which will ensure maximum enrolment of girls, would be awarded, he declared.

Mr. Vij said besides saving the girl child, her education was necessary.

He said the programme would be implemented in 100

districts of the country, out of which 12 districts of Haryana with the lowest sex ratio have been selected. These are Mahendragarh, Jhajjar, Rewari, Sonapat, Ambala, Kurukshetra, Rohtak, Karnal, Yamuna Nagar, Kaithal, Bhiwani and Panipat.

In Sonapat, Haryana Women and Child Development Minister Kavita Jain said the scheme would "spread awareness among people regarding security of girls, female foeticide, declining sex ratio, education and empowerment of women."

The yatras would travel to different parts over three days and sensitise people about these burning issues.

The Hindu, January 18, 2015, P. 7  
(Campaign-Beti Bachao Beti Padhao)

## PM to launch Beti Bachao campaign on January 22

Staff Reporter

**GURGAON:** In order to improve the skewed sex ratio in Gurgaon, a "Beti Bachao-Beti Padhao" campaign awareness yatra was flagged off by Haryana PWD (B&R) and Public Health Minister Rao Narbir Singh at Swatanarta Senani Zila Parishad Bhawan here on Sunday. He also released a calendar of "Beti Bachao-Beti Padhao" campaign.

Mr. Singh said that Prime Minister Narendra Modi would launch the national programme of "Beti Bachao-Beti Padhao" campaign on January 22 at Panipat.

He said that the Prime Minister was concerned about the imbalance in sex ratio and also about the low literacy rate among females; therefore, he

"Beti Bachao-Beti Padhao" campaign awareness yatra was flagged off by PWD (B&R) and Public Health Minister Rao Narbir Singh

thought of launching the campaign to generate awareness among the public. He made an appeal to the people to curb female foeticide and provide education to their daughters.

No programme or policy can become successful without the participation of the masses; the government alone could not achieve the target; and a mass movement was necessary for bringing a social awakening.

The Hindu, January 19, 2015, P. 4



## बेटियों को बचाने, पढ़ाने में करें सहयोग : गुर्जर

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जनजागृति यात्रा को दी झण्डी

फरीदाबाद, 18 जनवरी (हप्र)

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जनजागृति यात्रा को फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित कन्वेंशन सेंटर से झण्डी दिखाकर को रवाना किया। इस अवसर पर गुर्जर ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारम्भ किए जा रहे बेटियों को बचाने तथा पढ़ाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम को एक जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में देश के सभी नागरिक अपना सक्रिय सहयोग दें। इस मौके पर केन्द्रीय राज्यमंत्री ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय कार्यक्रम



फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित हूडा कन्वेंशन सेंटर से रविवार को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जनजागृति यात्रा को झण्डी देते हुए केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। -शिव

से सम्बन्धित एक कैलेंडर भी जारी किया। केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर ने कहा कि सरकार केवल 'जनजागृति' उत्पन्न करने का कार्य कर सकती है।

किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसामान्य की भागीदारी अति आवश्यक है। बेटियों को बचाने तथा पढ़ाने के प्रधानमंत्री के इस

राष्ट्रीय कार्यक्रम को धरातलीय रूप देने में देश के नागरिकों को सेवा-समर्पण भाव से कार्य करना होगा।

हूडा कन्वेंशन सेंटर से झण्डी देकर रवाना की गई 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जनजागृति यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई गांवों में भी पहुंची। समारोह में विधायक विपुल गोयल, विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक टेकचन्द शर्मा, भाजपा नेता राजेश नागर, भाजपा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय गौड़, उमेश भाटी, नयनपाल रावत, नगराधीश गौरव अंतिल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेश पंकज, हूडा के कार्यकारी अधिकारी सतपाल सिंह मौजूद थे।

Dainik Tribune (H) , January 19, 2015, P. 7

## Govt plans 'Kilkari' scheme on mother and child care

STATESMAN NEWS SERVICE  
New Delhi, 18 January

The government plans to start at national level a computer-based tablet-based health reporting system for drafting health-related database of mothers and children, according to sources in the Union health ministry.

"The scheme of Chhattisgarh should be adopted as a model for the country," Union Minister for Health Mr J P Nadda said recently. He said that Health Ministry, the government has started Kilkari Yojana for mothers and infants. Under this scheme, mothers will be informed through an audio about how to look after infants, vaccinations etc. Chhattisgarh's tablet-based scheme and Government of

India's Kilkari scheme will be merged to bear better and effective results.

Commencing the first phase of the scheme as pilot project under National Urban Health Programme, he distributed computer tablets to ANMs (Auxiliary Nurse Midwives).

He said that it was an ambitious scheme for collection of health-related information.

He added that the ministry of health would examine and monitor the working system and its effectiveness. "Once it was found that the system was effective and worthy, it would be included in the National Health programme," Mr Nadda said, adding that the scheme would be made mandatory for other states also.

The tablet-based information system would enable quick and

accurate reporting and would also facilitate better monitoring of health programmes at directorate-level, the sources said.

"The system is extremely beneficial as it will help in collection of health information about entire family at a time, based on which effective steps will be taken to improve health facilities," they said. The government also plans to expand the scheme to include adolescent girls in the future.

"Tips on how to combat anaemia and on personal hygiene would be part of this," the sources in the ministry said. At the beginning, messages would be sent in six languages -- four north Indian and two south Indian. "Later more languages can be added as the programme expands," they added.

The Statesman, January 19, 2015, P. 5

(Scheme-Kilkari)



## फरीदाबाद में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जागृति यात्रा शुरू

फरीदाबाद, 19 जनवरी (जनसत्ता)। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने रविवार को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जनजागृति यात्रा को झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए जा रहे बेटियों को बचाने और पढ़ाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम को एक जनआंदोलन का रूप देने में अपना सहयोग दें। गुर्जर ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ से संबंधित एक कैलेंडर भी जारी किया। महिलाओं के उत्थान और कल्याण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को पानीपत में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम पहले देश के सौ जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें हरियाणा के भी 12 जिले शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम के प्रति समाज में जनसंवेदनाएं, जनजागृतियां और जनचेतनाएं उत्पन्न करने की दिशा में 1 जनवरी से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में 17 जनवरी से जनजागृति यात्राएं निकाली जा रही हैं।

जनजागृति यात्राओं के इस क्रम में

फरीदाबाद के सैक्टर-12 स्थित हुडा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जनजागृति यात्रा समारोह में गुर्जर ने कहा कि सरकार केवल जनजागृति उत्पन्न करने का कार्य कर सकती है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसामान्य की भागीदारी अति आवश्यक है। गुर्जर ने कहा कि बेटियां अनमोल धन हैं। बेटियां बेटों की अपेक्षा अधिक सहनशील होती हैं। सभी क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की उपलब्धियां बेटों से कहीं अधिक हैं। सरकार के अतिरिक्त समाज में बेटियों को बचाने, पढ़ाने, सिखाने और रोजगार दिलाने का कार्य करना है। समाज को बेटियों के सभी आर्थिक और सामाजिक अधिकार उन्हें देने होंगे ताकि सशक्त राष्ट्र के निर्माण में बेटियों की भी अहम भूमिका रहे।

उपायुक्त अमित कुमार अग्रवाल ने असंतुलित लिंगानुपात के लिए कन्या भ्रूण हत्या को कारक बताते हुए कहा कि समाज को अब अत्यंत सचेत एवं जागृत होने की नितांत आवश्यकता है। सन फाउंडेशन के अध्यक्ष

विक्रमजीत सिंह ने कहा कि कन्याओं के आर्थिक उत्थान के लिए उनकी संस्था सदैव सक्रिय सहयोग करेगी। इस मौके पर मोदी के संदेश से संबंधित वीडियो भी दिखाई गईं और सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक कार्य विभाग की भजन मंडली द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के प्रति सचेत करने के लिए भजन प्रस्तुत किया गया। समारोह का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त आदित्य दहिया के समन्वयन में किया गया। हुडा कन्वेंशन सेंटर से झंडी देकर रवाना की गई बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जनजागृति यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई गांवों में भी पहुंची। समारोह में विधायक विपुल गोयल, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक टेकचंद शर्मा, भाजपा नेता राजेश नागर, भाजपा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय गौड़ भी मौजूद थे। इसके अलावा नगराधीश गौरव अंतिल, जिला विकास और पंचायत अधिकारी नरेश पंकज, हुडा के कार्यकारी अधिकारी सतपाल सिंह, सन फाउंडेशन की निदेशक चित्रा साधु और मुख्य ऑपरेशन अधिकारी ईशा भंडारी भी मौजूद थीं।

Jansatta (H), January 20, 2015, P. 4  
(Beti Bachho Beti Padhao)

## बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ रथ को किया रवाना

जानजील, 19 जनवरी (जिस)

जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज दौंगडा अहीर से एसडीएम कर्नीना सतबीर सिंह ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व अटेली सीडीपीओ कार्यालय से डीआईपीआरओ उषा रानी ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को बेटी बचाने की शपथ दिलवाई। इस मौके पर उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए एसडीएम सतबीर सिंह ने कहा कि यह अभियान प्रदेश के 12 जिलों में चलाया जा रहा है, जहां लिंगानुपात में भारी

अंतर है। इसी अभियान के तहत 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में राष्ट्रीय कार्यक्रम बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। इस अभियान की शुरुआत आज अटेली खंड के गांव गणियार से की गई। इस अभियान के अंतर्गत आज गांव गनियार, बिहाली, कांटी, खेड़ी, नाउदी, खोड, ताजपुर, चाछीद, गुवानी, कुजपुरा, भूषण कला, पटीकरा, कोजिंदा, मंदाणा, कांवी, कुलताजपुर, कोरियावास, भांखरी, दौचाना, बलाहा-कला में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजन किया गया।

Dainik Tribune (H) , January 20, 2015, P. 6



## जन धन योजना गिनीज बुक में दर्ज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राजग सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। योजना के तहत एक सप्ताह में रिकॉर्ड संख्या में बैंक खाते खुलने की वजह से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसके तहत 26 जनवरी तक साढ़े सात करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 17 जनवरी तक 11.5 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। पीएमजेडीवाई के तहत अधिकांश खाते महिलाओं के नाम खुले हैं। वहीं शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक खाते खोले गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में मंगलवार को गिनीज बुक के प्रतिनिधियों ने इस आशय का प्रमाणपत्र बैंकिंग विभाग के सचिव हंसमुख अडिया को सौंपा।

सीधे खाते में जाएगी करोड़ों की राशि >> 12

## सीधे खाते में जाएगी करोड़ों की राशि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सबसे ज्यादा बैंक खाता खोल कर प्रधानमंत्री जन धन योजना ने एक विश्व रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन अब समय इसका जमीनी तौर पर असर देखने का है। सरकार की मानें तो देश के 99 फीसद परिवारों का बैंक खाता खुलने से न सिर्फ सस्मिडी का बंधन कम होगा, बल्कि स्कीमों को सीधे आम जनता तक पहुंचाने का रास्ता भी खुलेगा। एक आकलन के मुताबिक अगले वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ही 66,000 करोड़ में से 33,000 करोड़ बंटेंगे मनरेगा मजदूरों के बीच। सरकार इन बैंक खातों के जरिये 66,000 करोड़ रुपये की राशि वितरित करेगी। इसमें से 33,000 करोड़ रुपये की राशि मनरेगा के तहत काम करने वालों को बांटे जाएगी। लगभग 18,000 करोड़ रुपये की राशि बतौर एलपीजी सस्मिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा पेंशन व छात्रवृत्ति के मद में 15 हजार करोड़ रुपये बांटे जाएंगे। देश में एलपीजी सस्मिडी सीधे बैंक खाते का काम चालू हो चुका है। अभी तक 8.03 करोड़ एलपीजी ग्राहकों के बैंक खाते में पैसे जाने शुरू हो चुके हैं। शेष बचे लगभग 7.50 करोड़ अन्य ग्राहकों के बैंक खाते में भी सस्मिडी की राशि अगले तीन महीनों के बीच जानी शुरू हो जाएगी। अगर सस्मिडी मौजूदा स्तर पर ही बनी रहती है तो इस वर्ष 17,777 करोड़ रुपये की राशि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों के जरिये जाने लगेगी। मनरेगा के तहत 10 करोड़ श्रमिकों के खाते में 33 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर भी होने लगेगी। इन दोनों के अलावा पेंशन और छात्रवृत्ति ट्रांसफर का काम भी तेज होगा।

Dainik Jagran (H), January 21, 2015, P.1 & 12  
(Pradhanmantri Jan Dhan Yojana)

## सीधे बैंक खाते में जाएंगे 66,000 करोड़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सबसे ज्यादा बैंक खाता खोल कर प्रधानमंत्री जन धन योजना ने एक विश्व रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन अब समय इसका जमीनी तौर पर असर देखने का है। सरकार की मानें तो देश के 99 फीसद परिवारों का बैंक खाता खुलने से न सिर्फ सस्मिडी का बंधन कम होगा, बल्कि स्कीमों को सीधे आम जनता तक पहुंचाने का रास्ता भी खुलेगा। एक आकलन के मुताबिक अगले वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ही सरकार इन बैंक खातों के जरिये 66,000 करोड़ रुपये की राशि वितरित करेगी। इसमें से 33,000 करोड़ रुपये की राशि मनरेगा के तहत काम करने वालों को बांटे जाएंगे। लगभग 18,000 करोड़ रुपये की राशि बतौर एलपीजी सस्मिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा पेंशन व छात्रवृत्ति के मद में 15 हजार करोड़ रुपये बांटे जाएंगे। देश में एलपीजी सिलेंडरों पर सस्मिडी सीधे बैंक खाते का काम चालू हो चुका है। अभी तक 8.03 करोड़ एलपीजी गैस सिलेंडर ग्राहकों के बैंक खाते में पैसे जाने शुरू हो चुके हैं। शेष बचे लगभग 7.50 करोड़ अन्य ग्राहकों के बैंक खाते में भी सस्मिडी की राशि अगले तीन महीनों के बीच जानी शुरू हो जाएगी। अगर सस्मिडी मौजूदा स्तर पर ही बनी रहती है तो इस वर्ष 17,777 करोड़ रुपये की राशि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों के जरिये जाने लगेगी। इसके अलावा मनरेगा के तहत 10 करोड़ श्रमिकों के खाते में 33 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर भी होने लगेगी। इन दोनों के अलावा पेंशन और छात्रवृत्ति ट्रांसफर का काम भी तेज होगा। इन दोनों मद में चालू वित्त वर्ष के दौरान भी 20,000 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएंगे। चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन मद में 9,690 करोड़ रुपये और छात्रवृत्ति के मद में 5,756 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है।

अगले वित्त वर्ष 2015-16 से दिखना शुरू होगा जन धन योजना का असर

- 33,000 करोड़ रुपये बंटेंगे मनरेगा मजदूरों के बीच
- 18,000 करोड़ रुपये की सस्मिडी एलपीजी ग्राहकों को
- पेंशन व छात्रवृत्ति के मद में भी जाएंगे 15,000 करोड़

Dainik Jagran (H), January 21, 2015, P. 10



**रिकॉर्ड**

## प्रधानमंत्री जन-धन योजना गिनीज बुक में

**11.50 करोड़ बैंक खाते खोले गए अब तक, लक्ष्य से 4 करोड़ ज्यादा**

**9188 करोड़ रुपए जमा हैं 3.23 करोड़ खातों में**

**8.27 करोड़ खातों में नहीं जमा है एक भी रुपया**

**नई दिल्ली.**

वित्तीय समावेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीबाय) गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई है। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेसवार्ता के दौरान गिनीज बुक के अधिकारी ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हसमुख अदिया को सर्टिफिकेट प्रदान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच एक हफ्ते में 1 करोड़ 80 लाख 96 हजार एक सौ तीस खाते खोलने के लिए योजना को गिनीज बुक में शामिल किया गया। 26 जनवरी 2015 तक 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का सरकार का लक्ष्य था, लेकिन 17 जनवरी तक 11.50 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं।

| खातों का गणित |             |
|---------------|-------------|
| कुल खाते :    | 11.50 करोड़ |
| पुरुष :       | 5.68 करोड़  |
| महिला :       | 5.82 करोड़  |
| गांव :        | 6.84 करोड़  |
| शहर :         | 4.66 करोड़  |

**ओडिशा, जम्मू-कश्मीर फिसड्डी**

वित्त मंत्री ने बताया कि ओडिशा और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अधिकतर राज्यों ने 99 से 100 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस योजना के जरिए हम न केवल समाज के सभी तबकों को आधुनिक वित्तीय सेवा से जोड़ रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश लांग रन में सोसाइटी को कैशलेस बनाना भी है।

**सरकारी योजनाओं के पैसे से बढ़ाएंगे डिजिटल**

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हसमुख अदिया ने कहा कि एलपीजी की सब्सिडी से इन खातों में 622.32 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। मनरेगा, पेंशन और स्कॉलरशिप समेत 27 योजनाओं का भी पैसा सीधा खातों में जाएगा।

Rajasthan Patrika (H), January 21, 2015, P. 1  
(Pradhanmantri Jan Dhan Yojana)

## ‘सबको घर’ देने वाली योजनाओं को हरी झंडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘सबको घर’ देने वाली सभी योजनाओं को बुधवार को हरी झंडी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिले सुझावों को शामिल कर शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय जल्दी ही अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगा। वर्ष 2022 तक सबको घर देने के लिए फिलहाल दो करोड़ मकानों की कमी को पूरा करना है।

बैठक में शहरों में मकान की कमी को पूरा करने के लिए फिलहाल दिल्ली में छह लाख, मुंबई में 16 लाख, कोलकाता व चेन्नई में चार-चार लाख मकान बनाये जाएंगे। जरूरत और मांग के हिसाब से यह संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। राजग सरकार का यह अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी संबद्ध विभागों को आवासीय योजनाओं की रूपरेखा और रियायती कर्ज मुहैया कराने की योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवास में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और मंत्रालय के सभी आला अफसर मौजूद थे।

आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने कार्यक्रम को संशोधित स्वरूप में प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया। मकानों की भारी कमी को पूरा करने की योजना के बारे में भी बताया गया। केंद्र व राज्य की जिम्मेदारियों के साथ लोगों को मकान उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा की गई।

केंद्र की योजना के तहत वर्ष 2022 तक दो करोड़ से अधिक मकान बनाने का प्रस्ताव है। इसमें स्लम बस्तियों और कम आय वर्ग के लोगों के लिये सस्ते मकान भी शामिल हैं। शहरी गरीबों व बिना घर वालों के साथ शहरों में आई नई आबादी के लिए भी मकान की जरूरत है। शहरों के साथ कस्बों को इसके दायरे में रखा जाएगा।

- देशभर में दो करोड़ मकानों की कमी पूरा करेगी केंद्र सरकार
- दिल्ली में छह लाख और मुंबई में 16 लाख मकान बनाए जाएंगे

Dainik Jagran (H), January 22, 2015, P. 3  
(Scheme-Sabko Ghar)



## हरियाणा

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर राष्ट्रीय कार्यशाला का दूसरा दिन


# महिला दिवस पर देशभर से 660 महिलाएं होंगी सम्मानित

एनसीआरईटी की किताबों में लिखे जाएं महिला अधिकार

पानीपत, सोनीपत, 21 जनवरी (हम)

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर पहली बार जिला महिला सम्मान पुरस्कार से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली देश भर की 660 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए फरवरी माह के अंत तक केंद्रीय मंत्रालय को नामांकन जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

मेनका गांधी बुधवार को पानीपत में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित नवदिशा कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात के प्रति लोगों को जागरूक कर तथा कार्यशाला में हुए मंथन का निचोड़ निकाल कर और उसे अमलीजामा पहनाते हुए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए महिलाओं से विचार-विमर्श के लिए एक मंच होना जरूरी है। हरियाणा, राजस्थान व गुजरात जैसे राज्यों में आंगनवाड़ी एवं सामुदायिक केंद्रों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है, परंतु उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह स्थिति काफी चिंताजनक है। इस पर हमें जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट मनरेगा के तहत भी ऐसे भवनों का निर्माण करवा सकते हैं।



पानीपत में बुधवार को राष्ट्रीय बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यशाला के दौरान केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी कच्चा भूण हरियाणा के खिलाफ शपथपत्र पर साइन करती हुईं। -वि.कुमार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कन्या भूण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गर्भपात प्रक्रिया की एक फिल्म भी दिखाई जानी चाहिए, जैसा की गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन ने अपने संबोधन में स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सेम्युअल की आत्मकथा का जिक्र किया था, जिन्होंने फिल्म देखने के बाद अपना अस्पताल बंद करने का निर्णय लिया था।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी एवं हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने लिंगानुपात पर शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित स्लोगन, निबंध लेखन एवं पेंटिंग प्रतियोगिता के 22 स्कूली छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया। सबसे पहले कस्तूरबा गांधी विद्यालय नूंह मेवात की छठी कक्षा

की छात्रा वसीमा को सम्मानित किया गया। इनको केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत का ब्रांड अंबेसडर भी बनाया है। समारोह में सीएम मनोहर लाल, विधानसभा के अध्यक्ष कवरपाल गुर्जर, सांसद रमेश कौशिक के अलावा भाजपा के विधायक, मुख्य सचिव डीएस देसी व अन्य मौजूद थे।

Contd...



### केंद्र की सबला योजना में भी संशोधन की तैयारी

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों के अंतिम पृष्ठ पर महिलाओं के क्या हक हैं? के संबंध में जानकारी का पेज छपा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार की सबला योजना में संशोधन के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बात कर रहा है। इसके लिए पहले सभी राज्यों के शिक्षण मंत्रियों की बैठक बुलाकर सहमति देनी होगी। गांधी का यह भी सुझाव था कि स्कूल छुट्टी के पश्चात सप्ताह में दो दिन 14 साल से अधिक उम्र के लड़कें व लड़कियों को अतिरिक्त समय देकर उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए तथा इसके लिए परीक्षाएं भी आयोजित की जानी चाहिए।

## बेटी बचाने का संकल्प और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पर रहा जोर

पुरुषोत्तम शर्मा / हप  
पल्लोपत/सोनीपत, 21 जनवरी

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान वर्तमान चुनौतियों तथा भविष्य की योजनाओं पर मंथन किया गया। इनमें कुछ मुद्दों पर सर्वसम्मति बनी, तो कई मुद्दों पर सुधार की गुंजाइश महसूस की गई। कार्यशाला में महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, नवजात शिशुओं के समक्ष पोषाहार, स्वास्थ्य, मानव तस्करी, बाल विकास एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभिन्न राज्यों के मंत्री व अन्य प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों ने पैनल चर्चा में हिस्सा लिया।

कार्यशाला में इस बात पर बल दिया गया कि ऐसी योजनाएं बनें, जो देशव्यापी हों और हर इलाके में कारगर ढंग से कामकाज को बेहतर कर सकें। इसके लिए गहन मंथन के

### महिला दिवस पर होगी नयी योजना की घोषणा

महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने बताया कि मानव तस्करी के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए इस विषय को पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार वर्तमान में संचालित लाइली योजना का संशोधन करने जा रही है जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने संबोधन में कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर लिंगानुपात में प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं जिसके तहत 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये व 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।



कार्यशाला के दौरान एक बच्ची को सम्मानित करते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी। हप

बाद जो तथ्य उभरकर सामने आया है, उसमें बेटी बचाने का संकल्प और लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता को पहला पायदान माना गया। इसके लिए सुरक्षा और महिलाओं व बच्चियों के लिए बेहतर योजनाओं की भी दरकार महसूस की गई। कार्यशाला में महिला एवं

बाल विकास मंत्री कविता जैन ने मानव तस्करी को लेकर नयी चुनौतियों से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि कठोर कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तथा संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी इच्छा शक्ति के अभाव में इसे मौन स्वीकृति देकर अंकुश नहीं लगाया जा रहा।

Dainik Tribune (H) , January 22, 2015, P. 3



**Your Daughter Will  
Make You Proud  
One Day.  
Let Her Live.**

Launch of  
**Beti Bachao Beti Padhao  
Programme**




by  
**Shri Narendra Modi**  
Hon'ble Prime Minister  
on 22<sup>nd</sup> January, 2015  
at HUDA Ground, Panipat, Haryana

— In the presence of —  
**Smt. Maneka Sanjay Gandhi**  
Minister for Women & Child Development,  
Govt. of India

— Chief Guest —  
**Shri Manohar Lal**  
Chief Minister, Haryana

Join a mass movement initiated by Govt of India to ensure survival,  
protection and empowerment of the girl child and enabling her education.

Issued in public interest by  
**Ministry of Women and Child Development**  
Government of India  
[www.wcd.nic.in](http://www.wcd.nic.in)



The Indian Express, January 22, 2015, P. 11  
(Programme-Beti Bachao Beti Padhao)



**एक दिन आपकी बेटी  
आपका मान बढ़ाएगी  
उसे जीने दें।**

**श्री नरेन्द्र मोदी**

माननीय प्रधानमंत्री  
द्वारा

**बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ  
कार्यक्रम  
का उद्घाटन**

**22 जनवरी, 2015**

स्थान : हुडा ग्राउंड, पानीपत, हरियाणा

— उपस्थिति —

**श्रीमती मेनका संजय गांधी**

महिला एवं बाल विकास मंत्री,  
भारत सरकार

— मुख्य अतिथि —

**श्री मनोहर लाल**  
मुख्यमंत्री, हरियाणा

लड़कियों के अस्तित्व, संरक्षण एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने एवं  
उसकी शिक्षा को संभव बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में शामिल हों।




जनहित में जारी  
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**  
भारत सरकार  
[www.wcd.nic.in](http://www.wcd.nic.in)



Nav Bharat Times (H), January 22, 2015, P. 13






The image shows a newspaper clipping with a yellowish background. At the top center is the State Emblem of India, featuring the Lion Capital of Ashoka with the motto 'Satyameva Jayate' below it. Below the emblem, the text reads 'Inauguration of' in black, followed by 'SUKANYA SAMRIDHI KHATA' in large, bold, red capital letters. Underneath, it says 'by' in black, followed by 'Sh. Narendra Modi' in large, bold, blue capital letters, and 'Hon'ble Prime Minister' in black. The date and venue are listed as 'Date: Jan 22, 2015' and 'Venue: Huda Ground, Panipat, Haryana'. At the bottom, there is a logo of the National Saving Institute, a stylized blue and white 'N' shape. Below the logo, the text reads 'National Saving Institute', 'Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance', 'Government of India', and 'Website: www.nsiindia.gov.in'.

**Inauguration**  
**of**  
**SUKANYA SAMRIDHI**  
**KHATA**


**by**  
**Sh. Narendra Modi**  
**Hon'ble Prime Minister**

**Date: Jan 22, 2015**    **Venue: Huda**  
**Ground, Panipat, Haryana**

  
**National Saving Institute**  
Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance  
Government of India  
Website: [www.nsiindia.gov.in](http://www.nsiindia.gov.in)


Hindustan Times, January 22, 2015, P. 21  
(*Sukanya Samridhi Khata*)





माननीय प्रधानमंत्री  
**श्री नरेन्द्र मोदी**  
द्वारा  
**सुकन्या समृद्धि खाता**  
का  
**शुभारंभ**

दिनांक : 22 जनवरी 2015 स्थान :  
हुडा ग्राउंड, पानीपत, हरियाणा



**राष्ट्रीय बचत संस्थान,**  
बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय  
भारत सरकार  
वेबसाइट : [www.nsiindia.gov.in](http://www.nsiindia.gov.in)

Hindustan (H), January 22, 2015, P. 16



हरियाणा

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ पर  
मुख्यमंत्री खट्टर की घोषणा

## अब पहली बेटी के जन्म पर ही 21 हजार का 'आशीर्वाद'



पानीपत में बृहस्पतिवार को आयोजित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के दौरान डाक टिकट जारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ सीएम मनोहर लाल, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, तंत्रिका मंत्री मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, खीरेन्द्र सिंह, कृष्णपाल गुर्जर व अन्य मौजूद रहे। एप

### ऐली में की गई महत्वापूर्ण घोषणाएं

- लड़कियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी।
- सभी स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य पोषण मिशन बनाया जाएगा।
- मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा का एजेंडा
- विधायक तथा अधिकारी आदर्श बाम योजना शुरू होगी

“महिला साक्षरता प्रतिशत का प्रतिशत चिंताजनक है। वर्तमान में प्रदेश की महिला साक्षरता दर 65.4 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 80 प्रतिशत है, हमें दोनों को 100 प्रतिशत करना होगा। इसके लिए सरकार लड़कियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। हरियाणा ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।”

-मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री

पानीपत/सोनीपत, 22 जनवरी (हप्र)

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहले से संचालित लाडली सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब लाडली योजना के तहत बीपीएल व अनुसूचित जाति के परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके तहत हरियाणा कन्या कोष तथा स्वस्थ हरियाणा के लिए हरियाणा स्वच्छता कोष स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी

बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वीरवार को शुरू किए गए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार रख रहे थे। खट्टर ने कहा कि पहले लाडली स्कीम के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता दी जाती थी। अब पहली बेटी के जन्म पर ही 21,000 रुपये जमा करवाये जाएंगे और 18 वर्ष के बाद यह राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने महिला साक्षरता प्रतिशत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश की महिला साक्षरता दर 65.4 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 80 प्रतिशत है, हमें दोनों को 100 प्रतिशत करना होगा। इसके लिए सरकार लड़कियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कोई भी बच्चा जमीन पर बैठ कर न पढ़े, इसके लिए सरकार ने 2016 तक सभी स्कूलों में बच्चों के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। वहीं

हर स्कूल में बेटियों के लिए टॉयलेट बनाए जाएंगे।

मेक इन हरियाणा लागू करेंगे

मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि प्रदेश में बच्चों और माताओं में कुपोषण की दर भी चिंताजनक है। इस कड़ी में भी राज्य स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर राज्य पोषण मिशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को यदि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप प्रदेश घोषित किया जाए, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि

Contd...



मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही मेक इन हरियाणा हमारा एजेंडा है। खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हरियाणा ने शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।

समारोह से पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका संजय गांधी, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार वेदी के अलावा कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में लिंगानुपात सुधार के कार्यक्रमों को लेकर लगाए गए चार्ट की जानकारी ली।

समारोह में मुख्यमंत्री ने एक बच्ची को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक महीपाल ढांडा, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त



पानीपत में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत के दौरान रूक-रूक कर बूबाबांदी होती रही। समारोह में पहुंची महिलाओं ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। महिलाओं ने उन पेंफ्लेट को अपने सिर पर रख लिया जिन्हें ऊपर बेटियों के संबंध में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई है। -रवि

प्रधान सचिव सुमिता मिश्रा, डॉ. यकेश गुप्ता, मीडिया सलाहकार अमित आर्य व ओएसडी (मीडिया) राजकुमार भारद्वाज, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता, सूचना जन संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के महानिदेशक डा. अभिलक्ष लिखी भी उपस्थित थे।

### सड़क मार्ग से गए मोदी

पानीपत (हप्र): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच जिले की सीमा से गुजरा। चप्पे-चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक बी सतीश बालन मुस्तैदी से निगरानी कर रहे थे। पीएम का कार्यक्रम हवाई मार्ग से पानीपत पहुंचने था, पर मौसम में आई खराबी के कारण अचानक उनका कार्यक्रम सड़क मार्ग से पानीपत जाने का बना दिया गया। एक बजकर 35 मिनट पर प्रधानमंत्री का काफिला कुंडली बाईर से प्रदेश की सीमा में प्रविष्ट हुआ। काफिले में सुरक्षा के मद्देनजर एक ही नंबर की काल रंग की 10 गाड़ियों को शामिल किया गया था।

### बेटियों की झलकियां

#### बेटियों के लिए मिलकर लें संकल्प: माधुरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीरवार को शुरू किए गए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेस्डर सिने तारिका माधुरी दीक्षित भी पानीपत पहुंची। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि बेटी बचाने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। तभी इस मुहिम का सार्थक परिणाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि बेटियां बेटों से कहीं आगे रहती हैं। उन्होंने अपने ही परिवार का उदाहरण दिया कि वे तीन बहनें व एक भाई हैं। लेकिन बाकजूद इसके उन्हें कभी मा-बाप ने ये फर्क महसूस नहीं होने दिया कि वे लड़की हैं।

#### मेनका गांधी के लंबे माघण पर हुई हूटिंग

समारोह में चयनित वक्ताओं को ही मौका दिया गया था। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद माधुरी दीक्षित बोली और फिर मेनका गांधी। इसके बाद पीएम मोदी ने संबोधन दिया। अंत में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अपने संबोधन के दौरान मेनका गांधी काफ़ी लंबा बोल गईं। इसे लेकर लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी और मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे। ये सुनकर मोदी मंच से मुस्कुरा दिए।



बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की ब्रांड एंबेसडर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित समारोह में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। -रवि कुमार

### मेरी बेटी मेरी खुशी



### सांसद अश्विनी चोपड़ा नहीं पहुंचे समारोह में

सांसद अश्विनी चोपड़ा समारोह में नहीं पहुंचे। यह मामला चर्चा में है कि सांसद किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। वहीं मंच पर खट्टर, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मंत्री कविता जैन व राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेटी को ही जगह मिल पाई।



पानीपत में हुए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में कई माताएं अपनी बेटियों के साथ पहुंचीं। -रवि कुमार

Dainik Tribune (H) , January 23, 2015, P. 3  
(Campaign-Beti Bachao Beti Padhao)



# लड़कों के समान लड़कियों की जन्मदर हासिल करने वाले गांवों को मिलेगा यह इनाम बेटियों को बढ़ावा देने पर एक करोड़

पानीपत | एजेसी

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ऐलान किया कि लड़कों के बराबर लड़कियों की जन्म दर हासिल करने वाले गांवों को एक करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। मेनका ने इस अभियान को जनघन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया के बाद चौथी बड़ी पहल बताया।

मेनका ने कहा कि देश में अभी भी 46 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं, इनमें लड़कियों की तादाद 70 फीसदी है। हरियाणा में 70 ऐसे गांव हैं जहां वर्षों से एक भी लड़की नहीं जन्मी। यह लड़कियों के अस्तित्व की लड़ाई है, जिसमें उन्हें हर हाल में जीत पानी होगी।

**मोदी ने किया प्रिंस का जिक्र :** वर्ष 2006 में बोरवेल में गिर गए प्रिंस को बचाने के 50 घंटे चले अभियान को याद करते हुए मोदी ने कहा कि पूरे देश ने उसकी जान बचाने की दिन रात प्रार्थना की थी। उन्होंने सवाल किया लोग अपने शर्द-गिर्द बच्चियों के मारे जाने को लेकर इतने संवेदनहीन कैसे हो जाते हैं। मोदी ने बताया कि अगर हम आज से भी कन्या भूषण का पाप रोक कर इस अनुपात को पटने का प्रयास करें तो भी इसे ठीक



पानीपत में गुरुवार को बच्ची को सुकन्या समृद्धि खाते की पास बुक देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ हैं मुख्यमंत्री एमएल खट्टर, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और माधुरी दीक्षित।

करने में 100 साल लग जाएंगे। मोदी ने कहा, 'देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षु की तरह बेटियों को बचाने की भीख मांग रहा है।' उनके लिए यह बहुत पीड़ादायक है कि एक ऐसा राज्य (हरियाणा) जिसने अंतरिक्ष को सैर करने वाली कल्पना चावला जैसी महिला को जन्म दिया। वह

अन्य कल्पना चावलाओं की मां के गर्भ में ही हत्या कर देता है।

**कन्या कोष योजना :** हरियाणा के सीएम ने राज्य में किसी लड़की के जन्म पर 21 हजार रुपये देने की योजना शुरुआत की। बेटी जब 18 साल की होगी तो यह राशि एक लाख रुपये के तौर पर उसे दी जाएगी।

देश में रोजाना करीब दो हजार लड़कियां मार दी जाती हैं। यह हमारे लिए शर्म का विषय है। इसे हर हाल में रोकना होगा। -मेनका गांधी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

मे खुश हू कि मोदी सरकार के पहले साल में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना शुरु की गई है। मुझे इस योजना से डेरों उम्मीदें हैं। -माधुरी दीक्षित फिल्म अभिनेत्री

## लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहन

1. बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना **02** हजार रुपये लड़की के जन्म पर
2. महाराष्ट्र में सुकन्या योजना **21** हजार रुपये लड़की के जन्म पर
- 01** लाख रुपये 18 साल की होने पर

## 3. उत्तराखंड में नंदा देवी कन्या योजना

- 05** हजार की एफडी बेटी के जन्म पर
- 18** साल की होने पर लड़की को मिलेगा धन

## 4. केंद्र की जननी सुरक्षा


- अस्पताल में प्रसव पर महिला को 1400, आशा बहू को 600 रुपये
- गर्भवती महिला को मदद से जुड़ी तमिलनाडु की अम्मा बेबी केयर किट

## साइकिल ने दी कन्या शिक्षा को रफ्तार

1. बिहार में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लड़कियों शिक्षा में बड़ा सुधार **9वीं** और **10वीं** की लड़कियों को दो हजार रुपये साइकिल के लिए **06-08** कक्षा की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना
2. यूपी में कन्या विद्या धन योजना **20** हजार रुपये बीपीएल परिवार की लड़की को 10वीं पास करने पर दिल्ली में लाडली शिक्षा योजना के तहत **8वीं** के बाद हर साल मदद यूपी में दसवीं पास लड़कियों को साइकिल बांटने की योजना लागू
3. दूसरे राज्यों में प्रोत्साहन झारखंड में लड़कियों के अलावा निर्बल आय वर्ग को भी मुफ्त साइकिल छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना **10वीं** पास लड़कियों के लिए **7.63** लाख लड़कियों को दस साल में दी साइकिल छत्तीसगढ़ में

Hindustan (H), January 23, 2015, P. 9





Hindustan (H), January 23, 2015, P. 9

### ‘आशा’ के कंधों पर ‘लाडो’ को बचाने की जिम्मेदारी

चंडीगढ़, 27 जनवरी (ट्रिब्यून)

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ‘आशा’ वर्कर्स और एएनएम की जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रदेश में ‘लाडो’ को बचाने का जिम्मा अब इनके कंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम को शुरुआत करने के बाद राज्य सरकार ने आशा वर्कर्स एवं एएनएम की जवाबदेही तय की है। गांवों में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इन दोनों महिला कर्मचारियों की इपूटी तय की गई है। यही नहीं, सरकार ने उन गांवों की भी सूची तैयार करनी शुरू कर दी है, जहां प्रति एक

हजार लड़कों पर बेटियों की संख्या 800 से कम है। बताते हैं कि इस तरह के गांवों की जिलावार सूची तैयार होगी। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) से ऐसे गांवों की सूची मांगी गई है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने आज सभी जिलों के सीएमओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि निर्देश दिए कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना पर उचित कदम उठाते हुए ऐसे गांवों की सूची तैयार करें जहां लिंगानुपात 800 से कम है।

Dainik Tribune (H) , January 28, 2015, P. 3



# बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ

मोदी जी की एक और अच्छी सोच, एक अच्छा अभियान (मूवमेंट) जिसकी देश में बहुत जरूरत है, क्योंकि कितने दुःख की बात है कि जिस देश में बेटी को देवी मानकर पूजा जाता है उसे बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। आजादी के बाद लगभग 5 करोड़ कन्या भ्रूण हत्याएं हो चुकी हैं। देश



कीर्ति चोपड़ा  
डेस्कपर्सन औरि कन्या बचाओ केटी बचाओ  
f/MiranChopra01  
kiran Chopradesk@gmail.com

के कई राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लड़कियों की संख्या कम है।

हमारा पंजाब केसरी परिवार तहे दिल से इस अभियान के साथ है और इसे सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसी के तहत मुझे एस. डी. कालेज की मैनेजमेंट और प्रिंसिपल अनुपम अरोड़ा ने 5,000 युवाओं की 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' रैली को सम्बोधित और फ्लैग करने के लिए बुलाया।

कालेज, स्कूल की मैनेजमेंट और प्रोफेसर से मिलकर और उन सबका उत्साह देखकर बहुत ही उम्मीद जागी कि इस अभियान को सफल बनाने में सबका साथ मिलेगा क्योंकि मोदी जी की अच्छी सोच, अच्छा अभियान तभी सफल हो सकता है जब सारे सामाजिक, शिक्षा संस्थान साथ जुड़ें और पूरे जोश से काम करें, गांवों के लोग साथ जुड़ें। मेरे साथ पानीपत और पानीपत ग्रामीण के एमएलए रोहिता रेवड़ी और महिपाल ढांडा भी थे। रोहिता बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की महिला हैं और महिपाल ढांडा बहुत ही सरल, स्पष्ट, जोशाले नौजवान हैं

जिनके चेहरे पर उनका काम बोलता है और वह लोगों के बहुत प्रिय एमएलए हैं। इन दोनों ने ही मुझे आश्वासन दिया कि हम सब मिलकर मोदी जी के अभियान को सफल बनाएंगे।

एस. डी. कालेज की लड़कियों और लड़कों को देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि उनके चेहरे अभी भी मेरे सामने हैं और सब युवाओं के साथ मैं बटस एप पर जुड़ूँगी, उनको मैंने कोई स्मील नहीं दी, बल्कि उनको अपने विचारों का हिस्सा बनाया और

उन्हें मर हर प्रश्न, हर सोंच का उत्तर देकर सहमति प्रकट कर न केवल अपनी योग्यता साझा की साथ में अपने इंस्टीच्यूट का नाम भी रोशन किया कि वह कितने अच्छे संस्थान के छात्र हैं। उनके प्रोफेसर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट उनके प्रति कितने मेहनती हैं।

वाकई कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ गरीब और अशिक्षित लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। अमीर और पढ़े-लिखे लोग भी इस अपराध में बराबरी के भागीदार हैं। कितनी विचित्र बात है कि कन्या भ्रूण हत्या कर माता-पिता अत्यंत निर्दयता से अपने ही अंश को जान ले लेते हैं, जो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है।

जीवन लेने का हक तो केवल उसी को है जो जीवन देता है। फिर हम किस अधिकार से जन्म लेने से पहले ही कन्याओं को मार देते हैं? वह भी बिना किसी शर्म के, बिना किसी अपराध बोध के।

बेटी बचाओ अभियान में सबसे बड़ी बाधा हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और मानसिकता है। कन्या भ्रूण हत्या का अहम कारण है, एक डर कि बेटा नहीं हुआ तो वंश कैसे चलेगा? हमारा नाम कौन रोशन करेगा? हम यह बात क्यों नहीं समझते कि हमारा नाम हमारे बच्चे रोशन नहीं करेंगे। हममें

खुद इतना दम तो होना चाहिए कि हम स्वयं अपना नाम रोशन कर सकें। सचिन ने क्रिकेट में, लता मंगेशकर जी ने संगीत को दुनिया में अपना नाम रोशन किया, शायद कई प्रतिशत लोगों को उनके माता-पिता का नाम भी नहीं पता होगा।

दूसरी सामाजिक सोच और मानसिकता कि यदि बेटी हुई तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? जरा सोचिये, इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा आपके पास

रहेगा। यदि बेटा लायक निकला तो आगे बढ़ने के लिए व्यस्त रहेगा, बाहर जा सकता है और नालायक निकला तो...! क्या सभी बेटे अपने माता-पिता को बुढ़ापे में सहारा देते हैं? यदि ऐसा है तो फिर बुढ़ा आश्रमों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है या अमीर-गरीब

लोग बुढ़ापे में क्यों भटकते हैं। अगर यकीन न हो तो किसी मंगलवार को आप मेरे आफिस में आकर बुजुर्गों का हाल देखो।

तीसरी सोच है कि मुखाग्नि कौन देगा? आज हमारी धार्मिक मान्यता ऐसी है कि जिस बेटे ने जीते जो एक गिलास पानी के लिए न पूछा हो, लेकिन मरने के बाद मुखाग्नि वही नालायक बेटा देगा। क्या बेटियों के अग्नि देने से हमारा शरीर जलेगा नहीं? वैसे भी— **आप मरे जग परलो होई!**

चौथी सोच या यूँ कह लो सामाजिक कुरीतियां हैं; जो बेटी को भ्रूण हत्या का कारण बनती हैं, जिसके लिए सबको एक होकर काम करने की जरूरत है। दहेज, बच्चियों के साथ रेप या उनका शोषण। यह असल में अहम मुद्दा है, जिस पर काम करना ही होगा।

लोगों को, समाज को अपनी सोच और मानसिकता बदलनी होगी। बिना दहेज के शादियां होनी चाहिए। जिस दिन दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी उस दिन कोख में बेटियां मुस्कराएंगी,



बेटियों का अभिनंदन होगा और लोग मंत्रों मांगेंगे कि उनके यहां बेटियां हों क्योंकि— **"दोनों आंखें एक समान, बेटों जैसे बेटों महान,**

**करनी है जीवन की रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा, बेटी को मरवाओगे, तो बहू कहां से लाओगे।"**



## पत्नी हो पढ़ी-लिखी, फिर भी देना होगा गुजारा भत्ता

■ प्राची, तीस हजारी

अदालत ने एक डॉक्टर को अलग रह रही अपनी पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 25,000 रुपये देने का निर्देश देते हुए कहा कि यह अपनी पत्नी के खासी पढ़ी-लिखी होने और कमाकर अपना गुजर-बसर अच्छे से कर पाने के लायक होने के आधार पर उसे गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट (महिला कोर्ट) मोना टडी करकेटा ने घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानों के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता के लिए दाखिल की गई महिला की याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज ऐसा वक्त है जब महिलाओं से भी घर खर्च की जिम्मेदारी उठाने और खुद को मेंटन करने के लिए कमाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस केस की असलियत यही है कि यहां पत्नी बेरोजगार है और उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है।

अदालत ने महिला के पति को उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराते हुए कहा कि शादी के बाद एक पति की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी क्षमताओं के तहत अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे। इसीलिए शिकायतकर्ता अंतरिम गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी है। पहली नजर में शिकायतकर्ता घरेलू हिंसा की पीड़ित नजर आती है।

**न्याय का तकाजा...**

■ पति का कहना था कि उनकी वाइफ जूलॉजी ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएट है  
■ वह कनाडा में सर्विस कर खासी रकम कमाती थी  
■ इसलिए वह फिर से सर्विस कर अच्छा कमा सकती है  
■ मगर कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर गुजारा भत्ता देने से बच नहीं सकते

**अदालत ने डॉक्टर को अलग रह रही पत्नी को 25 हजार महीने देने का निर्देश दिया**

महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि वह एक घरेलू महिला है, जिसके पास इनकम का कोई साधन नहीं है। वह अपने गुजर-बसर के लिए पूरी तरह अपने पैरेंट पर निर्भर है। उन्होंने अपने पति के बारे में दावा किया था कि वह एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और उत्तर प्रदेश सरकार के तहत मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी एक महीने की सैलरी 60,976 रुपये है। उनका पति दिल्ली में ही एक क्लिनिक चला रहे हैं, जिससे उन्हें हर महीने पांच लाख की आमदनी होती है। महिला ने अपने पति के पास काफी प्रॉपर्टी होने का भी दावा किया था।

मगर इनकम से जुड़े सभी दावों को खारिज करते हुए उनके पति ने कहा था कि महिला वेल क्वालिफाइड है। उन्होंने जूलॉजी ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। उन्होंने पूरी पढ़ाई कनाडा में की है। वह काम करके अच्छा कमा सकती है। वह कनाडा में डॉलर्स कमाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। खुद को ग्रामीण परिवेश से बताते हुए डॉक्टर ने कहा था कि वह मानवता की सेवा के लिए एक सरकारी अस्पताल में दिन-रात काम करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए पैसा बचा रहे हैं।

## ससुर पर गुजारा देने की जिम्मेदारी नहीं

**अदालत ने विधवा की ससुर से हर महीने 35 हजार दिलाने की मांग खारिज कर दी**

■ वरिष्ठ संवाददाता, रोहिंगी

अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में अपने ससुर से अंतरिम गुजारा भत्ता दिलाने की मांग करने वाली एक विधवा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें एक ससुर के अपनी बहू और पोते-पोतियों के गुजर-बसर की जिम्मेदारी तय की गई हो, चाहे उसके पास कमाई का जरिया हो या नहीं।

महिला ने अपने ससुर से 35,000 रुपये अंतरिम भत्ता के तौर पर दिलाने की मांग की थी।

मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट शिल्पी जैन ने महिला को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसका ससुर बेरोजगार है और यह रकम नहीं दे सकता। कोई भी कानून ससुर को अपनी बहू और पोते-पोतियों का गुजर-बसर का जिम्मेदार नहीं उठराता, चाहे उसके पास आमदनी का कोई जरिया हो या नहीं। उसके ससुर को भीख मांगने, उधार लेने या चोरी करने के लिए अदालत नहीं कह सकती।

अदालत ने कहा कि वैसे भी, महिला अपने ससुर के बराबर ही पढ़ी-लिखी है और कमाने के लायक है। अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के आधार पर कहा कि महिला नौवां क्लास तक पढ़ी है और उसे 1,000 रुपये प्रति महीना विधवा पेंशन भी मिल रही है, जबकि उसका ससुर मैट्रिक पास है और एक बेरोजगार वरिष्ठ नागरिक है। साथ ही उन पर अपनी पत्नी की भी जिम्मेदारी है।



Nav Bharat Times (H), January 7, 2015, P. 8



## Woman having baby via surrogacy must get all benefits: HC

**Kochi**

In a landmark judgement, Kerala High Court on Tuesday held that a woman, whose child is born of surrogacy, is also entitled to all maternity benefits. The judgement in this regard was passed by Justice D S Naidu on a petition filed by P Geetha, Deputy General Manager with the Kerala Livestock Development Board, whose child was born of surrogacy, reports PTL.

Geetha had approached the High Court challenging her employer's decision not to grant her maternity leave on the ground that her child had been delivered by surrogacy and she was not the biological mother.

Disposing the petition, the court held that there cannot be any discrimination between genetic and surrogate mother. Genetic mother is required to be placed on the same pedestal as the natural biological mother.

The court held that the maternity benefits are concerned on the grounds that the baby was obtained out of surrogacy. The petitioner was entitled to all benefits an employee would mother also.

The petitioner had waited for several years to get the baby after her only son was killed in a road accident. According to the court, the child's specific rights, if any, can be extended to the mother also.

Court declared that there ought not be any discrimination of a woman as far as ma-


board the Staff Rules and Regulation had no provision to grant leave to a woman employee who got a baby through surrogacy. However, when she applied for maternity leave, she was shocked to get a letter from the board stating that the rules did not permit any leave to the employees on maternity ground 'other than the maternity envisaged under the normal circumstances'.

She stated that the purpose of granting maternity leave was to take care of the newborn. There was no justification in refusing maternity leave to her on the ground that the baby was 'not born the normal way'. The care needed for babies born under normal circumstances and surrogacy was the same, she added.

**LANDMARK VERDICT**

tioner is required to be treated as a mother who has undergone pregnancy and delivered the baby and was entitled to all benefits that accrues to an employee, except convalescing after delivery.

From day one of the delivery, the petitioner is required to be treated as mother of the new born baby



Free Press Journal, January 7, 2015, P. 7  
(Surrogacy Bill)



## HC: Woman who becomes mother through surrogacy entitled to maternity leave

SHAJU PHILIP  
THIRUVANANTHAPURAM,  
JANUARY 6

THE Kerala High Court Tuesday ruled that an employed woman, who becomes mother through surrogacy, was entitled to child care benefits envisaged in the rules. The bench of Justice Dama Seshadri Naidu was hearing a petition moved by P Geetha, deputy general manager with the Kerala Livestock Development Board, who pleaded in the court that she be granted maternity leave to take care of her baby born through surrogacy.

The petitioner said the hired woman had delivered the child on June 18. Since the surrogate mother has handed over the child to her legal custody, Geetha wanted to take care of the baby like a biological mother.

She approached the Livestock Development Board for the six-month maternity leave, entitled to state government employees in Kerala. However, the board rejected the petition, stating that she should submit medical certificate to get maternity leave granted. She then moved the High

**The court observed that a biological mother and a surrogate mother should be treated on equal footing**

Court arguing that she was entitled to all rights of a biological mother.

Geetha's only son died in a road accident two decades back. Since then, she had undergone treatment, but could not conceive. As a last option she went for surrogacy. The court observed that a biological mother and a surrogate mother should be treated on equal footing. Pre-natal care and post-natal care are important stages of motherhood. The petitioner should not be discriminated on the ground that she did not give birth to the child.

The government argued that it denied maternity leave for the petitioner on the ground that her motherhood was not through the natural process. The court observed that at time when same-sex marriages were legalised, a mother should not be denied right to care for her child obtained through surrogacy.

The Indian Express, January 7, 2015, P. 8

**GENDER | GAP** ■ Representation of women low despite new Companies Act


## Women hold less than 10% seats in firms

New Delhi, Jan. 13: Women hold just 9.5 per cent of board seats in BSE 200 companies, a report has found.

However, the percentage is better than that of a few major countries like Japan and Portugal.

According to a study released by research firm Catalyst on Tuesday, women's share of board seats in India stand at a meager 9.5 per cent for BSE 200 companies.

The presentation of women on boards seats in India is very low despite the new Companies Act requiring every listed firm to appoint at least



● According to a study, the percentage of women on board seats in Norway is 35.5%, the highest. Japan stands at the bottom with only 3.1% women on board.

one woman member to their board.

The study titled '2014 Catalyst Census: Women Board Directors' has examined the gender diversity on boards at listed companies in 20 countries including the US, Canada,

Europe and Asia-Pacific (Australia, Hong Kong, India and Japan). The percentage of women on board in public listed companies is topped by Norway at 35.5 per cent, while Japan had the lowest (only 3.1 per cent

share of female board members among the countries studied.

In the UK, women hold 22.8 per cent of board seats in FTSE 100 index companies, in the US, women hold 19.2 per cent of S&P 500 company board seats and in Australia they hold 19.2 per cent of S&P ASX 200 index.

In Portugal, women hold 7.9 per cent of board seats, while in case of Canada, women's presentation is 20.8 per cent on S&P/TSX 60 board seats.

"We have evidence and optimism that closing the gender gap on corporate boards is possible, yet the

current numbers are simply not good enough," says Catalyst president and chief executive (CEO) Deborah Gillis.

"Companies that are not making diversity on boards a priority should be embarrassed. Smart leaders know that they can either lead the movement toward making profound and lasting impact, or be left behind," Mr Gillis added.

Increasing the percentage of women on a board of directors has been linked to better financial earnings, more innovation and higher group performances. —PTI

The Asian Age, January 14, 2015, P. 15  
(Companies Act)



**फैसला** पति की तलाक की अपील खारिज

## गर्भाशय न होना तलाक का कारण नहीं-हाई कोर्ट

**अहमदाबाद**  
ahmedabad@patrika.com

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि शादीशुदा महिला के शरीर में गर्भाशय का होना तलाक का कारण नहीं हो सकता। खंडपीठ ने इस कारण को लेकर पति की ओर से दायर तलाक की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बहाल रखा।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी का गर्भाशय नहीं होने पर पति से कूरता की बात तलाक का कोई आधार नहीं हो सकता।



खंडपीठ ने एक अन्य फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पुराने समय में यह कहा जाता था कि हिन्दुओं में विवाह का उद्देश्य संतान उत्पत्ति है लेकिन ऐसा नहीं होने पर पति का अपने विवाह को खत्म करने की कोई इजाजत नहीं मिल सकती। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें पत्नी के गर्भाशय नहीं होने के कारण संतान उत्पत्ति नहीं करने से पति को तलाक का अधिकार मिल जाता है। वर्तमान अधिनियम के तहत गर्भाशय नहीं होना तलाक का कारण नहीं हो सकता। गर्भाशय होने या नहीं होने का सुखद वैवाहिक जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। गर्भाशय भ्रूण विकास के लिए है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि बिना चिकित्सकीय सबूत के यह मानना उचित नहीं है कि महिला में गर्भाशय नहीं है।

मामले के अनुसार हेमन्त व हेमा (बदले नाम) का विवाह मई 1997 में हुआ था। हेमन्त ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया गया कि हेमा की अब वैवाहिक जीवन में रुचि नहीं है। हेमा दिसम्बर 98 में उसका घर छोड़ कर चली गई। इसके बाद फरवरी 2000 में फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया।

हेमन्त ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि हेमा ने अपने पति को विवाह से पहले या बाद में अपने शरीर में गर्भाशय नहीं होने की बात छिपाई। वैवाहिक जीवन में रुचि नहीं लेने के कारण हेमन्त हेमा को चिकित्सक के पास ले कर गया। चिकित्सक ने परीक्षण में बताया कि हेमा को गर्भाशय नहीं है। इसके बाद वह घर छोड़ कर चली गई। याचिका के अनुसार हेमा ने यह बात छिपाकर मानसिक प्रताड़ना दी। इसलिए हेमा के बच्चे नहीं जनने तथा छोड़ कर चले जाने को कूरता का आधार रखते हुए उसे तलाक मिलना चाहिए। उधर हेमा की ओर से अपील याचिका का विरोध किया गया था।

Rajasthan Patrika (H), January 21, 2015, P. 9  
(Court Order-Divorce Case)

## Panel for relook at Food Security Act

**NEW DELHI:** The NDA government-appointed panel has suggested a relook at the National Food Security Act to reduce the beneficiaries under the law from 67 per cent of the population to 40 per cent.

However, the High Level Committee (HLC) on restructuring of Food Corporation of India (FCI) favoured increasing the entitlement of subsidised foodgrains from 5 kg to 7 kg.

"Even before the (Lok Sabha) elections, many people in the BJP were of the opinion that 67 per cent was too high. Since the elections were due, it was felt that opposing it would affect the party's prospects. Hence it was decided that once in power, we would have a relook," committee chairman and BJP MP Shanta Kumar told reporters here.

The committee has recommended outsourcing of key functions of the FCI to the state governments and private players and slash bonuses offered to farmers over and above the Minimum Support Price fixed by the Centre. Suggesting streamlining of procurement operations, the HLC said, "state level bonuses must be contained, taxes and statutory levies made uniform at three per cent of the MSP, levies on rice millers abolished, and quality of grain to be adhered to through mechanical and transparent process."

**Deregulate fertiliser**  
The eight-member HLC, which presented its report to Prime Minister Narendra Modi on Wednesday, has also recommended complete deregulation of the fertiliser sector by paying the subsidy amount to farmers in cash.

Modi has asked the Food Ministry to examine the HLC report. If the Centre decides to make changes to the food security law, it would be the second UPA flagship initiative to be amended by the government. Earlier, the Centre had amended the land acquisition law by promulgating an ordinance.

**DH News Service**

Deccan Herald, January 23, 2015, P. 9  
(Food Security Act)



# Panel recommends Food Security Act beneficiaries be reduced to 40 per cent

STATESMAN NEWS SERVICE  
New Delhi, 22 January

The government should have a "second look" at the national Food Security Act, its commitments and implementation, a key official panel has recommended and suggested that there could be a cut in food subsidy and that government should give cash to beneficiaries.

The High level committee on Restructuring of FCI, that submitted its report to Prime Minister Narendra Modi yesterday, recommended that the Centre should have a second look at national Food Security Act and also the Minimum Support Price (MSP), their commitments and implementation.

"It also recommended to have a relook at the current coverage of 67 per cent of population; priority households getting only 5 kgs/person as allocation... committee's examination of these issue reveals that 67 per cent coverage of population is on a much higher side, and should be brought down to around 40 per cent," it said.

According to sources, the panel has suggested that "FCI should hand over procurement to six states like Punjab, Haryana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Odisha for wheat and rice."

The committee recommended that FCI procurement should focus on the eastern belt, where farmers do not get MSP.

The Centre has also launched a scheme to achieve the second green revolution in the eastern states, including Bihar, Jharkhand, West Bengal and Assam.

With states imposing higher mandi taxes on



wheat and rice, the panel favoured uniform tax of minimum 3 per cent and maximum 4 per cent and the same to be included in the minimum support price (MSP).

In Punjab, this tax rate now on wheat and rice is 14.5 per cent, sources said.

The union Finance Minister Arun Jaitley had allocated Rs 1.15 lakh crore for food subsidy this year, of which Rs 92,000 crore is for FCI. In petroleum subsidy, government has already started direct benefit transfer.

Direct cash transfer is expected to plug leakage and reduce subsidy bill.

Given that leakages in PDS range from 40 to 50 per cent, and in some states go as high as 60 to 70 percent, the panel headed by senior BJP leader Shanta Kumar said the government should defer implementation of the NFSA in states that have not done end to end computerisation; have not put the list of beneficiaries online for anyone to verify, and have not set up vigilance committees to check pilferage from PDS.

The Food Corporation of India (FCI), the Union government's nodal agency for procurement and distribution of foodgrains, also wants that grain storage to be outsourced to private

and government agencies like state-owned Central Warehousing Corporation (CWC) and state warehousing corporations.

"Immediately after the report was submitted to the Prime Minister, Modi has asked the Department of Food and Public distribution to expeditiously give its comments on the report so that it can be implemented in a time-bound manner," official sources said.

To strengthen distribution of foodgrains, the panel suggested "end-to-end computerisation" and setting up of a vigilance committee. At present, the leakage in PDS is estimated at 13.7 per cent.

The panel has recommended "giving cash transfer in 52 cities having 1 million or more population in two years" and also asked the government to give deficit states the option of either supplying grain or cash transfer.

The panel called for encouraging private investment in logistics. "Set up silos in next two-three years, encourage bulk handling of foodgrains through grain trains."

The panel maintained that the central government also needs to revisit the Minimum Support Policy (MSP).

"Currently, MSPs are announced for 23 commodities, but effectively price support operates primarily in wheat and rice and that too in selected states. This creates highly skewed incentive structures in favour of wheat and rice," it said.

The committee pointed out that while country is short of pulses and oilseeds (edible oils), their prices often go below MSP without any effective price support.

The Statesman, January 23, 2015, P. 7  
(Food Security Act)



## 5.4 Budget Allocation/Funding (Fund-Special fund for Girls)



The Hindu, January 21, 2015, P. 13  
*(Fund-Special fund for Girls)*



5.5 Schemes/Programme -Miscellaneous issues

# PLAN PANEL'S NEW AVATAR

## 'NITI AAYOG' REPLACES PLANNING COMMISSION

STATESMAN NEWS SERVICE  
New Delhi, 1 January

The Narendra Modi government today replaced the 65-year-old Planning Commission with a new body called NITI (National Institution for Transforming India) Aayog (Commission) that is mandated to provide "governments at the central and state levels with relevant strategic and technical advice across the spectrum of key elements of policy".

The proposed policy spectrum will include "matters of national and international import on the economic front, dissemination of best practices from within the country as well as from other nations, the infusion of new policy ideas and specific issue-based support", said a statement issued by the Cabinet Secretariat here this evening. The Prime Minister will be the chairperson of the NITI Aayog whose Governing Council will comprise of all chief ministers and Lt Governors (of UTs) in an exercise envisaged by the Centre to involve states in working out and pushing national development agenda and priorities in a spirit of "cooperative federalism".

"The institution (NITI Aayog) will serve as 'think tank' of the Government—a directional and policy dynamo," said the Cabinet Secretariat's statement.

"In the context of governance structures, the changed requirements of

### LEGACY BODY

The Planning Commission was set up by Nehru nearly 65 years ago



**1** The panel framed 12 five-year Plans and six annual Plans during the period

**2** The new body would have a CEO, with the PM as chairperson

**3** All state CMs would be members of the governing body

### WHAT'S NEXT

A PMO statement said the Centre-to-state one-way flow of policy is to be replaced by a genuine and continuing partnership of states.

our country, point to the need for setting up an institution that serves as a think tank of the government...The institution has to be able to respond to the changing and more integrated world that India is part of," the official statement said.

The establishment of NITI Aayog was in accordance with the announcement made by the PM Modi during his Independence Day speech that his government will scrap the Socialist-era Planning Commission and replace it with a

national body in light of the contemporary situation.

"The Centre-to-state one-way flow of policy, that was the hallmark of the Planning Commission era, is now sought to be replaced by a genuine and continuing partnership of states," said a separate statement issued by the PMO today. "NITI Aayog will seek to provide a critical directional and strategic input into the development process."

TURN TO PAGE 5

The Modi government maintained that this move came after extensive consultations with a range of stakeholders including state governments, domain experts and relevant institutions.

The Opposition parties - including the Congress, Left and Trinamul - were however not impressed, criticising the government's decision to abolish the Plan Panel which, they held, had properly served the interests of the states and the Centre so far.

The new policy body will have a Vice Chairperson and a CEO in addition to five full-time members and two part-time members, while four Union ministers would serve as its ex-officio members.

It will have experts, specialists and practitioners with relevant domain knowledge as special invitees nominated by the PM. It is supposed to put an end to "slow and tardy implementation of policy", the government claimed.

The noted economist, Arvind Panagariya is likely to be appointed by the PM as the NITI Aayog's first Vice-Chairman.

A Cabinet Resolution constituting the new body said that Regional Councils will be formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or a region. They will comprise of the CMs and Lt. Governors in the region. These will be chaired by the NITI Aayog Chairman or his nominee.

PM Modi hailed the setting up of this body in a series of tweets, maintaining that NITI Aayog will "provide key inputs on various policy matters" and "will emerge as an active and important institution that will play a pivotal role in India's development journey in the years to come".

Mr Modi also said, "Through NITI Aayog, we bid farewell to a 'one size fits all' approach towards development. The body celebrates India's diversity and plurality," and that a "pro-people, pro-active and participative development agenda stressing on empowerment and equality" is the body's guiding principle.

"Through the NITI Aayog we wish to ensure that every individual can enjoy the fruits of development and aspire to lead a better life," the PM said. "A landmark change is the inclusion of all State CMs & LGs of UTs in the NITI Aayog. This will foster a spirit of cooperative federalism."

The Cabinet Resolution invokes Mahatma Gandhi, B R Ambedkar, Swami Vivekananda and Deen Dayal Upadhyaya while citing their various quotes to reinforce the rationale behind the constitution of the new policy body.

It stated that the new body would seek to evolve a "shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states" and would thus provide a "national agenda" for the PM and the CMs to work on collectively.

The NITI Aayog would also monitor and evaluate implementation of various programmes and would promote a transparent regime based on technology besides ensuring an equitable and inclusive scheme of things.

The Opposition, however, criticised the Modi dispensation's move, calling it mere "fluff and gimmickry".

Wondering whether the move was merely a "change of nomenclature", the Opposition leaders also alleged that this might just set the stage for corporates and big private players to "call the shots" in framing and execution of major policies.

The Statesman, January 2, 2015, P. 1+5



## कन्या सुरक्षा पर महिला अखाड़ा की पहल

**उत्तर प्रदेश**

इलाहाबाद | निज संवाददाता

देश में कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए साधु-सन्ध्यासियों ने लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इसकी पहल महिला अखाड़ा की ओर से की गई है। परी अखाड़ा की ओर से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान की रूपरेखा सोमवार को संगम के किनारे तैयार की गई। अखाड़ा की शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने मकर संक्रांति पर अपने शिविर में कन्या रक्षा संघर्ष समिति का गठन किया। गोरखपुर की रहने वाली समाजसेविका प्रमिला श्रीवास्तव को

**बदलाव जारी**

- साधु-सन्ध्यासियों ने लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया
- अभियान की रूपरेखा सोमवार को संगम के किनारे तैयार की गई
- 25 सदस्यीय समिति में अखाड़ा की महिलाओं को शामिल किया गया
- कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेगी

समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

25 सदस्यीय समिति में अखाड़ा की महिलाओं को शामिल किया गया है। अखाड़े की योजना है कि एक साल के

**हरियाणा में 'सुकन्या समृद्धि खाता'**

चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी को पानीपत से बेटे बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के साथ-साथ 'सुकन्या समृद्धि खाता' नामक योजना की भी शुरुआत करेंगे। यह योजना असंतुलित लिंगानुपात और भेदभाव को दूर करने के लिए लड़कियों के प्रति साकारात्मकता लाना है। केन्द्र सरकार की 'सुकन्या समृद्धि खाता' नामक योजना के तहत लड़की पैदा होने पर खाता खुलवाया जा सकता है और यह दस साल की उम्र तक चलेगा। अधिसूचना जारी होने से एक वर्ष पहले तक जितनी भी कन्याएं 10 साल की हो चुकी हैं, वे भी इस योजना की पात्र होंगी।

भीतर पूरे देश में जिला स्तर पर समिति का गठन कर लिया जाए। इस दौरान समिति की महिला सदस्य अपने क्षेत्रों में जाकर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगी।

Hindustan (H), January 20, 2015, P. 8

## A software for monitoring health schemes

Quic Claim helps hospitals and govt share beneficiary details

Reshma Ravishanker

BENGALURU: Technology has enabled a private firm to devise a foolproof platform to record the transactions and other details under the newly launched Jyothi Sanjeevini and Rajiv Arogya Bhagya healthcare schemes.

The Quic Claim software, designed by Remidinet Technologies Private Limited, helps both the empanelled hospitals and the State government share information about the beneficiaries. The software also keeps patients in the loop.

According to Munish Daga, CEO, Remidinet Technologies Private Limited, the system not only helps record accurate data, making it easy for audits, but also, reduces the patients' waiting time and ensures that there is no manipulation of data.

Speaking to *Deccan Herald*, Daga said the software, also being used for the Vajpayee Arogyashree Health Scheme, is made use of from the time the patient is admitted to the hospital till the time he is discharged.

"The minute the patient's details are entered and the initial diagnosis is done, data is fed through the software keeping the government aware of the case. Then on, the system also shows the treatment rates and how much the patient is eligible to avail under the scheme in which he is enrolled," he explained.

### Delay monitoring

As each update in the patients' cases will be recorded along with the time, when an approval or service is delayed, the person concerned can be held responsible. "If there is a delay in the procedure anywhere, there is documented proof to tell whether the hospital took long or the government," said Daga.

The patients' documents

### How the scheme works

Those who need to avail treatment under the Rajiv Arogya Bhagya Scheme will have to get an APL card from the Department of Food and Civil Supplies. They will have to produce the same at the empanelled hospitals to avail the discount. On the charges that have been agreed upon by the hospitals, 70 per cent would be borne by the government while 30 per cent has to be paid by the patient. The Suvarna Arogya Suraksha Trust will co-ordinate the proceedings.

such as BPL or APL cards are uploaded on the software to ensure that everything is fool-proof.

The patients will also be permitted to see the data entered by the hospital and hence there cannot be any alteration in the amount entered by the hospitals.

Besides, the software also provides that the hospitals have to give an explanation in writing in case patients are charged the fee over and above the one agreed upon.

"For instance, if the hospital has fixed a particular rate for an appendix surgery, the patient will be asked to pay 30 per cent of the expenses and the government will pay the rest. If the hospital does additional tests or charges extra, it is mandatory that it mentions in the remarks column of the software before submitting. This way, unnecessary tests cannot be performed and the government will find out if anything of that sort is done," he said.

DH News Service

Deccan Herald, January 27, 2015, P. 2



## ***Acknowledgement***

|  |   |   |
|--|---|---|
| <i>Guidance and Support</i>              | : | Dr. Dinesh Paul<br>Director<br><br>Dr. Ashok Kumar<br>Additional Director         |
| <i>Project Incharge/s</i>                | : | Smt. Vandana Thapar<br>Joint Director<br><br>Vandana Sharma<br>Assistant Director |
| <i>Compilation</i>                       | : | P. P.S. Sengar<br>Associate Librarian   |
| <i>Computer Assistance</i>               | : | Sandeepa<br>Computer Operator   |
| <i>Assistance in Cutting and Pasting</i> | : | Chander Bhan  |